

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21]	नई दिल्ली, शनिवार, मई 23—मई 29, 2015 (ज्येष्ठ 2, 1937)
No. 21]	NEW DELHI, SATURDAY, MAY 23—MAY 29, 2015 (JYAISTHA 2, 1937)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the
Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 मई 2015

सेना शाखा

सं. 125, दिनांक 6 मई 2015—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को सहर्ष पदोन्नति करने की अनुमति प्रदान करते हैं :—

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

लैंड कर्नल बनाया जाता है

मेजर संदीप भटनागर	(टीए—42412)	(इन्फैन्ट्री)	30 मार्च 2014
मेजर संकेत शर्मा	(टीए—42793)	(इन्फैन्ट्री)	21 दिसम्बर 2014

भारत भूषण जोशी
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 126, दिनांक 6 मई 2015—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

नियमित सेना

इन्फेन्ट्री

मैकानाइज्ड इन्फेन्ट्री रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार भागीरथ	(जे सी-420949 पी)	01 जनवरी 2015
----------------	-------------------	---------------

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार जयपाल	(जे सी-422031 एन)	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार सुभाष चन्द	(जे सी-421628 के)	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार सतीश कुमार	(जे सी-422028 एन)	09 फरवरी 2015*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जाती है)

नायब सूबेदार जसवन्त रावल	(जे सी-422093 एन)	01 फरवरी 2015*
--------------------------	-------------------	----------------

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 जनवरी 2015 से दी जाती है)

नायब सूबेदार ध्रुवा चरण दास	(जे सी-421768 डब्लु)	02 फरवरी 2015*
-----------------------------	----------------------	----------------

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जाती है)

नायब सूबेदार राम गोपाल	(जे सी-422101 एफ)	01 फरवरी 2015
नायब सूबेदार बसपा उप्पर	(जे सी-422102 के)	17 फरवरी 2015*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जाती है)

नायब सूबेदार देवेन्द्रा पाल सिंह	(जे सी-422117 एम)	02 फरवरी 2015*
----------------------------------	-------------------	----------------

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जाती है)

नायब सूबेदार दिनेश बाबू ए पी	(जे सी-422202 पी)	01 फरवरी 2015
नायब सूबेदार रविन्द्र सिंह	(जे सी-422219 एच)	06 फरवरी 2015*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जाती है)

नायब सूबेदार होशिला शर्मा	(जे सी-422252 ए)	07 फरवरी 2015*
---------------------------	------------------	----------------

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जाती है)

नायब सूबेदार कैलाश प्रसाद	(जे सी-422326 के)	01 मार्च 2015
नायब सूबेदार सुबे सिंह भेहरा	(जे सी-422345 पी)	01 मार्च 2015

सूबेदार मेजर धर्म शिक्षक के रैंक में

सूबेदार (धर्म शिक्षक) आरयेन्द्र नाथ अग्निहोत्री	(जे सी-215278 एच)	01 नवम्बर 2014
---	--------------------	----------------

सूबेदार धर्म शिक्षक के रैंक में

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) चन्द्र प्रकाश लखेरा	(जे सी-419935 एच)	06 फरवरी 2015*
--	--------------------	----------------

*(सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जाती है)

नायब सूबेदार धर्म शिक्षक के रैंक में

प्रमोद कुमार पांडे	(जे सी-422639 एच)	27 सितम्बर 2014
दुश्यंत कुमार	(जे सी-422640 एक्स)	27 सितम्बर 2014
धर्मेन्द्र कुमार पांडे	(जे सी-422748 पी)	27 सितम्बर 2014

मनोज कुमार द्विवेदी (जे सी-422701 के) 07 फरवरी 2015
 नायब सूबेदार संगीतज्ञ के रैंक में
 हवलदार (संगीतज्ञ) कन्नन आर (नं 14923355 के अब जे सी-422747 एम) 02 फरवरी 2015@
 @ (नायबसूबेदार (संगीतज्ञ) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 अक्टूबर 2014 से दी जाती है)
 सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) ब्रजेश कुमार पाल (जे सी-422104 पी) 01 फरवरी 2015
 नायब सूबेदार (लिपिक) सुनिल कुमार (जे सी-422282 एक्स) 01 फरवरी 2015
 नायब सूबेदार (लिपिक) राम सहाय सेनी (जे सी-422284 एच) 01 फरवरी 2015
 नायब सूबेदार (लिपिक) थोटा वेन्कन्ना (जे सी-422285 एल) 01 फरवरी 2015
 नायब सूबेदार (लिपिक) अरुणा कुमार सी एच (जे सी-422286 एन) 05 फरवरी 2015 *

* (सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) व्ही मूर्थी (14924041 पी अब जे सी-422745 एफ) 19 जनवरी 2015*

*(नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जाती है।)

हवलदार (लिपिक) एन रामासामी (14924042 एक्स अब जे सी-422746 के) 01 दिसम्बर 2014

हवलदार (लिपिक) सुख सागर गुप्ता (14924187 एच अब जे सी-422749 एक्स) 02 फरवरी 2015 *

*(नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जाती है।)

हवलदार (लिपिक) वेणू पी (14924191 एल अब जे सी-422750 एम) 01 फरवरी 2015

हवलदार (लिपिक) रवीन्द्र कुमार (14924192 एन अब जे सी-422751 पी) 01 फरवरी 2015

हवलदार (लिपिक) सुमित मैत्रा (14924197 एम अब जे सी-422752 एक्स) 01 फरवरी 2015

हवलदार (लिपिक) पवार मोहन लक्ष्मण (14924055 पी अब जे सी-422753 ए) 02 फरवरी 2015 *

*(नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जाती है।)

राजीव जोहरी
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 127, दिनांक 7 मई 2015—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियों करते हैं:-

नियमित सेना

सेना शिक्षा कोर

सूबेदार मेजर रैंक में

सूबेदार	आशुतोष कुमार झा	जे सी 803179एल	01 मई 2014
सूबेदार	ए ब्रजेन्द्र शर्मा	जे सी 803184डब्ल्यू	@ 19 जुलाई 2014
@सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी।			
सूबेदार	नरेन्द्र सिंह मेहता	जे सी 803208पी	01 अगस्त 2014
सूबेदार	राकेश पति त्रिपाठी	जे सी 803209एक्स	01 अगस्त 2014
सूबेदार	सुमन कुमार उपाध्याय	जे सी 803210एम	01 सितम्बर 2014
सूबेदार	शिव कुमार सिंह	जे सी 803218वाई	@15 सितम्बर 2014

सूबेदार	अखिलेश्वर सिंह	जे सी 803225पी	01 सितम्बर 2014
सूबेदार	जसवीर सिंह	जे सी 803230ए	01 सितम्बर 2014
@सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जायेगी।			
सूबेदार	संजय गोयत	जे सी 803231एच	@07 अक्टूबर 2014
सूबेदार	बलवन्त सिंह सांगवान	जे सी 803241एम	@17 अक्टूबर 2014
@सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी।			
सूबेदार	कृष्ण चन्द्र	जे सी 803246एल	01 नवम्बर 2014
सूबेदार	राजेन्द्र सिंह	जे सी 803249वाई	01 नवम्बर 2014
सूबेदार	पुनू लाल शाक्य	जे सी 804010एच	01 दिसम्बर 2014
सूबेदार	जरनैल सिंह	जे सी 803257एक्स	01 दिसम्बर 2014
सूबेदार	सुदाम पाल चौधरी	जे सी 803261ए	01 दिसम्बर 2014
सूबेदार	राम चन्द्र	जे सी 803265डब्ल्यू	01 दिसम्बर 2014

सूबेदार रैंक में

नायब सूबेदार	हरचन्द राम	जे सी 804168एल	@11 जून 2014
नायब सूबेदार	विनोद कुमार धसमाना	जे सी 804169एन	@05 जुलाई 2014
नायब सूबेदार	शिव कुमार	जे सी 804176के	@23 जुलाई 2014
नायब सूबेदार	पी रामसुब्रमणि	जे सी 804177एम	@10 जुलाई 2014
नायब सूबेदार	राम सिंह	जे सी 804179एक्स	@16 जुलाई 2014
नायब सूबेदार	श्री कृष्ण पचौरी	जे सी 804180एम	@16 जुलाई 2014
नायब सूबेदार	भंवर सिंह	जे सी 804183ए	@30 जून 2014
नायब सूबेदार	बी के शुक्ला	जे सी 804188वाई	@30 जून 2014
नायब सूबेदार	विभूती कुमार सिंह	जे सी 804191वाई	@28 जुलाई 2014
नायब सूबेदार	कमल बिहारी पाण्डेय	जे सी 804196एक्स	@11 जुलाई 2014
नायब सूबेदार	सुशान्त कुमार महान्ती	जे सी 804197ए	@07 जुलाई 2014
नायब सूबेदार	किशोर सिंह	जे सी 804204एल	@02 जुलाई 2014
नायब सूबेदार	विरेंद्र कुमार राणा	जे सी 804205एन	01 जून 2014
नायब सूबेदार	अवनीन्द्र कुमार गुप्ता	जे सी 804261एम	@21 जून 2014
नायब सूबेदार	मनोज कुमार सिंह	जे सी 804161एफ	#03 अक्टूबर 2014
# सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 जून 2014 से दी जायेगी।			
@ सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जायेगी।			
नायब सूबेदार	रविन्द्र	जे सी 804209के	#06 अगस्त 2014
नायब सूबेदार	चतुर्भुज तिवारी	जे सी 804210वाई	01 जुलाई 2014
नायब सूबेदार	जुड	जे सी 804215एक्स	#08 अगस्त 2014

नायब सूबेदार	एस के युसुफ अली	जे सी 804216ए	01 जुलाई 2014
नायब सूबेदार	राजनारायण आर	जे सी 804221एल	#01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार	जोयस मैथ्यू	जे सी 804223डब्ल्यू	#25 जुलाई 2014
नायब सूबेदार	प्रभाकर प्रसाद यादव	जे सी 804224वाई	#05 जुलाई 2014
# सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी ।			
नायब सूबेदार	अजित कुमार पी	जे सी 804227एम	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार	सुरजीत सिंह दतयाल	जे सी 804228पी	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार	दिनेश सिंह लधाडी	जे सी 804229एक्स	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार	गजेन्द्र सिंह	जे सी 804230एम	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार	सत्यवान सिंह	जे सी 804231पी	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार	दलीप सिंह	जे सी 804232एक्स	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार	कर्ण बीर सिंह	जे सी 804233ए	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार	सुरेश कुमार	जे सी 804234एच	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार	राम यज्ञ मिश्रा	जे सी 804235एल	#12 अगस्त 2014
नायब सूबेदार	भास्कर एस	जे सी 804513एन	01 अगस्त 2014
# सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जायेगी ।			
नायब सूबेदार	बी जेम सिंह सिकरवार	जे सी 804236एन	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार	विक्रम जीत	जे सी 804237डब्ल्यू	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार	बलवीर सिंह	जे सी 804239एफ	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार	प्रदीप कुमार साहू	जे सी 804240डब्ल्यू	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार	राम किशन	जे सी 804241वाई	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार	राकेश कुमार राणा	जे सी 804242एफ	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार	बालचन्द्रन के	जे सी 804243के	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार	धन सिंह बिष्ट	जे सी 804244एम	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार	रमेश चन्द्र जोशी	जे सी 804245पी	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार	आनंद सिंह	जे सी 804246एक्स	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार	सतीश चन्द्र	जे सी 804247ए	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार	नारायण चंद्र द्विवेदी	जे सी 804248एच	#02 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार	प्रमोद कुमार	जे सी 804249एल	#06 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार	कौशलेन्द्र सिंह	जे सी 804250ए	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार	निर्मल चंद्र	जे सी 804251एच	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार	हरेकृष्ण होता	जे सी 804252एल	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार	कुलदीप सिंह	जे सी 804535एम	01 सितम्बर 2014
# सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जायेगी ।			

नायब सूबेदार	रणजीत सिंह	जे सी 804254डब्ल्यू	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार	महेन्द्र कुमार तिवारी	जे सी 804255वाई	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार	प्रदुमन शर्मा	जे सी 804257के	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार	रंजन शर्मा	जे सी 804258एम	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार	चन्द्रवीर सिंह	जे सी 804259पी	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार	रघुनन्दन उपाध्याय	जे सी 804260के	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार	राज पाल	जे सी 804262पी	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार	महिन्द्र पाल	जे सी 804263एक्स	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार	पूरन प्रसाद	जे सी 804264ए	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार	अजय पाल सिंह	जे सी 804265एच	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार	सुरेश चंद शर्मा	जे सी 804266एल	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार	मंगल सिंह	जे सी 804267एन	#07 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार	तेजवीर सिंह	जे सी 804268डब्ल्यू	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार	भागमाल	जे सी 804271डब्ल्यू	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार	रवीन्द्रन के	जे सी 804272वाई	#26 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार	साँई दास	जे सी 804274के	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार	अच्युतन कुट्टी सी	जे सी 804275एम	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार	रविन्द्र कुमार प्रधान	जे सी 804276पी	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार	राधाकृष्णन के	जे सी 804277एक्स	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार	सुरेश ई	जे सी 804282एच	01 नवम्बर 2014
# सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जायेगी ।			
नायब सूबेदार	हेम सिंह वर्मा	जे सी 804284एन	01 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार	जोसफ मैथ्यू पी	जे सी 804285डब्ल्यू	01 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार	शशिन्द्रन एम आर	जे सी 804287एफ	01 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार	शशिधरन नायर पी ए	जे सी 804289एम	01 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार	अजया कुमार जेना	जे सी 804292एम	#02 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार	सुदामा यादव	जे सी 804536पी	#08 दिसम्बर 2014
# सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 से दी जायेगी ।			

नायब सूबेदार रैंक में

हवलदार	अनिल कुमार सिंह	(सेनांक 9512186एक्स अब जे सी 804963एल)	01 जून 2014
हवलदार	सतीश चन्द्र चौधरी	(सेनांक 9512253एक्स अब जे सी 804980एल)	#18 जुलाई 2014
हवलदार	रविन्द्र	(सेनांक 9512267एक्स अब जे सी 804984एफ)	01 जुलाई 2014
हवलदार	सुरेश बरगाली	(सेनांक 9512119एम अब जे सी 804992ए)	@01 अगस्त 2014

हवलदार	कमिन्द्र पाल सिंह	(सेनांक 9512254ए अब जे सी 804993एच)	@02 अगस्त 2014
हवलदार	असित कुमार जेना	(सेनांक 9512261डब्ल्यू अब जे सी 804994एल)	@01 अगस्त 2014
हवलदार	होशियार सिंह	(सेनांक 9512277एफ अब जे सी 804995एन)	@01 अगस्त 2014
#नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जाएगी। @नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 जुलाई 2014 से दी जाएगी।			
हवलदार	बाबलू कुमार घोष	(सेनांक 9510978वाई अब जे सी 804996डब्ल्यू)	01 अगस्त 2014
हवलदार	अनिल कुमार	(सेनांक 9512289डब्ल्यू अब जे सी 804997वाई)	01 अगस्त 2014
हवलदार	चहान शितल विठ्ठलराव	(सेनांक 9512291एन अब जे सी 804998एफ)	01 अगस्त 2014
हवलदार	हयात सिंह	(सेनांक 9512292डब्ल्यू अब जे सी 804999के)	#12 अगस्त 2014
हवलदार	अशोक कुमार	(सेनांक 9512293वाई अब जे सी 805000एल)	01 अगस्त 2014
हवलदार	आर्दश कुमार	(सेनांक 9512297पी अब जे सी 805001एन)	01 अगस्त 2014
हवलदार	राजेन्द्र कुमार भारती	(सेनांक 9512298एक्स अब जे सी 805002डब्ल्यू)	#19 अगस्त 2014
हवलदार	संजीव कुमार	(सेनांक 9512301एम अब जे सी 805003वाई)	01 अगस्त 2014
हवलदार	कोडग सुरेश पंडितराव	(सेनांक 9512303एक्स अब जे सी 805004एफ)	01 अगस्त 2014
हवलदार	पवार विजय कुमार पोपटराव	(सेनांक 9512305एच अब जे सी 805005के)	01 अगस्त 2014
हवलदार	सुशील कुमार	(सेनांक 9512306एल अब जे सी 805006एम)	#20 अगस्त 2014
#नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जाएगी।			
हवलदार	मेम्बर सिंह	(सेनांक 9512308डब्ल्यू अब जे सी 805007पी)	01 सितम्बर 2014
हवलदार	संजय कुमार	(सेनांक 9512309वाई अब जे सी 805008एक्स)	01 सितम्बर 2014
हवलदार	अजय कुमार	(सेनांक 9512312वाई अब जे सी 805009ए)	01 सितम्बर 2014
हवलदार	सुरेन्द्र शर्मा	(सेनांक 9512316पी अब जे सी 805010पी)	01 सितम्बर 2014
हवलदार	नरपत सिंह गोदारा	(सेनांक 9512318ए अब जे सी 805011एक्स)	01 सितम्बर 2014
हवलदार	सुन्दरमनी सामन्तरा	(सेनांक 9512319एच अब जे सी 805012ए)	#03 सितम्बर 2014
हवलदार	मृत्युनजय शुक्ला	(सेनांक 9512321ए अब जे सी 805013एच)	01 सितम्बर 2014
हवलदार	राज कुमार जोशी	(सेनांक 9512362के अब जे सी 805014एल)	01 सितम्बर 2014
हवलदार	अनुज कुमार ठाकुर	(सेनांक 9512363एम अब जे सी 805015एन)	01 सितम्बर 2014
हवलदार	शैलेन्द्र कुमार सिंह	(सेनांक 9512364पी अब जे सी 805016डब्ल्यू)	01 सितम्बर 2014
हवलदार	जगदीश कुमार	(सेनांक 9512367एच अब जे सी 805017वाई)	01 सितम्बर 2014
हवलदार	श्री गणेश कुमार पाण्डेय	(सेनांक 9512370एच अब जे सी 805018एफ)	01 सितम्बर 2014
हवलदार	शैलेन्द्र कुमार	(सेनांक 9512371एल अब जे सी 805019के)	01 सितम्बर 2014
हवलदार	उदय कुमार उदय	(सेनांक 9512373डब्ल्यू अब जे सी 805020वाई)	01 सितम्बर 2014
हवलदार	राजेन्द्र सिंह	(सेनांक 9512374वाई अब जे सी 805021एफ)	01 सितम्बर 2014

हवलदार	नगेन्द्र सिंह	(सेनांक 9512376के अब जे सी 805022के)	01 सितम्बर 2014
हवलदार	धर्मवीर सिंह	(सेनांक 9510987ए अब जे सी 805023एम)	01 सितम्बर 2014
हवलदार	बक्साराम विश्‍नोई	(सेनांक 9510998एम अब जे सी 805024पी)	01 सितम्बर 2014
हवलदार	पुंड संजीव भानुदास	(सेनांक 4270644ए अब जे सी 805025एक्स)	01 सितम्बर 2014
#नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जाएगी।			
हवलदार	अजय कुमार शर्मा	(सेनांक 9512377एम अब जे सी 805026ए)	#14 अक्टूबर 2014
हवलदार	बिराज रंजन साबत	(सेनांक 9512380एम अब जे सी 805027एच)	#22 अक्टूबर 2014
हवलदार	श्रवण कुमार	(सेनांक 9512382एक्स अब जे सी 805028एल)	#13 नवम्बर 2014
हवलदार	बसंत कुमार स्वाइन	(सेनांक 9512384एच अब जे सी 805029एन)	#13 नवम्बर 2014
हवलदार	मुकेश चन्द्र	(सेनांक 9512385एल अब जे सी 805030एच)	#25 अक्टूबर 2014
हवलदार	अनिल कुमार सिंह	(सेनांक 9512386एन अब जे सी 805031एल)	#11 अक्टूबर 2014
हवलदार	सूरज सिंह	(सेनांक 9512388वाई अब जे सी 805032एन)	#27 अक्टूबर 2014
हवलदार	राजेन्द्र प्रकाश सुयाल	(सेनांक 9512390डब्ल्यू अब जे सी 805033डब्ल्यू)	#28 अक्टूबर 2014
हवलदार	मनोज कान्ति धर	(सेनांक 9512393के अब जे सी 805034वाई)	#29 अक्टूबर 2014
हवलदार	पाण्डेय आनन्द कुमार धीरेन्द्र नाथ	(सेनांक 9512394एम अब जे सी 805035एफ)	#24 अक्टूबर 2014
हवलदार	कमला कान्त	(सेनांक 9512395पी अब जे सी 805036के)	#16 अक्टूबर 2014
हवलदार	मनोज कुमार	(सेनांक 9512399एल अब जे सी 805037एम)	#13 अक्टूबर 2014
हवलदार	श्री राजेश कुमार उपाध्याय	(सेनांक 9512400पी अब जे सी 805038पी)	#18 अक्टूबर 2014
हवलदार	बिक्रम सिंह	(सेनांक 9512402ए अब जे सी 805039एक्स)	#03 नवम्बर 2014
हवलदार	श्री रामबीर सिंह तोमर	(सेनांक 9512403एच अब जे सी 805040एम)	#20 अक्टूबर 2014
हवलदार	वे मरुरुबा जयराज	(सेनांक 9512404एल अब जे सी 805041पी)	#05 नवम्बर 2014
हवलदार	हरेन्द्र सिंह यादव	(सेनांक 9512407वाई अब जे सी 805042एक्स)	#05 दिसम्बर 2014
हवलदार	पवन कुमार शर्मा	(सेनांक 9512409के अब जे सी 805043ए)	01 अक्टूबर 2014
हवलदार	बलजीत सिंह	(सेनांक 9512410वाई अब जे सी 805044एच)	#17 अक्टूबर 2014
हवलदार	अनुराग पाण्डेय	(सेनांक 9512414पी अब जे सी 805045एल)	#28 अक्टूबर 2014
#नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जाएगी।			
हवलदार	श्री पवन कुमार शर्मा	(सेनांक 9512416ए अब जे सी 805046एन)	01 नवम्बर 2014
हवलदार	उम्मेद सिंह शेखावत	(सेनांक 9512417एच अब जे सी 805047डब्ल्यू)	01 नवम्बर 2014
हवलदार	विनोद कुमार गुप्ता	(सेनांक 9512425एफ अब जे सी 805048वाई)	01 नवम्बर 2014
हवलदार	संजीव कुमार	(सेनांक 9512427एम अब जे सी 805049एफ)	#27 नवम्बर 2014
हवलदार	श्री शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	(सेनांक 9512428पी अब जे सी 805050डब्ल्यू)	01 नवम्बर 2014

हवलदार	रणजीत कुमार दूबे	(सेनांक 9512443के अब जे सी 805051वाई)	#05 नवम्बर 2014
हवलदार	राजेश कुमार सिंह	(सेनांक 9512444एम अब जे सी 805052एफ)	#12 नवम्बर 2014
हवलदार	पवन कुमार	(सेनांक 9512446एक्स अब जे सी 805053के)	#03 नवम्बर 2014
हवलदार	बलवन्त सिंह	(सेनांक 9512265एम अब जे सी 805054एम)	@01 जनवरी 2015
#नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जाएगी। @नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 नवम्बर 2014 से दी जाएगी।			
हवलदार	संतोष कुमार पाण्डेय	(सेनांक 9512447ए अब जे सी 805055पी)	01 दिसम्बर 2014
हवलदार	विजय सिंह	(सेनांक 9512449एल अब जे सी 805056एक्स)	01 दिसम्बर 2014
हवलदार	देविन्द्र कुमार	(सेनांक 9512450ए अब जे सी 805057ए)	01 दिसम्बर 2014
हवलदार	संदीप सिंह	(सेनांक 9512451एच अब जे सी 805058एच)	01 दिसम्बर 2014
हवलदार	देवानन्द पाण्डेय	(सेनांक 9512452एल अब जे सी 805059एल)	#06 दिसम्बर 2014
हवलदार	रमेश कुमार सिंह	(सेनांक 9512453एन अब जे सी 805060ए)	01 दिसम्बर 2014
हवलदार	अमरेन्द्र कुमार	(सेनांक 9512455वाई अब जे सी 805061एच)	01 दिसम्बर 2014
हवलदार	विनय कुमार बडोला	(सेनांक 9512460के अब जे सी 805062एल)	01 दिसम्बर 2014
हवलदार	विपिन सिंह	(सेनांक 9512469वाई अब जे सी 805063एन)	01 दिसम्बर 2014
हवलदार	मोहम्मद अकरम	(सेनांक 4270633एन अब जे सी 805064डब्ल्यू)	01 दिसम्बर 2014
हवलदार	श्री रमेश कुमार	(सेनांक 9512247के अब जे सी 805066एफ)	@09 जनवरी 2015
#नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 से दी जाएगी। @नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 दिसम्बर 2014 से दी जाएगी।			

अलका जोशी
अवर सचिव

सं. 128, दिनांक 7 मई 2015—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:—

नियमित सेना

कोर ऑफ इंजीनियर्स

बंगाल इंजीनियर ग्रुप

नायब सूबेदार (सैन्य अभियंता सेवा) के रैंक में

पद	नाम	आर्मी नं	जे०सी०न०	पदोन्नति की तारीख	रिमार्क्स
हवलदार	असीम बिसवास	15328623एल	जे०सी०-333143वाई	16-05-2014	##
हवलदार	बशीर एस	15317438एक्स	जे०सी०-333144एफ	12-05-2014	##
हवलदार	परिजात प्रमानिक	15336263पी	जे०सी०-333145के	13-05-2014	##
हवलदार	अभय कुमार	15337569के	जे०सी०-333146एम	15-05-2014	##

हवलदार	रोशन कुमार यादव	15562943डब्ल्यू	जे०सी०-333147पी	13-05-2014	##
हवलदार	ओ के अनिल कुमार	1587657के	जे०सी०-333148एक्स	15-05-2014	##
हवलदार	सोमासे महेन्द्र भानु दास	15566848एफ	जे०सी०-333149ए	15-05-2014	##
हवलदार	घाडगे सुधीर सुखदेव	15568233पी	जे०सी०-333150पी	13-05-2014	##
हवलदार	बीजू पी वी	15322974के	जे०सी०-333151एक्स	13-05-2014	##
हवलदार	विनोद कुमार	15566252एफ	जे०सी०-333152ए	13-05-2014	##
हवलदार	बिजेन्द्र सिंह पुण्डीर	15340044एल	जे०सी०-333153एच	13-05-2014	##
हवलदार	राम चन्द्र सिंह तोमर	15569322ए	जे०सी०-333154एल	13-05-2014	##
हवलदार	ललित कुमार	15327034एच	जे०सी०-333155एन	12-05-2014	##
हवलदार	विनोद पी पी	15325569एक्स	जे०सी०-333156डब्ल्यू	13-05-2014	##
हवलदार	कुमार पाल	15336038ए	जे०सी०-333157वाई	13-05-2014	##
हवलदार	कैलाश सिंह	15335963डब्ल्यू	जे०सी०-333158एफ	22-05-2014	##
हवलदार	प्रकाश चन्द्र मोहंटी	15566088के	जे०सी०-333159के	15-05-2014	##
हवलदार	परवेश वर्मा	1497477ए	जे०सी०-333160वाई	13-05-2014	##
हवलदार	प्रेम कुमार तिवारी	15561765एम	जे०सी०-333161एफ	13-05-2014	##
हवलदार	संजय पवार	15562829वाई	जे०सी०-333162के	17-05-2014	##
हवलदार	चिट्ठी बाबू धरा	15316789ए	जे०सी०-333163एम	13-05-2014	##
हवलदार	कुमारासामी वी	15321144एफ	जे०सी०-333164पी	13-05-2014	##
हवलदार	वानखडे सतीश मनोहर राव	15569091पी	जे०सी०-333165एक्स	13-05-2014	##
हवलदार	राकेश कुमार दिक्षित	1589694 डब्ल्यू	जे०सी०-333166ए	26-05-2014	##
हवलदार	काले गोरक्षा भीम राव	15563570ए	जे०सी०-333167एच	03-06-2014	##
हवलदार	सुभाष चन्द	15335534पी	जे०सी०-333168एल	15-05-2014	##
हवलदार	दर्शना भाटी	1490847एम	जे०सी०-333169एम	15-05-2014	##
हवलदार	नोमेश्वरन् सी	15318943एम	जे०सी०-333170एच	15-05-2014	##
हवलदार	प्रवीन तुक्काराम महाबाडी	15562825एच	जे०सी०-333171एल	24-05-2014	##
हवलदार	मोहम्मद सिराजुद्दीन अंसारी	15562153एफ	जे०सी०-333172एन	13-05-2014	##

हवलदार	मुकेश कुमार	15570478के	जे०सी०-333173डब्ल्यू	13-05-2014	##
हवलदार	शंकर नामदेव उगले	15568908के	जे०सी०-333174वाई	04-06-2014	##
हवलदार	ब्रज नन्दन सिंह	15342715एच	जे०सी०-333175एफ	13-05-2014	##
हवलदार	अजी टी ए	15316231एल	जे०सी०-333176के	29-05-2014	##
हवलदार	मालेकर गिरीधर बापूराव	1584497के	जे०सी०-333177एम	13-05-2014	##
हवलदार	राउत किशोर कुमार ध्यानेश्वर राव	15562415एम	जे०सी०-333178पी	13-05-2014	##
हवलदार	गोरे भरत राजेन्द्र	15570556डब्ल्यू	जे०सी०-333179एक्स	09-06-2014	##
हवलदार	रमेश सी	15319951एक्स	जे०सी०-333180एम	23-05-2014	##
हवलदार	शिवा कुमार ए	15320249वाई	जे०सी०-333181पी	30-06-2014	\$\$
हवलदार	चरनजीत सिंह	15561172ए	जे०सी०-333182एक्स	02-07-2014	\$\$
हवलदार	के शिवा कुमार	15317327ए	जे०सी०-333183ए	30-06-2014	\$\$
हवलदार	एम डी असलम	15561904एल	जे०सी०-333184एच	28-06-2014	\$\$
हवलदार	सुखविन्दर सिंह	1488698एल	जे०सी०-333185एल	01-07-2014	\$\$
हवलदार	रामबीर	15562875एन	जे०सी०-333186एन	30-06-2014	\$\$
हवलदार	रविन्द्र कुमार	15335231ए	जे०सी०-333187डब्ल्यू	28-06-2014	\$\$
हवलदार	ओम प्रकाश सिंह	15329081वाई	जे०सी०-333188वाई	30-06-2010	\$\$
हवलदार	रिफाजुद्दीन चौधरी	1492800ए	जे०सी०-333189एफ	28-06-2014	%%%
हवलदार	धर्म पाल	15336231एम	जे०सी०-333190डब्ल्यू	15-05-2014	##
हवलदार	संदीप सिंह	15320735डब्ल्यू	जे०सी०-333191वाई	05-07-2014	\$\$
हवलदार	रमेश चन्द्र	1589207एल	जे०सी०-333192एफ	28-06-2014	\$\$
हवलदार	कृष्णा राव कोरनू	15315547एल	जे०सी०-333193के	07-07-2014	\$\$
हवलदार	सुबोध कुमार सिंह	1497431एक्स	जे०सी०-333194एम	02-07-2014	\$\$
हवलदार	जिजेश कुमार पी के	15318158डब्ल्यू	जे०सी०-333195पी	30-06-2014	\$\$
हवलदार	सोम पाल सिंह	15561901एक्स	जे०सी०-333196एक्स	24-06-2014	\$\$
हवलदार	शीश पाल सिंह	1490163डब्ल्यू	जे०सी०-333197ए	02-07-2014	\$\$
हवलदार	कवादे विकास पोपट	15565973वाई	जे०सी०-333198एच	28-06-2014	\$\$
हवलदार	श्याम एस	15321004पी	जे०सी०-333199एल	01-03-2014	&

हवलदार	प्रदीप कुमार	15343556एच	जे०सी०—333200पी	13-05-2014	##
हवलदार	विजय कुमार	15348183के	जे०सी०—333201एक्स	30-06-2014	\$\$
हवलदार	शैलेन्द्र कुमार गुप्ता	15569656पी	जे०सी०—333202ए	30-06-2014	\$\$
हवलदार	टी अमर राजेश	15318703पी	जे०सी०—333203एच	01-07-2014	\$\$
हवलदार	सुनील कुमार टी वी	15319855एच	जे०सी०—333204एल	14-07-2014	\$\$
हवलदार	रविन्द्र कुमार	15336246पी	जे०सी०—333205एन	09-07-2014	\$\$
हवलदार	शाकिर हुसैन पठान	15318933एच	जे०सी०—333206डब्ल्यू	09-07-2014	\$\$
हवलदार	मुकेश कुमार	15336792एफ	जे०सी०—333207वाई	02-07-2014	\$\$
हवलदार	वेंकटेशवरा राव बोडू	15336077वाई	जे०सी०—333208एफ	07-07-2014	\$\$
हवलदार	ए चिन्नादुरई	15314738एन	जे०सी०—333209के	30-06-2014	\$\$
हवलदार	नवीन चन्द्र जोशी	15338823पी	जे०सी०—333210वाई	01-09-2014	*
हवलदार	तपन कुमार साहू	1490385एल	जे०सी०—333211एफ	01-07-2014	\$\$
हवलदार	नवाबुद्दीन	15566056एफ	जे०सी०—333212के	01-07-2014	\$\$
हवलदार	संतोष कुमार तिवारी	15348184एम	जे०सी०—333213एम	19-08-2014	&&
हवलदार	सचिन कुमार घोडके	8033402पी	जे०सी०—333214पी	28-08-2014	&&
हवलदार	सावंत देवसिंह मानसिंह	15328084ए	जे०सी०—333215एक्स	19-08-2014	&&
हवलदार	सन्तू भट्टाचार्या	15572049एफ	जे०सी०—333216ए	29-08-2014	&&
हवलदार	संतोष कुमार सिंह	15347794एम	जे०सी०—333217एच	19-08-2014	&&
हवलदार	संतोष कुमार सिंह	15335967एम	जे०सी०—333218एल	22-08-2014	&&
हवलदार	दीपक कुमार शर्मा	15320428वाई	जे०सी०—333219एन	20-08-2014	&&
हवलदार	इंगले नीरज सुभाष	15563384के	जे०सी०—333220एच	19-08-2014	&&
हवलदार	नरेन्द्र देव	1494339एन	जे०सी०—333221एल	15-07-2014	\$\$
हवलदार	प्रमोद कुमार यादव	15348205एक्स	जे०सी०—333222एन	19-08-2014	&&
हवलदार	ढोले आशिष अशोक	1585982एल	जे०सी०—333223डब्ल्यू	20-08-2014	&&
हवलदार	आजाद सिंह	1588726एफ	जे०सी०—333224वाई	19-08-2014	&&
हवलदार	सोनमाले श्रीकान्त दत्ताराय	15320712पी	जे०सी०—333225एफ	20-08-2014	&&
हवलदार	सुरेश नन्द	1486872एन	जे०सी०—333226के	18-08-2014	&&

हवलदार	रामा प्रसाद	1588778एक्स	जे०सी०-333227एम	15-05-2014	##
हवलदार	मारपु जग्गा राव	15321549एम	जे०सी०-333228पी	13-05-2014	##
हवलदार	अजय सिंह	15345334एम	जे०सी०-333229एक्स	20-08-2014	&&
हवलदार	हरीश लाल	1493399डब्ल्यू	जे०सी०-333230एम	03-10-2014	**
हवलदार	सनतन सिंह रावत	1493559एल	जे०सी०-333231पी	01-10-2014	**
हवलदार	हक्के राम वेटला	15562117डब्ल्यू	जे०सी०-333232एक्स	30-09-2014	**
हवलदार	दीपक महापात्रा	15336552के	जे०सी०-333233ए	04-10-2014	**
हवलदार	पेड्डा श्रीनिवास	15313079एक्स	जे०सी०-333234एच	29-09-2014	**
हवलदार	मुरलीधरन ए पी	15315382एक्स	जे०सी०-333235एल	19-08-2014	&&
हवलदार	संतोष कुमार सिंह	1532615एन	जे०सी०-333236एन	07-10-2014	**
हवलदार	गडम शेटी श्रीनिवास राव	1589168एक्स	जे०सी०-333237डब्ल्यू	07-10-2014	**
हवलदार	शिव कुमार शर्मा	1588641एल	जे०सी०-333238वाई	04-10-2014	**
हवलदार	अभिलाष कुमार देवलिया	15336227के	जे०सी०-333239एफ	04-10-2014	**
हवलदार	शक्ति प्रसाद मोहन्ती	15569646एल	जे०सी०-333240डब्ल्यू	04-10-2014	**
हवलदार	शिव प्रकाश	15316741एम	जे०सी०-333241वाई	04-10-2014	**
हवलदार	के पी प्रवीन	15318773एन	जे०सी०-333242एफ	04-10-2014	**
हवलदार	मनीष कुमार	15335023एल	जे०सी०-333243के	08-10-2014	**
हवलदार	यासिन अंसारी	1589200एफ	जे०सी०-333244एम	01-10-2014	**
हवलदार	सुब्बु राज जी	15317491एच	जे०सी०-333245पी	07-10-2014	**
हवलदार	मनोहर सिंह	1493113डब्ल्यू	जे०सी०-333246एक्स	04-10-2014	**
हवलदार	पलान्ड संदीप रामचन्द्रा	15561827एफ	जे०सी०-333247ए	04-10-2014	**
हवलदार	के अंथय्या	15319262डब्ल्यू	जे०सी०-333248एच	07-10-2014	**
हवलदार	मलिक मौहम्मद बिलाल खान	15562405एच	जे०सी०-333249एल	07-10-2014	**
हवलदार	संजीव कुमार टी एन	15320327एल	जे०सी०-333250ए	04-10-2014	**
हवलदार	श्रीजीत टी	15316654वाई	जे०सी०-333251एच	02-10-2014	**
हवलदार	वी जगदीश कुमार	15323636वाई	जे०सी०-333252एल	04-10-2014	**
हवलदार	शैलेश शिन्दे	15562844एन	जे०सी०-333253एन	04-10-2014	**

हवलदार	प्रशान्त शिन्दे	15566065एच	जे०सी०-333254डब्ल्यू	07-10-2014	**
हवलदार	अंबरे शेखर विजय	15562390एल	जे०सी०-333255वाई	01-10-2014	**
हवलदार	एस के शाह आलम अली	1494387एन	जे०सी०-333256एफ	07-10-2014	**
हवलदार	कलाइमरन एन	15317603एक्स	जे०सी०-333257के	01-10-2014	**
हवलदार	प्रदीप सिंह	1589554के	जे०सी०-333258एम	11-10-2014	**
हवलदार	नवीन कुमार	15571024एच	जे०सी०-333259पी	29-10-2014	*
हवलदार	विक्रम सिंह	15571161एफ	जे०सी०-333260के	29-10-2014	*
हवलदार	विकास कुमार	15345497ए	जे०सी०-333261एम	31/10/214	*
हवलदार	अजय सिंह	15321269वाई	जे०सी०-333262पी	08-10-2014	!
हवलदार	नरसिम्महा राजू एनेबोइना	15336295एक्स	जे०सी०-333263एक्स	11-10-2014	!
हवलदार	सुरेन्द्र सिंह	1589612एच	जे०सी०-333264ए	27-10-2014	\$
हवलदार	राकेश महादेव महामुनकर	15568269एन	जे०सी०-333265एच	27-10-2014	\$
हवलदार	प्रवेश खत्री	15343002के	जे०सी०-333266एल	27-10-2014	\$
हवलदार	विक्रम सिंह	15336754एल	जे०सी०-333267एन	30-10-2014	\$
हवलदार	संदीप कुमार जैन	15348187ए	जे०सी०-333268डब्ल्यू	19-08-2014	&&
हवलदार	अनुज कुमार सिंह	15346912एच	जे०सी०-333269वाई	24-10-2014	&&
हवलदार	प्रेम नाथ सिंह	15320541एन	जे०सी०-333270एन	19-08-2014	&&
हवलदार	देवराजा एच पी	15320554एल	जे०सी०-333271डब्ल्यू	19-08-2014	&&
हवलदार	श्याम मोहन त्रिपाठी	15335936एम	जे०सी०-333272वाई	27-10-2014	&&
हवलदार	अरूण कुमार पी बी	15320608एफ	जे०सी०-333273एफ	30-10-2014	&&
हवलदार	सुनील सिंह भंडारी	1493142एल	जे०सी०-333274के	27-10-2014	**
हवलदार	सुभाषीस मुखर्जी	15338405ए	जे०सी०-333275एम	14-10-2014	**
हवलदार	सुनील आर	15317980एन	जे०सी०-333276पी	04-10-2014	**
हवलदार	शशि भूषण बेहुरा	1493645डब्ल्यू	जे०सी०-333277एक्स	07-10-2014	**
हवलदार	देवेन्द्र सिंह दंगवाल	1489493एच	जे०सी०-333278ए	13-10-2014	**
हवलदार	भास्कर प्रकाश कदम	15562423एल	जे०सी०-333279एच	07-10-2014	**
हवलदार	संदीप दत्त मेहता	15336828पी	जे०सी०-333280एक्स	27-10-2014	**

हवलदार	रहीश अली	15561508पी	जे०सी०—333281ए	13-10-2014	**
हवलदार	सहदेव चौधरी	15326420एच	जे०सी०—333282एच	01-11-2014	@
हवलदार	लक्ष्मण कुमार पाण्डे	15569323एच	जे०सी०—333283एल	29-10-2014	#
हवलदार	अमूल्य कुमार स्वैन	15343905एफ	जे०सी०—333284एन	28-10-2014	\$
हवलदार	अजय कुमार	15345430एफ	जे०सी०—333285डब्ल्यू	18-10-2014	%
हवलदार	अमित कुमार	15343815ए	जे०सी०—333286वाई	30-10-2014	*
हवलदार	गिरराज सिंह जैदोन	15329113डब्ल्यू	जे०सी०—333287एफ	31-10-2014	!
हवलदार	अरविन्द सिंह	15571159के	जे०सी०—333288के	24-10-2014	##
हवलदार	देवेश कुमार यादव	15572947ए	जे०सी०—333289एम	18-10-2014	##
हवलदार	नारायण चन्द्र साहू	15345651एन	जे०सी०—333290एफ	01-11-2014	\$\$
हवलदार	दीपक समल	15345737एम	जे०सी०—333291के	01-11-2014	\$\$
हवलदार	मनीष कुमार कम्बोज	15343924एम	जे०सी०—333292एम	03-11-2014	#
हवलदार	नागेश कुमार	15570080पी	जे०सी०—333293पी	09-09-2014	&&
हवलदार	नरेन्द्र सिंह	15343919एफ	जे०सी०—333294एक्स	07-11-2014	&&
हवलदार	बिजया कुमार कर	15344000एल	जे०सी०—333295एच	28-10-2014	&&
हवलदार	जगडाले श्रीराम जय सिंह	15567923एम	जे०सी०—333296एच	31-10-2014	&&
हवलदार	मोरे अजीत अशोक	15571540एक्स	जे०सी०—333297एल	01-11-2014	**
हवलदार	अभिलाष ए पी	15318513एच	जे०सी०—333298एन	07-10-2014	**
हवलदार	प्रभु सिंह	1493379एच	जे०सी०—333299डब्ल्यू	30-10-2014	**
हवलदार	नवीन कुमार	15338848एफ	जे०सी०—333300ए	07-11-2014	**
हवलदार	संजीव कुमार	15329614डब्ल्यू	जे०सी०—333301एच	01-11-2014	##
हवलदार	सावंत सोमनाथ दत्तराय	15571520के	जे०सी०—333302एल	01-11-2014	&&
हवलदार	श्रीनिवास हाजरा	15328612वाई	जे०सी०—333303एन	30-09-2014	**
हवलदार	आसिफ खान	15570967पी	जे०सी०—333304डब्ल्यू	03-11-2014	**
हवलदार	प्रेमा कुमार तम्मिन्ना	15318614डब्ल्यू	जे०सी०—333305वाई	29-10-2014	**
हवलदार	धूमल सुरेश जयवन्त	1589741एच	जे०सी०—333306एफ	04-10-2014	**
हवलदार	अनिश कुमार	15564329ए	जे०सी०—333307के	14-11-2014	**

हवलदार	रंजित शर्मा	15345309एन	जे०सी०—333308एम	19-11-2014	*
हवलदार	रोहित कुमार	15331186एफ	जे०सी०—333309पी	30-10-2014	*
हवलदार	राजीव कुमार	15335758पी	जे०सी०—333310के	22-10-2014	!
हवलदार	हरिश सिंह बिष्ट	14938515ए	जे०सी०—333311एम	27-10-2014	\$\$
हवलदार	पंकज हजारीका	15571755डब्ल्यू	जे०सी०—333312पी	03-11-2014	\$\$
हवलदार	विकास भारद्वाज	15566086वाई	जे०सी०—333313एक्स	21-11-2014	\$\$
हवलदार	अखिलेश कुमार मिश्रा	15323607के	जे०सी०—333314ए	21-11-2014	\$\$
हवलदार	हरिश चन्द्र द्विवेदी	15562136एफ	जे०सी०—333315एच	13-11-2014	\$\$
हवलदार	प्रदीप कुमार	15336936वाई	जे०सी०—333316एल	30-10-2014	\$\$
हवलदार	भुपेन्द्र कुमार सिंह	15571541ए	जे०सी०—333317एन	03-11-2014	&&
हवलदार	महाराज सिंह यादव	15572944एम	जे०सी०—333318डब्ल्यू	29-08-2014	&&
हवलदार	उत्तम कुमार मण्डल	15564339के	जे०सी०—333319वाई	30-10-2014	&&
हवलदार	घनश्याम शर्मा	15564432एल	जे०सी०—333320एन	30-10-2014	&&
हवलदार	पंवार विनोद दादा साहेब	15340896ए	जे०सी०—333321डब्ल्यू	09-10-2014	**
हवलदार	जी वी गोपाल कृष्णा	15320199वाई	जे०सी०—333322वाई	09-10-2014	**
हवलदार	हिरण्मय बिसवास	15567167एल	जे०सी०—333323एफ	04-10-2014	**
हवलदार	रविन्द्र सिंह	15339695पी	जे०सी०—333324के	01-10-2014	**
हवलदार	ललित साही	1494826एन	जे०सी०—333325एम	11-10-2014	**
हवलदार	शैलेन्द्र सिंह	15343191वाई	जे०सी०—333326पी	01-12-2014	@
हवलदार	चौहल सिंह	15343216पी	जे०सी०—333327एक्स	26-11-2014	@
हवलदार	रति राम गुर्जर	15329500एल	जे०सी०—333328ए	01-11-2014	*
हवलदार	प्रसाद डोडी	15321721एच	जे०सी०—333329एच	29-10-2014	&&
हवलदार	जितेन्द्र सिंह	1492469एक्स	जे०सी०—333330एक्स	04-10-2014	**
हवलदार	एम कन्नण	15315844वाई	जे०सी०—333331ए	01-11-2014	**
हवलदार	लाल बाबू यादव	15336101के	जे०सी०—333332एच	07-10-2014	**
हवलदार	ललित कुमार	15338150एल	जे०सी०—333333एल	09-12-2014	!!
हवलदार	गजाराजी वी एस डी	15320973एच	जे०सी०—333334एन	09-12-2014	!!
हवलदार	सुरेश कुमार पिल्ललमारी	15323630वाई	जे०सी०—333335डब्ल्यू	09-12-2014	!!
हवलदार	नागेश कुमार सिंह	15337688ए	जे०सी०—333336वाई	10-12-2014	!!
हवलदार	राजेश सिंह बिष्ट	15335446वाई	जे०सी०—333337एफ	10-12-2014	!!

हवलदार	अर्जुना राव बन्टी	15316272पी	जे०सी०-333338के	10-12-2014	!!
हवलदार	दीपक कुमार	1589975एम	जे०सी०-333339एम	09-12-2014	!!
हवलदार	पुरन चन्द्र भट्ट	15335490एच	जे०सी०-333340एफ	10-12-2014	!!
हवलदार	मनोज कुमार	1494567डब्ल्यू	जे०सी०-333341के	11-12-2014	!!
हवलदार	ज्योतिष एम वी	15316219के	जे०सी०-333342एम	09-12-2014	!!
हवलदार	साबले रमेश देवराम	15569314एफ	जे०सी०-333343पी	09-12-2014	!!
हवलदार	पाटिल संतोष शामराव	15562915के	जे०सी०-333344एक्स	10-12-2014	***
हवलदार	बिस्वजीत भट्टाचार्या	15328793पी	जे०सी०-333345ए	18-12-2014	&&
हवलदार	शोबन कुमार शी	15339601एम	जे०सी०-333346एच	15-12-2014	&&
हवलदार	साहारे आलम अंसारी	1589082वाई	जे०सी०-333347एल	01-10-2014	**
हवलदार	राकेश कुमार	1492456ए	जे०सी०-333348एन	04-10-2014	**
हवलदार	इलेनचीजीयान सी	15338687के	जे०सी०-333349डब्ल्यू	01-10-2014	**
हवलदार	कपिल कुमार	15330788एच	जे०सी०-333350एल	14-11-2014	**
हवलदार	धमेन्द्र कुमार यादव	15348164वाई	जे०सी०-333351एन	13-12-2014	!!
हवलदार	सतीश कुमार	15335798डब्ल्यू	जे०सी०-333352डब्ल्यू	12-12-2014	!!
हवलदार	सुरेश कुमार	15329662डब्ल्यू	जे०सी०-333353वाई	15-12-2014	!!
हवलदार	शेर सिंह	15318034एफ	जे०सी०-333354एफ	12-12-2014	!!
हवलदार	भैरत सचिन अभिमान	15321239एफ	जे०सी०-333355के	09-12-2014	!!
हवलदार	मनोज कुमार यादव	15323610के	जे०सी०-333356एम	09-12-2014	!!
हवलदार	विनोद कुमार शर्मा	15337641पी	जे०सी०-333357पी	10-12-2014	!!
हवलदार	सुधीर कुमार	15565014एच	जे०सी०-333358एक्स	10-12-2014	!!
हवलदार	जितेन्द्र कुमार नायक	15325132के	जे०सी०-333359ए	08-01-2015	!!
हवलदार	निर्मल पाल	15338493एफ	जे०सी०-333360पी	08-12-2014	!!
हवलदार	प्रताप सिंह	15338861एल	जे०सी०-333361एक्स	09-12-2014	!!
हवलदार	ब्रिज मोहन सिंह	15338943एन	जे०सी०-333362ए	10-12-2014	!!
हवलदार	मुकेश कुमार सिंह	15326731डब्ल्यू	जे०सी०-333363एच	17-12-2014	!!
हवलदार	संजय कुमार	15335133ए	जे०सी०-333364एल	18-12-2014	!!
हवलदार	कुलदीप सिंह	15567125वाई	जे०सी०-333365एन	09-12-2014	!!
हवलदार	संजय कुमार	15569772एक्स	जे०सी०-333366डब्ल्यू	10-12-2014	!!
हवलदार	जाधव दादा साहेब सुमनराव	15561929एक्स	जे०सी०-333367वाई	09-12-2014	!!

हवलदार	पी रमेश कुमार	15318171ए	जे०सी०-333368एफ	09-12-2014	!!
हवलदार	एल वी एस डी आर राजू बी	15320110एफ	जे०सी०-333369के	09-12-2014	!!
हवलदार	हिमांशु जोशी	15341091पी	जे०सी०-333370वाई	10-12-2014	!!
हवलदार	चन्द्र शेखर	15341242एच	जे०सी०-333371एफ	26-12-2014	!!
हवलदार	अरविन्द कुमार	1485768एन	जे०सी०-333372के	11-12-2014	***
हवलदार	चवन किरण दनयेश्वर	15568164के	जे०सी०-333373एम	24-12-2014	***
हवलदार	के जयाराम	15319604वाई	जे०सी०-333374पी	10-12-2014	***
हवलदार	मोरे अशोक गणपत	15564785एल	जे०सी०-333375एक्स	10-12-2014	***

(नायब सूबेदार के रैंक में और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 फरवरी 2013, 22 जून 2013, 13 जुलाई 2013, 17 अगस्त 2013, 12 अक्टूबर 2013, 07 दिसम्बर 2013, 21 दिसम्बर 2013, 01 मार्च 2014, 17 मई 2014, 20 जून 2014, 26 जून 2014, 05 जुलाई 2014, 16 अगस्त 2014, 11 अक्टूबर 2014 और 01 दिसम्बर 2014)

@	ज्येष्ठता 16 फरवरी 2013	\$\$	ज्येष्ठता 17 मई 2014
#	ज्येष्ठता 22 जून 2013	%%	ज्येष्ठता 20 जून 2014
\$	ज्येष्ठता 13 जुलाई 2013	%%%	ज्येष्ठता 26 जून 2014
%	ज्येष्ठता 17 अगस्त 2013	&&	ज्येष्ठता 05 जुलाई 2014
&	ज्येष्ठता 12 अक्टूबर 2013	**	ज्येष्ठता 16 अगस्त 2014
*	ज्येष्ठता 07 दिसम्बर 2013	!!	ज्येष्ठता 11 अक्टूबर 2014
!	ज्येष्ठता 21 दिसम्बर 2013	***	ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014
##	ज्येष्ठता 01 मार्च 2014		

बंगाल इन्जीनियर ग्रुप

(नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में)

हवलदार विजय कुमार	(1487191एक्स	अब जेसी -340945एल)	03072014*
हवलदार पूरन चन्द्रा	(1487763एन	अब जेसी -340946एन)	06082014@
हवलदार सुरेन्द्र मोहन पाण्डेय	(1487804एम	अब जेसी -340947डब्ल्यू)	05082014@
हवलदार घनश्याम	(15339898वाई	अब जेसी -340948वाई)	05082014@
हवलदार संतोष कुमार	(1482967डब्ल्यू	अब जेसी -340949एफ)	06082014@

(नायब सूबेदार (क्लर्क एस० डी०) के रैंक में)

हवलदार मेजाओलंग गोन्मे	(15338862एन	अब जेसी -340950डब्ल्यू)	27062014#
हवलदार अरविन्द जे	(15338944डब्ल्यू	अब जेसी -340951वाई)	16062014#
हवलदार नितिन कुमार शर्मा	(15343497एफ	अब जेसी -340952एफ)	30062014*
हवलदार सुधीर मान	(15343792के	अब जेसी -340953के)	01072014@
हवलदार विपिन कुमार	(15343840वाई	अब जेसी -340954एम)	02072014@
हवलदार जितेन्द्र सिंह	(15343843एम	अब जेसी -340955पी)	07072014@

[नायब सूबेदार (आई एम) के रैंक में]			
हवलदार सुरेन्द्र सिंह	(1485366पी	अब जेसी —340956एल)	26062014\$
[नायब सूबेदार (एस के टी) के रैंक में]			
हवलदार देव कुमार मिश्रा	(1490784पी	अब जेसी —340957ए)	27062014#
हवलदार सुधान्शु कुमार देव	(1490874डब्ल्यू	अब जेसी —340958एच)	07072014#
हवलदार शिन्दे बालासाहिब कोनडिबा	(1491871पी	अब जेसी —340959एल)	06072014#
हवलदार मनोज कुमार	(1492345एच	अब जेसी —340960ए)	02072014@
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014)			
@ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014)			
\$(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014)			
# (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 मई 2014)			
[नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में]			
हवलदार दिग विजय सिंह नेगी	(15348109एच	अब जेसी —340961एच)	05082014@
हवलदार दिलीप सिंह नैनवाल	(1486490के	अब जेसी —340962एल)	06082014@
हवलदार सुनील कुमार	(1486567एफ	अब जेसी —340963एन)	06082014@
हवलदार देव नाथ सिंह यादव	(1487245एन	अब जेसी —340964डब्ल्यू)	08082014#
हवलदार कौस्तुवा नन्द	(1487273ए	अब जेसी —340965वाई)	08082014#
हवलदार मदन सिंह	(1487372एच	अब जेसी —340966एफ)	04082014#
हवलदार रामवीर	(1487384एक्स	अब जेसी —340967के)	07082014#
हवलदार बलविन्दर सिंह	(1483795वाई	अब जेसी —340968एम)	06082014#
हवलदार तिलक चन्द्र पाण्डेय	(1485402डब्ल्यू	अब जेसी —340969पी)	08082014#
हवलदार हरदयाल सिंह खोलिया	(1486032एन	अब जेसी —340970के)	06082014#
हवलदार सतीश कुमार	(1486754ए	अब जेसी —340971एम)	09082014#
हवलदार सुशील कुमार चौहान	(1487899एक्स	अब जेसी —340972पी)	06082014#
हवलदार बिक्रम दिगल	(1482757डब्ल्यू	अब जेसी —340973एक्स)	13082014#
हवलदार चुनुबाद सिंह	(1482968वाई	अब जेसी —340974ए)	07082014#
हवलदार विरेन्द्र प्रसाद	(1483058एक्स	अब जेसी —340975एच)	05082014#
हवलदार अशोक कुमार	(1483090एम	अब जेसी —340976एल)	15082014#
हवलदार अमलेश सिंह	(1484020ए	अब जेसी —340977एन)	15082014#
हवलदार असीत कुमार पाण्डा	(1484396एफ	अब जेसी —340978डब्ल्यू)	19082014#
हवलदार लक्खा सिंह	(15341076ए	अब जेसी —340979वाई)	04082014#
हवलदार प्रेम कुमार	(15345132एल	अब जेसी —340980एन)	06082014#
हवलदार सरबजित सिंह	(15346685एन	अब जेसी —340981डब्ल्यू)	05082014#
हवलदार सुरेन्द्र सिंह	(15347956एम	अब जेसी —340982वाई)	14082014#
हवलदार देव नारायण सिंह यादव	(1483283एम	अब जेसी —340983एफ)	09082014#
हवलदार राम नरेश सिंह	(1483313वाई	अब जेसी —340984के)	11082014#
हवलदार ओम प्रकाश राय	(1483347एम	अब जेसी —340985एम)	29082014%
हवलदार बलजीत सिंह	(15336980एच	अब जेसी —340986पी)	15082014%

हवलदार अजित सिंह	(15344020वाई	अब जेसी —340987एक्स)	11082014%
हवलदार उपेन्द्र पाल	(1482854एन	अब जेसी —340988ए)	11082014%
[नायब सूबेदार (क्लर्क एस० डी०) के रैंक में]			
हवलदार सौन्दर राजन एस	(15338625के	अब जेसी —340989एच)	27082014&
हवलदार राज कुमार	(15343004पी	अब जेसी —340990एक्स)	26082014\$
हवलदार समिरन बिसवास	(15343877ए	अब जेसी —340991ए)	01082014%
हवलदार कैलाश बहादुर	(15343898डब्ल्यू	अब जेसी —340992एच)	01082014%
हवलदार मेवा सिंह	(15343902एन	अब जेसी —340993एल)	01082014%
हवलदार विरेन्द्र कुमार	(15343907एम	अब जेसी —340994एन)	01082014%
हवलदार हरेन्द्र कुमार सिंह	(1534912एक्स	अब जेसी —340995डब्ल्यू)	21082014%
हवलदार दिनेश यादव	(15343979डब्ल्यू	अब जेसी —340996वाई)	22082014%
हवलदार हरप्रीत सिंह	(15344029एक्स	अब जेसी —340997एफ)	22082014%
हवलदार मेधावी प्रताप	(15344033डब्ल्यू	अब जेसी —340998के)	23082014%
हवलदार स्वपन रॉय	(15343095के	अब जेसी —340999एम)	22082014%
हवलदार प्रमोद कुमार	(15344087एक्स	अब जेसी —341000डब्ल्यू)	02092014%
हवलदार सुधीर	(15343006ए	अब जेसी —341001डब्ल्यू)	23082014%
हवलदार बालाराम पाणिग्रही	(15344095डब्ल्यू	अब जेसी —341002वाई)	25082014%
हवलदार सोमनाथ शिट	(15344163वाई	अब जेसी —341003एफ)	22082014%

[नायब सूबेदार (एस के टी) के रैंक में]

हवलदार मदन राम	(1490203एम	अब जेसी —341004के)	19062014*
हवलदार अंजनी कुमार सिंह	(1491830डब्ल्यू	अब जेसी —341005एम)	12052014@#

[नायब सूबेदार (सर्वे केट) के रैंक में]

हवलदार राजेश कुमार तिवारी	(1489350एच	अब जेसी —341006पी)	01082014%
हवलदार रोशन सिंह रावत	(1489352एन	अब जेसी —341007एक्स)	01082014%

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2013)

@(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 31 मई 2014)

\$(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014)

%(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014)

&(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2014)

@#(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014)

\$(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 मई 2014)

[नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में]

हवलदार रमेश	(15347510एक्स	अब जेसी —340889एक्स)	14062014@
हवलदार रंजीत पटनायक	(1485328ए	अब जेसी —340890एम)	09062014#
हवलदार गणेश गिरि	(15337488के	अब जेसी —340891पी)	14062014#
हवलदार ब्रिजेश कुमार सिंह	(1487184एफ	अब जेसी —340892एक्स)	06062014\$
हवलदार सतेन्द्र सिंह नेगी	(1487228एन	अब जेसी —340893ए)	05062014\$

[नायब सूबेदार (क्लर्क एस० डी०) के रैंक में]

हवलदार कुंज बिहारी मिश्रा	(6390453एन	अब जेसी —340894एच)	13062014%
---------------------------	------------	--------------------	-----------

हवलदार एस के सिराजुद्दीन अहमद	(1485872एफ	अब जेसी -340895एल)	14062014%
हवलदार सुरेन्द्र सिंह	(15335974एच	अब जेसी -340896एन)	13062014%
हवलदार भूपेश कुमार उपाध्याय	(15336157डब्ल्यू	अब जेसी -340897डब्ल्यू)	24062014%
हवलदार संतोष कुमार सी के	(15336134पी	अब जेसी -340898वाई)	14062014%
हवलदार संतोष कुमार सिंह	(15338157पी	अब जेसी -340899एफ)	13062014%
हवलदार इस्माइल बाबू शेख	(15338580पी	अब जेसी -340900एल)	13062014%
हवलदार आलोक कुमार पतनवार	(15338670डब्ल्यू	अब जेसी -340901एन)	13062014%
हवलदार बिप्लव दत्ता	(15338491डब्ल्यू	अब जेसी -340902डब्ल्यू)	16062014%
हवलदार ब्रज नाथ पाण्डेय	(15338829डब्ल्यू	अब जेसी -340903वाई)	17062014%
हवलदार वैकहोम मीनाकांता मिट्टै	(15338901एफ	अब जेसी -340904एफ)	13062014%
हवलदार बिनोद कुमार भारती	(15338929एफ	अब जेसी -340905के)	13062014%
हवलदार वसन्त कुमार एच वी	(15338948एम	अब जेसी -340906एम)	14062014%
हवलदार महीपाल सिंह	(15339025डब्ल्यू	अब जेसी -340907पी)	13062014%
हवलदार अर्जुंगशी राम्यो	(15338900वाई)	अब जेसी -340908एक्स)	13062014%
हवलदार जितेन्द्र सिंह भदौरिया	(15339845ए	अब जेसी -340909ए)	12062014%
हवलदार लिङ्गान्धम रंजन सिंह	(15339854एफ	अब जेसी -340910पी)	12062014%
हवलदार घनेन्द्र वीर विक्रम सिंह	(15342454ए	अब जेसी -340911एक्स)	12062014%
हवलदार दीपक कुमार मिश्रा	(15343067एक्स	अब जेसी -340912ए)	13062014%
हवलदार सुमान्ता मण्डल	(15343079एम	अब जेसी -340913एच)	13062014%
हवलदार अघमोचन सिंह	(15343158एफ	अब जेसी -340914एल)	14062014%
हवलदार जितेन्द्र कुमार	(15343178पी	अब जेसी -340915एन)	13062014%
हवलदार दीपक कुमार भुयान	(15343217एच	अब जेसी -340916डब्ल्यू)	13062014%
हवलदार निर्मल सरकार	(15343285डब्ल्यू	अब जेसी -340917वाई)	13062014\$
हवलदार अशोक कुमार यादव	(15343288के	अब जेसी -340918एफ)	13062014\$
हवलदार ब्रजेश कुमार सिंह	(15343341के	अब जेसी -340919के)	12062014\$
हवलदार सुजीत घोष	(15343399एफ	अब जेसी -340920वाई)	13062014\$
हवलदार सजल घोष	(15343401एन	अब जेसी -340921एफ)	13062014\$
हवलदार पलाश चन्द्र घोष	(15343410पी	अब जेसी -340922के)	13062014\$
हवलदार शान्ति कुमार सिंघा	(15343436के	अब जेसी -340923एम)	16062014\$
हवलदार रजनीश	(15343764एक्स	अब जेसी -340924पी)	13062014\$

[नायब सूबेदार (एस के टी) के रैंक में]

हवलदार राजेन्द्र प्रसाद पाण्डा	(1489577डब्ल्यू	अब जेसी -340925एक्स)	13062014\$
हवलदार चिन्तामोणी घोसल	(1489623ए	अब जेसी -340926ए)	12062014\$
हवलदार धर्मेन्द्र सिंह	(1489576एन	अब जेसी -340927एच)	19052014^
हवलदार एस जयापालन	(1490503एन	अब जेसी -340928एल)	16062014*
हवलदार ललित मोहन	(1490790एच	अब जेसी -340929एन)	20062014#

हवलदार सतीश कुमार	(1490823एच	अब जेसी -340930एच)	14062014#
हवलदार मोरे दत्तातराय विठ्ठलराव	(1490828एफ	अब जेसी -340931एल)	14062014#
हवलदार मेटे शत्रुघ्न लक्ष्मण	(1490862एफ	अब जेसी -340932एन)	14062014#
हवलदार महेश प्रसाद त्रिपाठी	(1491298के	अब जेसी -340933डब्ल्यू)	16062014#\$
हवलदार एल लजर	(1491670डब्ल्यू	अब जेसी -340934वाई)	02062014#\$
हवलदार मंजीत सिंह	(1491861एल	अब जेसी -340935एफ)	18062014%
हवलदार सलीम मोहम्मद	(1486624एक्स	अब जेसी -340936के)	02062014\$
हवलदार कृष्ण पाल सिंह	(1492081एम	अब जेसी -340937एम)	02062014\$
हवलदार सुनील कुमार के	(1492120ए	अब जेसी -340938पी)	01062014\$
हवलदार बम्बानिया मनुभाई जेसाभाई	(1492147एक्स	अब जेसी -340939एक्स)	02062014\$
हवलदार वारहाते जयवन्त कृष्णदेव	(1492157एफ	अब जेसी -340940एम)	02062014\$
हवलदार निकम संदीप टुकाराम	(1492216एच	अब जेसी -340941पी)	02062014\$
हवलदार दिनेश सिंह रौतेला	(1492287के	अब जेसी -340942एक्स)	02062014\$
हवलदार ओम प्रकाश	(1492321वाई	अब जेसी -340943ए)	05062014\$

[नायब सूबेदार (सर्वे) के रैंक में]

हवलदार प्रदीप सिंह	(1489001वाई	अब जेसी -340944एच)	25062014#
--------------------	-------------	--------------------	-----------

&(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2013)

^(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 जनवरी 2014)

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014)

@(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 फरवरी 2014)

%#(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014)

#(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2014)

#\$ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014)

%(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 मई 2014)

\$ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2014)

बम्बई इंजीनियर ग्रुप

नायब सूबेदार (क्लर्क एस डी) के रैंक में

हवलदार क्लर्क एस डी	रथीश कुमार आर	सं 1587519एच	अब जेसी 353015एच	16 जून 2014
हवलदार क्लर्क एस डी	मोरे संदेश पांडुरंग	सं 1587526वाई	अब जेसी 353916एल	02 जून 2014
हवलदार क्लर्क एस डी	महबुब अली मलिक	सं 1587539डब्ल्यू	अब जेसी 353017एन	02 जून 2014
हवलदार क्लर्क एस डी	सतीश चंद चाहर	सं 1587584एच	अब जेसी 353018डब्ल्यू	04 जून 2014
हवलदार क्लर्क एस डी	समीर राय चौधरी	सं 1587592एफ	अब जेसी 353019वाई	02 जून 2014
हवलदार क्लर्क एस डी	प्रताप कुमार राय	सं 1587593के	अब जेसी 353020एन	02 जून 2014
हवलदार क्लर्क एस डी	बरेन कुमार मन्डल	सं 1587595पी	अब जेसी 353021डब्ल्यू	02 जून 2014
हवलदार क्लर्क एस डी	गिरानंद प्रसाद	सं 1587606डब्ल्यू	अब जेसी 353022वाई	02 जून 2014
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जायेगी				

नायब सूबेदार (एस के टी) के रैंक में

हवलदार/एस के टी	अनिल कुमार सिंह	सं 1586407डब्ल्यू	अब जेसी 352909एम	01 मई 2014
हवलदार/एस के टी	सैयद रियाज अहमद	सं 1580312ए	अब जेसी 352910एफ	02 मई 2014
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जायेगी				
हवलदार/एस के टी	शेर सिंह	सं 1586463पी	अब जेसी 352911के	01 मई 2014
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2006 से दी जायेगी				
हवलदार/एस के टी	मनोज कुमार मिश्रा	सं 1586487वाई	अब जेसी 352912एम	01 मई 2014
हवलदार/एस के टी	रविन्द्र कुमार	सं 1586595एच	अब जेसी 352913पी	30 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी				
हवलदार/एस के टी	अनिल कुमार	सं 1586624एम	अब जेसी 352914एक्स	06 मई 2014
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जायेगी				
हवलदार/एस के टी	पटेल मुकेश भाई कान्जी भाई	सं 1586685के	अब जेसी 352915ए	12 मई 2014
हवलदार/एस के टी	सुनील कुमार शर्मा	सं 1586741एक्स	अब जेसी 352916एच	01 मई 2014
हवलदार/एस के टी	कल्लम श्रीनिवासा रेडडी	सं 1586860एन	अब जेसी 352917एल	03 मई 2014
हवलदार/एस के टी	चिलाकाला सिवा शंकर	सं 1586873एल	अब जेसी 352918एन	02 मई 2014
हवलदार/एस के टी	बी सरवनन	सं 1586875डब्ल्यू	अब जेसी 352919डब्ल्यू	06 मई 2014
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जायेगी				
हवलदार/एस के टी	रकटे तानाजीराव संभाजीराव	सं 1586965एक्स	अब जेसी 352920एल	01 मार्च 2014
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जायेगी				
हवलदार/एस के टी	पलासकर रामदास निवृत्ती	सं 1586968एल	अब जेसी 352921एन	01 मई 2014
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जायेगी				
हवलदार/एस के टी	जया कुमार एम	सं 1587090वाई	अब जेसी 352922डब्ल्यू	03 मई 2014
हवलदार/एस के टी	झेड अरुल पॉल	सं 1587099एन	अब जेसी 352923वाई	02 मई 2014
हवलदार/एस के टी	अरविन्द कुमार	सं 1587141एफ	अब जेसी 352924एफ	02 मई 2014
हवलदार/एस के टी	जयेन्द्र प्रसाद	सं 1587285के	अब जेसी 352925के	01 मई 2014
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2010 से दी जायेगी				
हवलदार/एस के टी	श्रीधर साहू	सं 1587597ए	अब जेसी 352926एम	02 मई 2014
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2011 से दी जायेगी				
हवलदार/एस के टी	बलवंत सिंह	सं 1587635एल	अब जेसी 352927पी	01 मई 2014
हवलदार/एस के टी	हरे कृष्णा सिंह	सं 1587649एल	अब जेसी 352928एक्स	02 मई 2014
हवलदार/एस के टी	अजी कुमार वी	सं 1587716एल	अब जेसी 352929ए	01 मई 2014
हवलदार/एस के टी	नुरदीन	सं 1587717एन	अब जेसी 352930पी	01 मई 2014
हवलदार/एस के टी	खेमन्द्र कुमार	सं 1586511के	अब जेसी 352931एक्स	01 मई 2014
हवलदार/एस के टी	सी अच्युथा रेडडी	सं 1587780एच	अब जेसी 352932ए	01 मई 2014
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2011 से दी जायेगी				

हवलदार/एस के टी	जितेन्द्र सिंह	सं 1587811एक्स	अब जेसी 352933एच	01 मई 2014
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2011 से दी जायेगी				
हवलदार/एस के टी	श्रीकांत शुक्ला	सं 1587852एफ	अब जेसी 352934एल	01 मई 2014
हवलदार/एस के टी	अदलुरी श्रीनिवासा राजू	सं 1587868एम	अब जेसी 352935एन	03 मई 2014
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2012 से दी जायेगी				
हवलदार/एस के टी	पी चैलादुराई	सं 1587902एफ	अब जेसी 352936डब्ल्यू	01 मई 2014
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2012 से दी जायेगी				
हवलदार/एस के टी	गाडे रविन्द्र बजरंग	सं 1587917के	अब जेसी 352937वाई	02 मई 2014
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जायेगी				
हवलदार/एस के टी	जोशी जयेन्द्र ज्योतीशंकर	सं 1587924ए	अब जेसी 352938एफ	01 मई 2014
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2013 से दी जायेगी				
हवलदार/एस के टी	खोकन बोस	सं 1588097पी	अब जेसी 352939के	02 मई 2014
हवलदार/एस के टी	मनोज कुमार सिंह	सं 1588100के	अब जेसी 352940वाई	02 मई 2014
हवलदार/एस के टी	उदय भान सिंह	सं 1588102पी	अब जेसी 352941एफ	03 जून 2014
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 फरवरी 2014 से दी जायेगी				
हवलदार/एस के टी	राजीव कुमार एस	सं 1588107एन	अब जेसी 352942के	17 मई 2014
हवलदार/एस के टी	शिवे प्रकाश	सं 1588121ए	अब जेसी 352943एम	13 मई 2014
हवलदार/एस के टी	संतोष भासकर	सं 1588130एफ	अब जेसी 352944पी	05 मई 2014
हवलदार/एस के टी	टाइटुस थॉमस	सं 1588134एक्स	अब जेसी 352945एक्स	03 मई 2014
हवलदार/एस के टी	मनोज कुमार दास	सं 1588148एक्स	अब जेसी 352946ए	01 मई 2014
हवलदार/एस के टी	प्रमोद कुमार मोहन्ती	सं 1588154एल	अब जेसी 352947एच	01 मई 2014
हवलदार/एस के टी	गंगेश कुमार	सं 1588158एफ	अब जेसी 352948एल	03 मई 2014
हवलदार/एस के टी	नेमा राम	सं 1588159के	अब जेसी 352949एन	05 मई 2014
हवलदार/एस के टी	बाबर अली	सं 1588160वाई	अब जेसी 352950एच	02 मई 2014
हवलदार/एस के टी	अशोक कुमार यादव	सं 1588191वाई	अब जेसी 352951एल	13 मई 2014
हवलदार/एस के टी	शिव पुजन यादव	सं 1588202ए	अब जेसी 352952एन	03 मई 2014
हवलदार/एस के टी	अमरेन्द्र कुमार सिंह	सं 1588203एच	अब जेसी 352953डब्ल्यू	03 मई 2014
हवलदार/एस के टी	टी हरी शंकर	सं 1588211एफ	अब जेसी 352954वाई	26 मई 2014
हवलदार/एस के टी	सुरेन्द्र प्रसाद	सं 1588212के	अब जेसी 352955एफ	02 मई 2014
हवलदार/एस के टी	शिवते नितिन बलीराम	सं 1588268डब्ल्यू	अब जेसी 352956के	02 मई 2014
हवलदार/एस के टी	ओमप्रकाश यादव	सं 1588269वाई	अब जेसी 352957एम	02 मई 2014
हवलदार/एस के टी	छत्ती प्रहलाद	सं 1587928डब्ल्यू	अब जेसी 352958पी	04 जून 2014
हवलदार/एस के टी	आशुतोष बिस्वास	सं 1588150पी	अब जेसी 352959एक्स	07 मई 2014

हवलदार/एस के टी	फुल चंद वर्मा	सं 1588155एन	अब जेसी 352960एम	13 मई 2014
हवलदार/एस के टी	संजय कुमार	सं 1588279एच	अब जेसी 352961पी	20 मई 2014
हवलदार/एस के टी	डी अरुल प्रकाश	सं 1587945डब्ल्यू	अब जेसी 352962एक्स	01 मई 2014
हवलदार/एस के टी	वेंकटेश्वरालु गन्ना	सं 1588108डब्ल्यू	अब जेसी 352963ए	02 मई 2014
हवलदार/एस के टी	बिपिन कुमार भारती	सं 1588153एच	अब जेसी 352964एच	01 मई 2014
हवलदार/एस के टी	गोपाल प्रसाद साह	सं 1588248एच	अब जेसी 352965एल	02 मई 2014
हवलदार/एस के टी	सकपाल रवी शंकर	सं 1588278ए	अब जेसी 352966एन	02 मई 2014
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 फरवरी 2014 से दी जायेगी				
हवलदार/एस के टी	हरी ओम शर्मा	सं 1586610एम	अब जेसी 352967डब्ल्यू	10 जून 2014
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी				
हवलदार/एस के टी	फतेह सिंह	सं 1587633ए	अब जेसी 352968वाई	10 जून 2014
हवलदार/एस के टी	प्रताप चन्द्र साहु	सं 1587643के	अब जेसी 352969एफ	02 मई 2014
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2011 से दी जायेगी				
हवलदार/एस के टी	संकर सिन्हा	सं 1588103एक्स	अब जेसी 352970डब्ल्यू	24 मई 2014
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 फरवरी 2014 से दी जायेगी				
हवलदार/एस के टी	बैजू वी	सं 1588125डब्ल्यू	अब जेसी 352971वाई	14 जून 2014
हवलदार/एस के टी	मुकेश चन्द्र जोशी	सं 1588141एन	अब जेसी 352972एफ	12 जून 2014
हवलदार/एस के टी	गिरवाले सदाशिव शाहु	सं 1587919पी	अब जेसी 352973के	31 मई 2014
हवलदार/एस के टी	घुमन सिंह शेखावत	सं 1588190डब्ल्यू	अब जेसी 352974एम	02 जून 2014
हवलदार/एस के टी	सुनील कुमार शर्मा	सं 1588280एक्स	अब जेसी 352975पी	02 जून 2014
हवलदार/एस के टी	कुलविन्दर सिंह	सं 1588281ए	अब जेसी 352976एक्स	18 जून 2014
हवलदार/एस के टी	प्रकाश वीर	सं 1588284एन	अब जेसी 352977ए	16 जून 2014
हवलदार/एस के टी	सुनील कुमार	सं 1588289एम	अब जेसी 352978एच	31 मई 2014
हवलदार/एस के टी	शिव कुमार चौधरी	सं 1588309पी	अब जेसी 352979एल	14 जून 2014
हवलदार/एस के टी	हरनाम सिंह	सं 1588328ए	अब जेसी 352980ए	02 जून 2014
हवलदार/एस के टी	नारायण येरूनकर	सं 1588332एच	अब जेसी 352981एच	01 जून 2014
हवलदार/एस के टी	विनय कुमार	सं 1588335डब्ल्यू	अब जेसी 352982एल	06 जून 2014
हवलदार/एस के टी	जय प्रकाश वर्मा	सं 1588341के	अब जेसी 352983एन	14 जून 2014
हवलदार/एस के टी	उमेश चन्द्र	सं 1588345ए	अब जेसी 352984डब्ल्यू	02 जून 2014
हवलदार/एस के टी	शैलेन्द्र कुमार	सं 1588356एम	अब जेसी 352985वाई	02 जून 2014
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 मार्च 2014 से दी जायेगी				
हवलदार/एस के टी	आशिश कुमार सिंह	सं 1588361एक्स	अब जेसी 352986एफ	12 जून 2014
हवलदार/एस के टी	संदीप सिंह	सं 1588365एन	अब जेसी 352987के	02 जून 2014
हवलदार/एस के टी	मसुब अली	सं 1588374पी	अब जेसी 352988एम	02 जून 2014

हवलदार/एस के टी	विकास राना	सं 1588410पी	अब जेसी 352989पी	02 जून 2014
हवलदार/एस के टी	कमल कांती बिस्वास	सं 1588548के	अब जेसी 352990के	16 जून 2014
हवलदार/एस के टी	गौतम भौमिक	सं 1588551के	अब जेसी 352991एम	16 जून 2014
हवलदार/एस के टी	विकाश चन्द्र मन्डल	सं 1588559डब्ल्यू	अब जेसी 352992पी	18 जून 2014
हवलदार/एस के टी	संजीव महापत्रा	सं 1588599एक्स	अब जेसी 352993एक्स	21 जून 2014
हवलदार/एस के टी	राबिन्द्र नाथ जाना	सं 1588536पी	अब जेसी 352994ए	18 जून 2014
हवलदार/एस के टी	प्रेम पाल	सं 1587857ए	अब जेसी 352995एच	03 जून 2014
हवलदार/एस के टी	सुरेन्द्र कुमार	सं 1588270एन	अब जेसी 352996एल	02 जून 2014
हवलदार/एस के टी	किनकर प्रसाद दिंडा	सं 1588535एम	अब जेसी 352997एन	03 जून 2014
हवलदार/एस के टी	देबाब्रता मैती	सं 1588537एक्स	अब जेसी 352998डब्ल्यू	14 जून 2014
हवलदार/एस के टी	अरविंद सिंह	सं 1588625एन	अब जेसी 352999वाई	04 जून 2014
हवलदार/एस के टी	मनोज कुमार	सं 1588634पी	अब जेसी 353000ए	02 जून 2014
हवलदार/एस के टी	देवेन्द्र कुमार	सं 1588647एम	अब जेसी 353001एच	02 जून 2014
हवलदार/एस के टी	शिव नारायण गुर्जर	सं 1588650एम	अब जेसी 353002एल	09 जून 2014
हवलदार/एस के टी	कामेश्वर यादव	सं 1588664एम	अब जेसी 353003एन	02 जून 2014
हवलदार/एस के टी	अशिन्द्रा कुमार	सं 1588676एफ	अब जेसी 353004डब्ल्यू	02 जून 2014
हवलदार/एस के टी	भारत भूषण पांडे	सं 1588678एम	अब जेसी 353005वाई	02 जून 2014
हवलदार/एस के टी	अलख पासवान	सं 1588680के	अब जेसी 353006एफ	03 जून 2014
हवलदार/एस के टी	बिजेन्द्र कुमार सुधाकर	सं 1588685एच	अब जेसी 353007के	18 जून 2014
हवलदार/एस के टी	गनपत लाल	सं 1587898के	अब जेसी 353008एम	02 जून 2014
हवलदार/एस के टी	नीरज कुमार	सं 1588722एल	अब जेसी 353009पी	03 जून 2014
हवलदार/एस के टी	कुदंन कुमार	सं 1588742वाई	अब जेसी 353010के	02 जून 2014
हवलदार/एस के टी	धीरन्द्र कुमार	सं 1588746पी	अब जेसी 353011एम	03 जून 2014
हवलदार/एस के टी	अंजनी कुमार	सं 1588749एच	अब जेसी 353012पी	04 जून 2014
हवलदार/एस के टी	हरेन्द्र	सं 1588756वाई	अब जेसी 353013एक्स	04 जून 2014
हवलदार/एस के टी	मेननेम लंकीयाह	सं 1587340पी	अब जेसी 353014ए	05 जून 2014
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 मार्च 2014 से दी जायेगी				

अनुराग शर्मा
अवर सचिव

थल सेना मुख्यालय

सं. 129, दिनांक 8 मई 2015—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:—

नियमित सेना

कोर आफ इंजीनियर्स

बम्बई इंजीनियर ग्रुप

नायब सूबेदार :संगीतकार: के रैंक में

हवलदार संगीतकार	डपाले उमेश कृष्णा	सं 1584127के	अब जेसी 352535एफ	03 अक्टूबर 2013
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2013 से दी जायेगी				

नायब सूबेदार (क्लर्क एस डी) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क एस डी)	महेश्वर प्रधान	सं 1586440एन	अब जेसी 352499एफ	13 सितम्बर 2013
हवलदार (क्लर्क एस डी)	महेन्द्र पाल गंगवार	सं 1586589पी	अब जेसी 352500एल	01 अगस्त 2013
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले/डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2013 से दी जायेगी				
हवलदार (क्लर्क एस डी)	धर्मबीर सिंह	सं 1586637के	अब जेसी 352507पी	02 सितम्बर 2013
हवलदार (क्लर्क एस डी)	राजेन्द्र कुमार	सं 1586652वाई	अब जेसी 352508एक्स	02 सितम्बर 2013
हवलदार (क्लर्क एस डी)	पुका राम	सं 1586670एफ	अब जेसी 352509ए	02 सितम्बर 2013
हवलदार (क्लर्क एस डी)	एम विनोद कुमार	सं 1586691एक्स	अब जेसी 352510पी	03 सितम्बर 2013
हवलदार (क्लर्क एस डी)	मानस कुमार नायक	सं 1490440डब्ल्यू	अब जेसी 352511एक्स	02 सितम्बर 2013
हवलदार (क्लर्क एस डी)	दलीप कुमार तांती	सं 1586694एल	अब जेसी 352512ए	02 सितम्बर 2013
हवलदार (क्लर्क एस डी)	हुसैन मोहम्मद लिठॉन	सं 1490448एच	अब जेसी 352513एच	01 सितम्बर 2013
हवलदार (क्लर्क एस डी)	अशोक कुमार	सं 1586701डब्ल्यू	अब जेसी 352514एल	10 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले/डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2013 से दी जायेगी				
हवलदार (क्लर्क एस डी)	भुपेन्द्र कुमार शंखधर	सं 1586825एल	अब जेसी 352536के	03 अक्टूबर 2013
हवलदार (क्लर्क एस डी)	दाता राम यादव	सं 1586830डब्ल्यू	अब जेसी 352537एम	03 अक्टूबर 2013
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2013 से दी जायेगी				
हवलदार (क्लर्क एस डी)	प्रदीप कुमार के	सं 1586098वाई	अब जेसी 352539एक्स	28 अक्टूबर 2013
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2013 से दी जायेगी				
हवलदार (क्लर्क एस डी)	पांढरे पुनप्पा अप्पा	सं 1586702वाई	अब जेसी 352545एच	10 अक्टूबर 2013
हवलदार (क्लर्क एस डी)	नरेन्द्र कुमार	सं 1586715डब्ल्यू	अब जेसी 352546एन	10 अक्टूबर 2013
हवलदार (क्लर्क एस डी)	सुनील सुंदरम	सं 1586724एक्स	अब जेसी 352547डब्ल्यू	10 अक्टूबर 2013
हवलदार (क्लर्क एस डी)	भावसर निलेश विजय	सं 1586738एक्स	अब जेसी 352548वाई	01 अक्टूबर 2013
हवलदार (क्लर्क एस डी)	मचे तुकाराम यादु	सं 1586755एक्स	अब जेसी 352549एफ	19 अक्टूबर 2013
हवलदार (क्लर्क एस डी)	मोहम्मद हबीब खान	सं 1586247एफ	अब जेसी 352550डब्ल्यू	15 अक्टूबर 2013
हवलदार (क्लर्क एस डी)	प्रवीण कुमार	सं 1586813डब्ल्यू	अब जेसी 352551वाई	04 नवम्बर 2013
हवलदार (क्लर्क एस डी)	राजेन्द्र कुमार	सं 1586821पी	अब जेसी 352552एफ	10 अक्टूबर 2013
हवलदार (क्लर्क एस डी)	नंदलाल सिंह यादव	सं 1586826एन	अब जेसी 352553के	15 अक्टूबर 2013
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2013 से दी जायेगी				
हवलदार (क्लर्क एस डी)	एम सेलवा कुमार	सं 1586877एफ	अब जेसी 352583एफ	01 नवम्बर 2013
हवलदार (क्लर्क एस डी)	जे ससी कुमार	सं 1586880एफ	अब जेसी 352584के	01 नवम्बर 2013
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों के साथ ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2013 से दी जायेगी				

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार (जी डी)	सुखदेव सिंह	सं 1580667एल	अब जेसी 352498वाई	01 जुलाई 2013
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों के साथ ज्येष्ठता 01 जुलाई 2013 से दी जायेगी				

हवलदार (जी डी)	हरजिंदर सिंह	सं 1581097एम	अब जेसी 352501एन	01 अगस्त 2013
हवलदार (जी डी)	चौधरी अशोक प्रभाकर	सं 1581123एच	अब जेसी 352502डब्ल्यू	01 अगस्त 2013
हवलदार (जी डी)	चनाखेकर अजय मधुकर	सं 1581154एच	अब जेसी 352503वाई	01 अगस्त 2013
हवलदार (जी डी)	धुमाळ राजेन्द्र चन्द्रभान	सं 1581203ए	अब जेसी 352504एफ	05 अगस्त 2013
हवलदार (जी डी)	लखवीर सिंह	सं 1581253एल	अब जेसी 352505के	01 अगस्त 2013
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले/डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2013 से दी जायेगी				
हवलदार (जी डी)	सोनावणे सचिन बबन	सं 15568489एक्स	अब जेसी 352515एन	02 सितम्बर 2013
हवलदार (जी डी)	जगताप आशिप अशोक	सं 15568803ए	अब जेसी 352516डब्ल्यू	02 सितम्बर 2013
हवलदार (जी डी)	रफीक खान	सं 1581294पी	अब जेसी 352517वाई	02 सितम्बर 2013
हवलदार (जी डी)	भोसले कुंडलीक बापू	सं 1581341एफ	अब जेसी 352518एफ	02 सितम्बर 2013
हवलदार (जी डी)	कोडाग बाजीराव गुलाबराव	सं 158154वाई	अब जेसी 352519के	01 सितम्बर 2013
हवलदार (जी डी)	हरगोपाल	सं 1581385वाई	अब जेसी 352520वाई	02 सितम्बर 2013
हवलदार (जी डी)	पवार संतोश सखाराम	सं 1581387के	अब जेसी 352521एफ	02 सितम्बर 2013
हवलदार (जी डी)	भंवर अली	सं 1581402एन	अब जेसी 352522के	02 सितम्बर 2013
हवलदार (जी डी)	युनीस खान	सं 1581442पी	अब जेसी 352523एम	01 सितम्बर 2013
हवलदार (जी डी)	अम्बेरकर मंगेश उत्तम	सं 1581446एल	अब जेसी 352524पी	02 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले/डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2013 से दी जायेगी				
हवलदार (जी डी)	दिसाले राजेन्द्र हनमंत	सं 1581447एन	अब जेसी 352525एक्स	02 सितम्बर 2013
हवलदार (जी डी)	चव्हाण प्रदीप गणपत	सं 1581451डब्ल्यू	अब जेसी 352526ए	02 सितम्बर 2013
हवलदार (जी डी)	राम नरेश पाल	सं 1581455एम	अब जेसी 352527एच	02 सितम्बर 2013
हवलदार (जी डी)	कमलेश्वर प्रसाद	सं 1581479डब्ल्यू	अब जेसी 352528एल	03 सितम्बर 2013
हवलदार (जी डी)	हरजिंदर सिंह	सं 1581482डब्ल्यू	अब जेसी 352529एन	02 सितम्बर 2013
हवलदार (जी डी)	गुरनाम सिंह	सं 1581487पी	अब जेसी 352530एच	02 सितम्बर 2013
हवलदार (जी डी)	अर्जुन सिंह	सं 1581493एच	अब जेसी 352531एल	02 सितम्बर 2013
हवलदार (जी डी)	हरपाल सिंह	सं 1581498एफ	अब जेसी 352532एन	01 सितम्बर 2013
हवलदार (जी डी)	बलविंदर सिंह	सं 1581522एम	अब जेसी 352533डब्ल्यू	02 सितम्बर 2013
हवलदार (जी डी)	गुरमेल सिंह	सं 1581530एल	अब जेसी 352534वाई	02 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले/डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2013 से दी जायेगी				
हवलदार (जी डी)	सुखचेन प्रसाद मिश्रा	सं 1581320एल	अब जेसी 352540एम	03 सितम्बर 2013
हवलदार (जी डी)	अलियास खान	सं 1581375पी	अब जेसी 352541पी	01 सितम्बर 2013
हवलदार (जी डी)	राम निवास विश्वकर्मा	सं 1581378एच	अब जेसी 352542एक्स	03 सितम्बर 2013
हवलदार (जी डी)	समेर सिंह	सं 1581394ए	अब जेसी 352543ए	03 सितम्बर 2013
हवलदार (जी डी)	जोगिंदर पाल सिंह	सं 1581495एन	अब जेसी 352544एच	01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले/डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2013 से दी जायेगी				

हवलदार (जी डी)	अमर सिंह	सं 15574328एल	अब जेसी 352554एम	23 नवम्बर 2013
हवलदार (जी डी)	गुरमेल सिंह	सं 1581551एफ	अब जेसी 352555पी	29 अक्टूबर 2013
हवलदार (जी डी)	कौशल किशोर शर्मा	सं 1581552के	अब जेसी 352556एक्स	25 अक्टूबर 2013
हवलदार (जी डी)	मुकेश कुमार शर्मा	सं 1581574एच	अब जेसी 352557ए	22 अक्टूबर 2013
हवलदार (जी डी)	चव्हाण श्रीकृष्णा अकरम	सं 1581575एल	अब जेसी 352558एच	17 अक्टूबर 2013
हवलदार (जी डी)	कुलविंदर सिंह	सं 1581582एफ	अब जेसी 352559एल	19 अक्टूबर 2013
हवलदार (जी डी)	भोसले श्रीधर पांडुरंग	सं 1581583के	अब जेसी 352560ए	07 नवम्बर 2013
हवलदार (जी डी)	असलम खान	सं 1581604पी	अब जेसी 352561एच	17 अक्टूबर 2013
हवलदार (जी डी)	शिंदे सुनील सुरेश	सं 1581608एल	अब जेसी 352562एल	17 अक्टूबर 2013
हवलदार (जी डी)	गंगोत्री भुजंग दिगम्बर	सं 1581616के	अब जेसी 352563एन	20 नवम्बर 2013
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2013 से दी जायेगी				
हवलदार (जी डी)	चव्हाण प्रशांत धोंडीबा	सं 1581634एम	अब जेसी 352564डब्ल्यू	25 अक्टूबर 2013
हवलदार (जी डी)	कदम जितेन्द्र शिवाजी	सं 1581639एल	अब जेसी 352565वाई	28 अक्टूबर 2013
हवलदार (जी डी)	चौगुले राजाराम अकरम	सं 1581644डब्ल्यू	अब जेसी 352566एफ	29 अक्टूबर 2013
हवलदार (जी डी)	दलजीत सिंह	सं 1581666पी	अब जेसी 352567के	19 अक्टूबर 2013
हवलदार (जी डी)	सेवा लाल	सं 1581684एक्स	अब जेसी 352568एम	25 अक्टूबर 2013
हवलदार (जी डी)	सुर्यवंशी विजय कुमार वामनराव	सं 1581687एल	अब जेसी 352569पी	12 नवम्बर 2013
हवलदार (जी डी)	काजी आलम रज्जाक	सं 1581694एफ	अब जेसी 352570के	09 नवम्बर 2013
हवलदार (जी डी)	दाल चंद	सं 1581704ए	अब जेसी 352571एम	09 नवम्बर 2013
हवलदार (जी डी)	साके अशोक रघुनाथ	सं 1581715एम	अब जेसी 352572पी	13 नवम्बर 2013
हवलदार (जी डी)	ठाकरे संजीव कुमार सुकाराम	सं 1581710एन	अब जेसी 352573एक्स	25 अक्टूबर 2013
हवलदार (जी डी)	बलजिंदर सिंह	सं 1581721ए	अब जेसी 352574ए	12 नवम्बर 2013
हवलदार (जी डी)	नाईक संदीप भिवसेन	सं 1581728के	अब जेसी 352575एच	09 नवम्बर 2013
हवलदार (जी डी)	कुमार सेन खान	सं 1581739डब्ल्यू	अब जेसी 352576एल	29 अक्टूबर 2013
हवलदार (जी डी)	राम निवास	सं 1581744एफ	अब जेसी 352577एन	11 नवम्बर 2013
हवलदार (जी डी)	रनमल खान	सं 1581745के	अब जेसी 352578डब्ल्यू	07 नवम्बर 2013
हवलदार (जी डी)	जोगिंदर सिंह	सं 1581759के	अब जेसी 352579वाई	05 नवम्बर 2013
हवलदार (जी डी)	विनय कुमार	सं 1581760वाई	अब जेसी 352580एन	25 अक्टूबर 2013
हवलदार (जी डी)	भोला सिंह	सं 1581794एम	अब जेसी 352581डब्ल्यू	02 नवम्बर 2013
हवलदार (जी डी)	गुरदित्ता सिंह	सं 1581799एल	अब जेसी 352582वाई	18 अक्टूबर 2013
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2013 से दी जायेगी				
हवलदार (जी डी)	परगट सिंह	सं 1581800पी	अब जेसी 352585एम	02 नवम्बर 2013
हवलदार (जी डी)	काका सिंह	सं 1581801एक्स	अब जेसी 352586पी	06 नवम्बर 2013
हवलदार (जी डी)	बलविंदर सिंह	सं 1581802ए	अब जेसी 352587एक्स	08 नवम्बर 2013
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2013 से दी जायेगी				

हवलदार (जी डी)	शिरवडे पंढरीनाथ सदाशिव	सं 1581836एन	अब जेसी 352588ए	07 नवम्बर 2013
हवलदार (जी डी)	शिंदे भीमराव बाबाराव	सं 1581839एफ	अब जेसी 352589एच	05 नवम्बर 2013
हवलदार (जी डी)	दिलबाग सिंह	सं 1581846एक्स	अब जेसी 352590एक्स	16 नवम्बर 2013
हवलदार (जी डी)	पटोले बालासो कृष्णा	सं 1581907के	अब जेसी 352591ए	02 नवम्बर 2013
हवलदार (जी डी)	राजेश कुमार सिंह	सं 1581946एच	अब जेसी 352592एच	29 नवम्बर 2013
हवलदार (जी डी)	राम रेखा कुमार सिंह	सं 15373448एन	अब जेसी 352593एल	21 नवम्बर 2013
हवलदार (जी डी)	लाल चंद	सं 1581973एम	अब जेसी 352594एन	08 नवम्बर 2013
हवलदार (जी डी)	हजारी सिंह चौहान	सं 1581975एक्स	अब जेसी 352595डब्ल्यू	06 नवम्बर 2013
हवलदार (जी डी)	रिसाल खान	सं 1581978एल	अब जेसी 352596वाई	15 नवम्बर 2013
हवलदार (जी डी)	बरबटे एकनाथ नारायण	सं 1581984वाई	अब जेसी 352597एफ	01 नवम्बर 2013
हवलदार (जी डी)	काशिद ज्ञानेश्वर कृष्णा	सं 1581988पी	अब जेसी 352598के	01 नवम्बर 2013
हवलदार (जी डी)	तांडेलकर सुनील मारुती	सं 1582008पी	अब जेसी 352599एम	01 नवम्बर 2013
हवलदार (जी डी)	शमशाद खान	सं 1582017डब्ल्यू	अब जेसी 352600डब्ल्यू	22 नवम्बर 2013
हवलदार (जी डी)	तगड रघुनाथ उमाजी	सं 1582721एम	अब जेसी 352601वाई	01 नवम्बर 2013
हवलदार (जी डी)	विजय मोरे गंगाराम	सं 1583306एक्स	अब जेसी 352602एफ	11 नवम्बर 2013
हवलदार (जी डी)	हरभजन सिंह	सं 1583312एल	अब जेसी 352603के	01 नवम्बर 2013
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले/डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2013 से दी जायेगी				

नायब सूबेदार (क्लर्क एस के टी) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क एस के टी)	ई राजा कुमारन	सं 1587936पी	अब जेसी 352506एम	01 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों के साथ ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2013 से दी जायेगी				

मद्रास इंजिनियर गुप

नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में

रैंक	नाम	नम्बर	जे. सी. नम्बर	पदोन्नति की तिथि
हवलदार (जी.डी.)	ए सागायानाथन	15310940 के	जे. सी. 311321 डब्ल्यू	01 दिसम्बर 2014*
हवलदार (जी.डी.)	रंगा स्वामी बोरा	15334332 एफ	जे. सी. 311322 वाई	01 दिसम्बर 2014*
हवलदार (जी.डी.)	पिचाईमनी सी	15309142 के	जे. सी. 311323 एफ	01 दिसम्बर 2014#
हवलदार (जी.डी.)	के अनबालगन	15310232 एक्स	जे. सी. 311324 के	01 दिसम्बर 2014\$
हवलदार (जी.डी.)	केमपान्ना लक्कान्नावर	15310636 ए	जे. सी. 311325 एम	01 दिसम्बर 2014
हवलदार (जी.डी.)	बीजु के जे	15310681 एम	जे. सी. 311326 पी	01 दिसम्बर 2014
हवलदार (जी.डी.)	एम मुत्थूरामा जोथी	15310707 डब्ल्यू	जे. सी. 311327 एक्स	01 दिसम्बर 2014
हवलदार (जी.डी.)	बालाबाथुनी वीरा सेखर	15308790 ए	जे. सी. 311328 ए	01 दिसम्बर 2014

*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 जून 2014 से दी गई है ।

#नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी गई है ।

\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी गई है ।

रैंक	नाम	नम्बर	जे. सी. नम्बर	पदोन्नति की तिथि
हवलदार (जी.डी.)	कृष्णामूथि के एल	15309523 एल	जे. सी. 311290 एफ	01 नवम्बर 2014*
हवलदार (जी.डी.)	के वेंकटा रेड्डी	15309129 ए	जे. सी. 311291 के	01 नवम्बर 2014#
हवलदार (जी.डी.)	पी रविन्द्रा कुमार	15309785 एफ	जे. सी. 311269 वाई	01 नवम्बर 2014\$
हवलदार (जी.डी.)	सुनिल कुमार सी पी	15310388 पी	जे. सी. 311292 एम	01 नवम्बर 2014
हवलदार (जी.डी.)	एम मनोहरन	15310390 एम	जे. सी. 311293 पी	01 नवम्बर 2014
हवलदार (जी.डी.)	असोकन सी	15310395 एल	जे. सी. 311294 एक्स	01 नवम्बर 2014
हवलदार (जी.डी.)	एल अप्पासामी	15310401 एन	जे. सी. 311295 ए	01 नवम्बर 2014
हवलदार (जी.डी.)	उदयाकुमार जी	15310436 के	जे. सी. 311296 एच	01 नवम्बर 2014
हवलदार (जी.डी.)	के पी राजेश	15310443 ए	जे. सी. 311298 एन	01 नवम्बर 2014
हवलदार (जी.डी.)	पी वी विजयन	15310445 एल	जे. सी. 311299 डब्ल्यू	01 नवम्बर 2014
हवलदार (जी.डी.)	हरिश ए बी	15310460 ए	जे. सी. 311300 ए	01 नवम्बर 2014
हवलदार (जी.डी.)	एन आर जागादीसन	15310482 वाई	जे. सी. 311301 एच	01 नवम्बर 2014
हवलदार (जी.डी.)	आर कन्नप्पन नायर	15310490 एक्स	जे. सी. 311302 एल	01 नवम्बर 2014
हवलदार (जी.डी.)	पोलिना गंगा जालम	15310500 डब्ल्यू	जे. सी. 311303 एन	01 नवम्बर 2014
हवलदार (जी.डी.)	नारी सम्मा कोय्या	15310501 वाई	जे. सी. 311304 डब्ल्यू	01 नवम्बर 2014
हवलदार (जी.डी.)	मट्टा थनुमजाया राव	15310503 के	जे. सी. 311305 वाई	01 नवम्बर 2014
हवलदार (जी.डी.)	सुवारी मल्लेस्वरा राव	15310504 एम	जे. सी. 311306 एफ	01 नवम्बर 2014
हवलदार (जी.डी.)	रुप्पा भास्करा राव	15310552 एम	जे. सी. 311307 के	01 नवम्बर 2014
हवलदार (जी.डी.)	माददीकटला कासी बाबु	15310558 एन	जे. सी. 311308 एम	01 नवम्बर 2014
हवलदार (जी.डी.)	डुडेकुला कासीम साहेब	15310568 एक्स	जे. सी. 311309 पी	01 नवम्बर 2014
हवलदार (जी.डी.)	रवी चन्द्रन आर	15310604 एक्स	जे. सी. 311310 के	01 नवम्बर 2014
हवलदार (जी.डी.)	राजारतिनम सी	15310627 वाई	जे. सी. 311311 एम	01 नवम्बर 2014
हवलदार (जी.डी.)	अप्पासा दानदीन	15310629 के	जे. सी. 311312 पी	01 नवम्बर 2014
हवलदार (जी.डी.)	ईश्वरी वालीशेट्टी	15310631 एफ	जे. सी. 311313 एक्स	01 नवम्बर 2014

*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2013 से दी गई है ।

#नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी गई है ।

\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी गई है ।

हवलदार (जी.डी.)	बी बालाचन्द्रन	15310082 एम	जे. सी. 311270 एन	01 अक्टूबर 2014*
हवलदार (जी.डी.)	एल एन्थोनीदास	15310346 एच	जे. सी. 311271 डब्ल्यू	03 अक्टूबर 2014#
हवलदार (जी.डी.)	मालारेड्डी रामप्रसादा राव	15310359 ए	जे. सी. 311272 वाई	01 अक्टूबर 2014
हवलदार (जी.डी.)	जेम्स वी जेकोब	15310361 एक्स	जे. सी. 311273 एफ	01 अक्टूबर 2014
हवलदार (जी.डी.)	सिवाकुमार सी	15310370 वाई	जे. सी. 311274 के	01 अक्टूबर 2014

हवलदार (जी.डी.)	मयाप्पा बाबालेन्नावर	15310321 डब्ल्यू	जे. सी.	311275 एम	01 अक्टूबर 2014
हवलदार (जी.डी.)	ए भास्कर ब्रिट्टो	15310379 एन	जे. सी.	311276 पी	01 अक्टूबर 2014
हवलदार (जी.डी.)	रोबिन पी यू	16113997 डब्ल्यू	जे. सी.	311277 एक्स	01 अक्टूबर 2014\$

*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी गई है ।

#नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी गई है ।

\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 सितम्बर 2014 से दी गई है ।

नायब सूबेदार (एस के टी) के पद में

हवलदार (एस के टी)	भोसले विजय कुमार धोंन्डीराम	15310656 एन	जे. सी.	311288 के	01 नवम्बर 2014 @
हवलदार (एस के टी)	एस अरुलप्पन	15310244 एम	जे. सी.	311289 एम	11 नवम्बर 2014 #

@नायब सूबेदार (एस के टी) के पद में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2012 से दी गई है ।

#नायब सूबेदार (एस के टी) के पद में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2013 से दी गई है ।

हवलदार (एस के टी)	वी एलबर्ट जुलियन	15309758 एक्स	जे. सी.	311320 एन	01 दिसम्बर 2014@
-------------------	------------------	---------------	---------	-----------	------------------

@नायब सूबेदार (एस के टी) के पद में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी गई है ।

नायब सूबेदार (लिपिक एस.डी.) के पद में

हवलदार (लिपिक एस.डी.)	किलापती श्रीनिवास	15311496 एल	जे. सी.	311314 ए	01 दिसम्बर 2014
हवलदार (लिपिक एस.डी.)	उप्पाडा रामा राव	15311501 एल	जे. सी.	311315 एच	01 दिसम्बर 2014
हवलदार (लिपिक एस.डी.)	सुरेश बी	15311517 डब्ल्यू	जे. सी.	311316 एल	01 दिसम्बर 2014
हवलदार (लिपिक एस.डी.)	मोरे दन्यानदेव विथोवा	15311518 वाई	जे. सी.	311317 एन	01 दिसम्बर 2014
हवलदार (लिपिक एस.डी.)	मधुसुदनन पिल्लई आर	15311520 डब्ल्यू	जे. सी.	311318 डब्ल्यू	01 दिसम्बर 2014
हवलदार (लिपिक एस.डी.)	जॉनसन के मथाई	15311521 वाई	जे. सी.	311319 वाई	01 दिसम्बर 2014
हवलदार (लिपिक एस.डी.)	मुरुगेसन एम पी	15311329 पी	जे. सी.	311258 एम	01 अक्टूबर 2014
हवलदार (लिपिक एस.डी.)	जी तिरुपती	15311346 पी	जे. सी.	311262 पी	01 अक्टूबर 2014
हवलदार (लिपिक एस.डी.)	विजय फेरनानडेज़	15310172 एन	जे. सी.	311278 ए	01 नवम्बर 2014 #
हवलदार (लिपिक एस.डी.)	अरंगा नाथन एम	15311403 एल	जे. सी.	311279 एच	01 नवम्बर 2014
हवलदार (लिपिक एस.डी.)	टी एन मणी	15311404 एन	जे. सी.	311280 एक्स	01 नवम्बर 2014
हवलदार (लिपिक एस.डी.)	जी एल कनिक्कैराज	15311412 एम	जे. सी.	311281 ए	01 नवम्बर 2014
हवलदार (लिपिक एस.डी.)	सिंध नटवर सिंह	15311462 एक्स	जे. सी.	311282 एच	01 नवम्बर 2014
हवलदार (लिपिक एस.डी.)	पिट्टा मोहन राव	15311465 एल	जे. सी.	311283 एल	01 नवम्बर 2014
हवलदार (लिपिक एस.डी.)	श्रीनिवासा राव समपति राव	15311467 डब्ल्यू	जे. सी.	311284 एन	21 नवम्बर 2014@

हवलदार (लिपिक एस.डी.)	सीपाना लक्ष्मण राव	15311470 डब्ल्यू	जे. सी. 311285 डब्ल्यू	01 नवम्बर 2014
हवलदार (लिपिक एस.डी.)	पट्टन अमनुल्ला खान	15311475 पी	जे. सी. 311286 वाई	01 नवम्बर 2014
हवलदार (लिपिक एस.डी.)	सुरेश सिंह	15311477 ए	जे. सी. 311287 एफ	01 नवम्बर 2014

नायब सूबेदार (लिपिक एस.डी.) के पद में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2013 से दी गई है ।

@ नायब सूबेदार (लिपिक एस.डी.) के पद में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी गई है ।

मनमोहन
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 130, दिनांक 8 मई 2015—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :-

नियमित सेना

इन्फेन्ट्री

ब्रिगेड ऑफ दी गार्ड्स

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार राकेश कुमार	(जेसी-4044457एम)	22 नवम्बर 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार थॉमस ई ए	(जेसी-4044458पी)	22 नवम्बर 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार राम गोपाल शुक्ला	(जेसी-404926के)	10 दिसम्बर 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार हुकुम सिंह	(जेसी-404816पी)	01 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार जय सिंह कुलहारी	(जेसी-404759वाई)	07 जनवरी 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार राकेश कुमार शर्मा	(जेसी-404432ए)	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार संत सिंह	(जेसी-404433एच)	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार गोविन्द सिंह	(जेसी-404680डब्ल्यू)	02 फरवरी 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार द्विपन गोगोई	(जेसी-404871एल)	01 फरवरी 2015
नायब सूबेदार अजय कुमार	(जेसी-404706ए)	01 फरवरी 2015
नायब सूबेदार जपे मानिक राव मछिन्द्रा	(जेसी-404942एफ)	03 फरवरी 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार भोसले तुकाराम बाजीराव	(जेसी-404945पी)	03 फरवरी 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार तेज सिंह	(जेसी-404618के)	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार राजेश कुमार	(जेसी-404785ए)	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार अमर सिंह	(जेसी-404796एम)	17 फरवरी 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जाती है)		

नायब सूबेदार भगीरथमल जाट	(जेसी-404907वाई)	28 जनवरी 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार कुलदीप चंद शर्मा	(जेसी-404950ए)	01 मार्च 2015
नायब सूबेदार बिनु कुमार आर	(जेसी-404700वाई)	07 जनवरी 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार रंजीत सिंह	(जेसी-404734एम)	01 मार्च 2015
नायब सूबेदार बिक्रम सिंह	(जेसी-404968डब्ल्यू)	01 मार्च 2015
नायब सूबेदार अबधेश कुमार	(जेसी-404992एम)	01 मार्च 2015
नायब सूबेदार मेवा लाल	(जेसी-404434एल)	01 फरवरी 2015
नायब सूबेदार कन्द्रा प्रधान	(जेसी-404435एन)	01 फरवरी 2015
नायब सूबेदार पतिता पबन राउत	(जेसी-404491एम)	01 मार्च 2015
नायब सूबेदार प्रवीन कुमार सिंह तोमर	(जेसी-404763एफ)	27 जनवरी 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार अजीमोन के सी	(जेसी-404769एच)	28 जनवरी 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार संतोष सी जे	(जेसी-404476एक्स)	02 फरवरी 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार यशवन्त सिंह	(जेसी-404720पी)	03 मार्च 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी जाती है)		
सूबेदार (क्लर्क एस डी) के रैंक में		
नायब सूबेदार (क्लर्क एस डी) विजेन्द्र सिंह	(जेसी-404899एल)	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार (क्लर्क एस डी) ओम प्रकाश सिंह	(जेसी-404920एच)	01 फरवरी 2015
नायब सूबेदार (क्लर्क एस डी) विबेकानंद हलदर	(जेसी-404933ए)	01 फरवरी 2015
नायब सूबेदार (क्लर्क एस डी) दरबारा सिंह सिद्धु	(जेसी-404946एक्स)	01 फरवरी 2015
नायब सूबेदार (क्लर्क एस डी) इकबाल खान	(जेसी-404947ए)	01 फरवरी 2015
नायब सूबेदार (क्लर्क एस डी) रमेश प्रताप सिंह	(जेसी-404975एम)	01 फरवरी 2015
नायब सूबेदार (क्लर्क एस डी) मृत्युन्जया त्रिपाठी	(जेसी-404976पी)	01 फरवरी 2015
सूबेदार (एस के टी) के रैंक में		
नायब सूबेदार (एस के टी) रविन्द्र सिंह	(जेसी-404842डब्ल्यू)	01 मार्च 2015
सूबेदार (आर टी) के रैंक में		
नायब सूबेदार (आर टी) चैतन्य प्रकाश शर्मा	(जेसी-403429एन)	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार के रैंक में		
हवलदार माया राम साहू	(सं013693440पी अब जेसी-405291एच)	24 दिसम्बर 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जाती है)		
हवलदार सत्यवान सिंह	(सं013692494पी अब जेसी-405277डब्ल्यू)	21 नवम्बर 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जाती है)		
हवलदार द्विग विजय सिंह यादव	(सं013693112एफ अब जेसी-405305एक्स)	02 दिसम्बर 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 से दी जाती है)		
हवलदार ओम प्रकाश सिंह यादव	(सं013693392ए अब जेसी-405306ए)	01 जनवरी 2015
हवलदार सनयास्या केनगुवा	(सं013693928एल अब जेसी-405294डब्ल्यू)	22 नवम्बर 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जाती है)		

हवलदार रवी चन्द्रन जी	(सं013694434एन अब जेसी-405295वाई)	01 नवम्बर 2014
हवलदार सुरेश कुमार	(सं013693318वाई अब जेसी-405314वाई)	01 दिसम्बर 2014
हवलदार निशान सिंह	(सं013692566एच अब जेसी-405298एम)	01 दिसम्बर 2014
हवलदार धमेन्द्र	(सं013695963एम अब जेसी-405302के)	01 जनवरी 2015
हवलदार राजीव कुमार शर्मा	(सं013693615एम अब जेसी-405289एल)	01 जनवरी 2015
हवलदार दरबारा सिंह	(सं013692618एन अब जेसी-405316के)	01 फरवरी 2015
हवलदार ओम प्रकाश	(सं013692731एच अब जेसी-405317एम)	01 फरवरी 2015
हवलदार सुभाष चन्द्र	(सं013695497एच अब जेसी-405292एल)	27 दिसम्बर 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जाती है)		
हवलदार कुन्दन सिंह	(सं013695808एल अब जेसी-405293एन)	01 जनवरी 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जाती है)		
हवलदार सूरत सिंह	(सं013695972एन अब जेसी-405296एफ)	27 दिसम्बर 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता नवम्बर 2014 से दी जाती है)		
हवलदार इन्द्र सिंह खरायत	(सं013692475वाई अब जेसी-405313डब्ल्यू)	01 फरवरी 2015
हवलदार चन्द्र वीर सिंह	(सं013692849के अब जेसी-405299पी)	01 जनवरी 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 से दी जाती है)		
हवलदार लज्जा राम गुर्जर	(सं013693464वाई अब जेसी-405290ए)	01 जनवरी 2015
हवलदार अशोक कुमार	(सं013693495वाई अब जेसी-405318पी)	03 फरवरी 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जाती है)		
हवलदार अनिल कुमार	(सं013693523ए अब जेसी-405320एम)	03 फरवरी 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जाती है)		
हवलदार कृष्ण पाल सिंह	(सं013695628एच अब जेसी-405303एम)	01 जनवरी 2015
हवलदार राज कुमार	(सं013693013वाई अब जेसी-405297के)	01 जनवरी 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 से दी जाती है)		
हवलदार अशोक कुमार	(सं013693334डब्ल्यू अब जेसी-405287ए)	01 जनवरी 2015
हवलदार जयपाल सिंह	(सं013693340के अब जेसी-405288एच)	01 जनवरी 2015
हवलदार रविन्द्रा सिंह	(सं013694726डब्ल्यू अब जेसी-405326एन)	01 मार्च 2015
हवलदार वेद प्रकाश सिंह बांगरवा	(सं013694155एच अब जेसी-405323ए)	23 फरवरी 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जाती है)		
हवलदार कुलदीप सिंह	(सं013692832डब्ल्यू अब जेसी-405327डब्ल्यू)	02 मार्च 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी जाती है)		
हवलदार प्रेम पाल	(सं013693197एच अब जेसी-405328वाई)	01 मार्च 2015
हवलदार संजय कुमार पाण्डे	(सं013693223वाई अब जेसी-405300वाई)	13 जनवरी 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 31 दिसम्बर 2014 से दी जाती है)		
हवलदार सत्यजीत यादव	(सं013693885एफ अब जेसी-405301एफ)	13 जनवरी 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 31 दिसम्बर 2014 से दी जाती है)		
हवलदार चन्द्रा कान्ता गोगोई	(सं013693738वाई अब जेसी-405319एक्स)	03 फरवरी 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जाती है)		

हवलदार शिव दनी लाल	(सं013692818के अब जेसी-405321पी)	05 फरवरी 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जाती है)		
हवलदार बलबीर	(सं013693854एफ अब जेसी-405329एफ)	01 मार्च 2015
हवलदार राम सरन	(सं013695390एन अब जेसी-405304पी)	23 जनवरी 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 नवम्बर 2014 से दी जाती है)		
हवलदार जी अजी कुमार	(सं013696389एल अब जेसी-405322एक्स)	23 जनवरी 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 दिसम्बर 2014 से दी जाती है)		
हवलदार एस गोपाला कृष्णन	(सं013694455के अब जेसी-405315एफ)	01 फरवरी 2015
नायब सूबेदार (क्लर्क एस डी) के रैंक में		
हवलदार (क्लर्क एस डी) प्रमोद कुमार पाण्डे	(सं01491662एक्स अब जेसी-405286एक्स)	01 जनवरी 2015
हवलदार (क्लर्क एस डी) सतीस कुमार	(सं013695866पी अब जेसी-405307एच)	02 फरवरी 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जाती है)		
हवलदार (क्लर्क एस डी) सरदार सिंह दरोगा	(सं013693446डब्ल्यू अब जेसी-405308एल)	01 फरवरी 2015
हवलदार (क्लर्क एस डी) राम मूर्ती शर्मा	(सं013695908डब्ल्यू अब जेसी-405309एन)	01 फरवरी 2015
हवलदार (क्लर्क एस डी) प्रमोद कुमार पान्डा	(सं013695946एम अब जेसी-405310एच)	01 फरवरी 2015
हवलदार (क्लर्क एस डी) राजेश प्रसाद	(सं013695975एफ अब जेसी-405311एल)	02 फरवरी 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जाती है)		
हवलदार (क्लर्क एस डी) हरपाल सिंह	(सं013696148एल अब जेसी-405312एन)	02 फरवरी 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जाती है)		
हवलदार(क्लर्क एस डी) बालू चरनजीत सिंह गुरदास सिंह	(सं013696242पी अब जेसी-405325एल)	02 मार्च 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार (एस के टी) के रैंक में		
हवलदार (एस के टी)जयसा राम गुर्जर	(सं013693102एक्स अब जेसी-405324एच)	01 मार्च 2015
नायब सूबेदार (म्यूजिशियन) के रैंक में		
हवलदार (म्यूजिशियन) प्रकाश चन्द्रा	(सं013694507पी अब जेसी-405282एफ)	05 जनवरी 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 नवम्बर 2014 से दी जाती है)		

राजीव जौहरी
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 131, दिनांक 11 मई 2015—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:—

नियमित सेवा

सेना शारीरिक प्रशिक्षण कोर		पदोन्नति दिनांक
सूबेदार सी एम अरुल नम्बी	(JC-826252L)	01 अगस्त 2014
सूबेदार वी दयालन	(JC-826253N)	01 अक्टूबर 2014
		21 सितम्बर 2014*

सूबेदार जी अशोकन	(JC-826254W)	01 अक्टूबर 2014
सूबेदार हरीन्दर कुमार सिंह	(JC-826255Y)	08 नवम्बर 2014 / 01 नवम्बर 2014*
सूबेदार राम सिंह ठाकूर	(JC-826250A)	01 जनवरी 2015
सूबेदार नत्थु सिंह राठोर	(JC-826256F)	01 जनवरी 2015
सूबेदार मुरुगन एस	(JC-826258M)	01 जनवरी 2015
सूबेदार रविन्दर एम नावर	(JC-826259P)	01 फरवरी 2015

* अवैतनिक वरिष्ठता दिनांक

सेना शारीरिक प्रशिक्षण कोर	पदोन्नति दिनांक
बि.एच.एम. एस बालासुब्रामनी(13986612पी) (अब जेसी-826301एच)	01 अगस्त 2014
बि.एच.एम. चव्हाण किशोर शान्ताराम (2791227एक्स) (अब जेसी-826302एल)	04 अक्टूबर 2014 21 सितम्बर 2014*
बि.एच.एम. संजय कुमार राना (13755586एन) (अब जेसी-826303एन)	01 अक्टूबर 2014
बि.एच.एम. रणदीप कुमार (3187530ए) (अब जेसी-826304डब्ल्यू)	01 अक्टूबर 2014
बि.एच.एम. गणेश राम कुम्हार (13694005एम) (अब जेसी-826305वाई)	01 नवम्बर 2014
बि.एच.एम. अजीत सिंह (2888720पी) (अब जेसी-826306एफ)	01 नवम्बर 2014
बि.एच.एम. शानमुखा एन (2597518के) (अब जेसी-826307के)	23 दिसम्बर 2014 01 नवम्बर 2014*
बि.एच.एम. मुरुगन जी (15313237एफ) (अब जेसी-826308एम)	17 जनवरी 2015 01 जनवरी 2015
बि.एच.एम. बी सुरेश कुमार (2598014एच) (अब जेसी-826309पी)	01 जनवरी 2015
बि.एच.एम. विनोद कुमार (3993203एम) (अब जेसी-826310के)	01 जनवरी 2015
बि.एच.एम. राम चन्द्र श्रेष्ठा (5247268एफ) (अब जेसी-826311एम)	02 फरवरी 2015 01 फरवरी 2015*

* अवैतनिक वरिष्ठता दिनांक

एन बी मनी
अवर सचिव

सं. 132, दिनांक 11 मई 2015—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :-

थल सेना विभाग (एम जी ओ)

इलेक्ट्रानिक्स और मेकेनिकल इन्जीनियरिंग कर्मिक

नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक ए वी एन (ए ई) के रैंक में

सनप एकनाथ मारतंड	(जेसी - 767373 एम)	03 नवम्बर 2014 01 नवम्बर 2014*
मिथलेश कुमार राय	(जेसी - 767372 के)	01 नवम्बर 2014

नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक ए वी एन (ए वी एस) के रैंक में		
अनिल कुमार	(जेसी — 767721 एच)	01 नवम्बर 2014
हरधन मंडल	(जेसी — 767384 वाई)	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक (गन) के रैंक में		
सुजीत मंडल	(जेसी — 763008 एन)	01 अक्टूबर 2014
संतोश कुमार राय	(जेसी — 763468 पी)	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक (ईलेक्ट) के रैंक में		
ब्रह्म पाल	(जेसी — 763385 के)	01 नवम्बर 2014
नरेश कुमार	(जेसी — 763381 एन)	01 नवम्बर 2014
आजाद कुमार	(जेसी — 763382 डब्ल्यू)	01 नवम्बर 2014
अमीर चन्द	(जेसी — 763384 एफ)	01 नवम्बर 2014
राम दयाल सिंह	(जेसी — 763334 डब्ल्यू)	<u>03 नवम्बर 2014</u> 01 नवम्बर 2014*
मद्दुर रमेश शिवगोंद	(जेसी — 763380 एल)	<u>03 नवम्बर 2014</u> 01 नवम्बर 2014*
नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक (एस ए) के रैंक में		
प्रसाद पी आर	(जेसी — 763527 डब्ल्यू)	01 नवम्बर 2014
अजय कुमार दाश	(जेसी — 763463 डब्ल्यू)	01 नवम्बर 2014
गुलाब सिंह	(जेसी — 763331 एच)	01 नवम्बर 2014
जया प्रकाशन वी के	(जेसी — 763329 एल)	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक (नेटवर्क) के रैंक में		
चन्द्र सिंह	(जेसी — 763269 एफ)	01 नवम्बर 2014
थिरु मल डी	(जेसी — 763209 एम)	01 नवम्बर 2014
जवाहर सिंह दुडी	(जेसी — 763204 एन)	<u>27 अक्टूबर 2014</u> 01 अक्टूबर 2014*
नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक (बी वेहिकल) के रैंक में		
रवीन्द्र कुमार	(जेसी — 763242 के)	01 नवम्बर 2014
गोपाल ए	(जेसी — 763401 डब्ल्यू)	<u>10 नवम्बर 2014</u> 01 नवम्बर 2014*
नन्द लाल यादव	(जेसी — 763245 एक्स)	01 नवम्बर 2014
मनफूल बिश्नाई	(जेसी — 763403 एफ)	01 नवम्बर 2014
बिभुपदर बिन्द प्रधान	(जेसी — 763247 एच)	01 नवम्बर 2014
मुन्ना कुमार सिंह	(जेसी — 763326 एक्स)	<u>03 नवम्बर 2014</u> 01 नवम्बर 2014*
बिजु जोहन	(जेसी — 763399 के)	<u>10 नवम्बर 2014</u> 01 नवम्बर 2014*

अवधेश कुमार मिश्रा	(जेसी -763541 एच)	11 नवम्बर 2014 01 नवम्बर 2014*
	नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक (जी सी ई) के रैंक में	
ग्यानेन्द्र	(जेसी - 763182 ए)	01 नवम्बर 2014
	नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक (रडार) के रैंक में	
बैकुंथा बारिक	(जेसी - 762976 वाई)	01 अक्टूबर 2014
बिशम्बर दास चौधरी	(जेसी -763332 एल)	03 नवम्बर 2014 01 नवम्बर 2014*
अनिल कुमार शर्मा	(जेसी -762963 एफ)	01 नवम्बर 2014 01 अक्टूबर 2014*
	नायब सूबेदार से सूबेदार ऑटो टेक (बी वेहिकल) के रैंक में	
ललित कुमार सिंह	(जेसी -768135 एम)	01 नवम्बर 2014 01 जनवरी 2014*
उत्तम कुमार तिवारी	(जेसी - 768136 पी)	05 नवम्बर 2014 01 जनवरी 2014*
शिव शंकर मोर्या	(जेसी - 768139 एच)	01 नवम्बर 2014 01 जनवरी 2014*
	नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टरे टेक (सी वेहिकल) के रैंक में	
पाटिल सुधाकर रघुनाथ	(जेसी - 762740 के)	14 अगस्त 2014 01 अगस्त 2014*
	नायब सूबेदार से सूबेदार ऑटो टेक (बी वेहिकल) के रैंक में	
श्याम बिहारी मिश्रा	(जेसी - 768250 एम)	01 नवम्बर 2014 01 जनवरी 2014*
	नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक (एस ए) के रैंक में	
मधु सूधानन पिल्लई सी	(जेसी - 763379 डब्ल्यू)	01 नवम्बर 2014
दीना नाथ सिंह	(जेसी -763378 एन)	01 नवम्बर 2014
लुक्का वेंकटेश्वरा राव	(जेसी -763330 ए)	10 नवम्बर 2014 01 नवम्बर 2014*
बनवारी लाल शर्मा	(जेसी -763377 एल)	01 नवम्बर 2014
	नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक (जी सी ई) के रैंक में	
रबिन्द्र चन्द्र राय	(जेसी -763183 एच)	01 नवम्बर 2014
	नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक (ईलेक्ट) के रैंक में	
संतोश कुमार पी आर	(जेसी - 764522 के)	01 नवम्बर 2014
दशरथ सामरे	(जेसी -764523 एम)	10 नवम्बर 2014 01 नवम्बर 2014*

नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक (बी वेहिकल) के रैंक में		
एस थंगवेलु	(जेसी — 763400 एन)	01 नवम्बर 2014
थांजा सामी ई	(जेसी — 763405 एम)	01 नवम्बर 2014
प्रेम पौल	(जेसी — 763467 एम)	01 नवम्बर 2014
थिरुवेंगडम आर	(जेसी — 763464 वाई)	04 नवम्बर 2014
		01 नवम्बर 2014*
चन्द्र पाल	(जेसी — 763412 एच)	14 नवम्बर 2014
		01 नवम्बर 2014*
उदा राम कुमावत	(जेसी — 764292 एफ)	01 नवम्बर 2014
जयंता कुमार राय	(जेसी — 763408 ए)	01 नवम्बर 2014
जंग बहादुर सिंह	(जेसी — 763411 ए)	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक (गन) के रैंक में		
प्रेम सिंह	(जेसी — 763522 एक्स)	01 नवम्बर 2014
राज कुमार तिवारी	(जेसी — 763375 ए)	01 नवम्बर 2014
ए परमा राज	(जेसी — 763374 एक्स)	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक (नेटवर्क) के रैंक में		
एस वेलमुर्गन	(जेसी — 763268 वाई)	17 नवम्बर 2014
		01 नवम्बर 2014*
खेदकर शहदेव गनपत	(जेसी — 763458 एल)	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक (ए वेहिकल) के रैंक में		
बलविन्दर सिंह	(जेसी — 763333 एन)	14 नवम्बर 2014
		01 नवम्बर 2014*
नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक ए वी एन (ए ई) के रैंक में		
सुभाश चन्द्र दलाल	(जेसी — 767374 पी)	12 नवम्बर 2014
		01 नवम्बर 2014*
निलादरी केसरी पांडा	(जेसी — 767377 एच)	15 नवम्बर 2014
		01 नवम्बर 2014*
नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक (ईलेक्ट) के रैंक में		
हंस राज	(जेसी — 767381 एल)	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक ए वी एन (ए वी एस) के रैंक में		
अनिल कुमार वी एस	(जेसी — 767386 के)	03 नवम्बर 2014
		01 नवम्बर 2014*
नागेश्वरा रेड्डी माड्डी	(जेसी — 767385 एफ)	03 नवम्बर 2014
		01 नवम्बर 2014*
नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक ए वी एन (ए ई) के रैंक में		
सुखवीर सिंह	(जेसी — 767375 एक्स)	12 नवम्बर 2014
		01 नवम्बर 2014*

राम किशोर सिंह	(जेसी -767276 ए)	12 नवम्बर 2014
		01 नवम्बर 2014*
कमलेश के आर पांडेय	(जेसी -767378 एल)	12 नवम्बर 2014
		01 नवम्बर 2014*
रवी शंकर दुबे	(जेसी -767371 एफ)	05 नवम्बर 2014
		01 नवम्बर 2014*
नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक ए वी एन (ए वी एस) के रैंक में		
राकेश जमवाल	(जेसी -767382 एन)	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक ए वी एन (ए फ) के रैंक में		
दलबीर सिंह	(जेसी - 767366 डब्ल्यू)	15 नवम्बर 2014
		01 नवम्बर 2014*
सुनकारी सम्मयाह	(जेसी - 767365 एन)	18 नवम्बर 2014
		01 नवम्बर 2014*
नायब सूबेदार से सूबेदार टेक (एस ए) के रैंक में		
दोनकर तानाजी पांडुरंग	(जेसी -767298 एन)	01 नवम्बर 2014

*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है।

क्वचित कोर

नायब रिसालदार के रैंक में

दफादार/ क्लर्क	संतोष कुमार श्रीवास्तव	(सं. 1099154एच अब जेसी-245990एम)	*01 जनवरी 2013
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जाती है)			
दफादार/ क्लर्क	हरी शंकर यादव	(सं. 15464594 एफ अब जेसी-245995एल)	01 नवम्बर 2012
दफादार/ क्लर्क	रंजीत कुमार पात्रा	(सं. 1486407एफ अब जेसी-246011पी)	*06 दिसम्बर 2012
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2012 से दी जाती है)			
दफादार/ क्लर्क	अलताफ हुसैन	(सं. 1098757एम अब जेसी-246014एच)	01 दिसम्बर 2012
दफादार/ क्लर्क	सतीश कुमार सिंह	(सं. 15461244के अब जेसी-246013ए)	01 दिसम्बर 2012
दफादार/ क्लर्क	चैना राम	(सं. 15465121पी अब जेसी-246012एक्स)	01 दिसम्बर 2012
दफादार/ क्लर्क	बलविंदर सिंह	(सं. 15464301एल अब जेसी-246095एन)	01 जनवरी 2013
दफादार/ क्लर्क	एस राजा	(सं. 15465879ए अब जेसी-246102वाई)	01 जनवरी 2013
दफादार/ क्लर्क	सुरेन्द्र सिंह	(सं. 15461360एम अब जेसी-246101डब्ल्यू)	01 जनवरी 2013
दफादार/ क्लर्क	मोहम्मद मनावर हुसैन	(सं. 1098974एच अब जेसी-246096डब्ल्यू)	01 जनवरी 2013
दफादार/ क्लर्क	विकास चन्द्रा सिंह	(सं. 1486421एन अब जेसी-246098एफ)	01 जनवरी 2013
दफादार/ क्लर्क	सुब्रमनी पी	(सं. 1099472एम अब जेसी-246097वाई)	01 जनवरी 2013
दफादार/ क्लर्क	उदल सिंह	(सं. 15461367डब्ल्यू अब जेसी-246099के)	01 जनवरी 2013
दफादार/ क्लर्क	रोहताश सिंह	(सं. 15465897एच अब जेसी-246103एफ)	01 फरवरी 2013
दफादार	रमेश चन्द्र	(सं. 15461137एच अब जेसी-246064एन)	*16 नवम्बर 2012

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जाती है)

दफादार	दिनेश कुमार मल्लाह	(सं. 15461767एच अब जेसी-246069एम)	01 दिसम्बर 2012
दफादार	ओम प्रकाश	(सं. 15464244पी अब जेसी-246083वाई)	01 जनवरी 2013
दफादार	अशोक कुमार	(सं. 15462652एफ अब जेसी-246109एच)	01 फरवरी 2013
दफादार	वाय कुटी राजा	(सं. 15469702के अब जेसी-246137पी)	01 फरवरी 2013
दफादार	महेश सिंह	(सं. 15463668वाई अब जेसी-246148एफ)	*21 जनवरी 2013

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 अक्टूबर 2012 से दी जाती है)

दफादार	सुरज सिंह	(सं. 15463802वाई अब जेसी-246178वाई)	01 फरवरी 2013
दफादार	प्रेमनाथ सिंह	(सं. 15461861एम अब जेसी-246181वाई)	*04 जनवरी 2013

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2013 से दी जाती है)

दफादार	नल्लागनगुला वी आर रेड्डी	(सं. 15462480एक्स अब जेसी-246182एफ)	*05 जनवरी 2013
--------	--------------------------	-------------------------------------	----------------

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2013 से दी जाती है)

दफादार	राजेश कुमार	(सं. 15462958के अब जेसी-246192एल)	*12 जनवरी 2013
--------	-------------	-----------------------------------	----------------

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2013 से दी जाती है)

दफादार	रमेश कुमार सिंह	(सं. 15462099के अब जेसी-246193एन)	*08 जनवरी 2013
--------	-----------------	-----------------------------------	----------------

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2013 से दी जाती है)

दफादार	अजय कुमार	(सं. 15467394डब्ल्यू अब जेसी-246198एम)	01 फरवरी 2013
दफादार	आनंद कुमार	(सं. 15464812पी अब जेसी-246212एन)	01 फरवरी 2013
दफादार	रामना पोलीसेट्टी	(सं. 15463180एच अब जेसी-246214वाई)	01 फरवरी 2013
दफादार	रीजेश कुमार सिंह	(सं. 15463257ए अब जेसी-246215एफ)	*06 फरवरी 2013

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2013 से दी जाती है)

दफादार	चन्द्रा शेखर सिंह	(सं. 15463413वाई अब जेसी-246216के)	01 फरवरी 2013
दफादार	राम भरत यादव	(सं. 15461725डब्ल्यू अब जेसी-246220एम)	01 फरवरी 2013
दफादार	कुंदन कुमार	(सं. 15461703एक्स अब जेसी-246221पी)	01 फरवरी 2013
दफादार	कुलदीप सिंह	(सं. 15463243ए अब जेसी-246227डब्ल्यू)	01 फरवरी 2013
दफादार	रंजीत सिंह	(सं. 15461919वाई अब जेसी-246232एफ)	01 फरवरी 2013
दफादार	बलवंत सिंह	(सं. 15463843एच अब जेसी-246237ए)	*10 फरवरी 2013

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2013 से दी जाती है)

दफादार	परदीप कुमार	(सं. 15461938के अब जेसी-246218पी)	01 फरवरी 2013
दफादार	भरथ चौबे	(सं. 15461864ए अब जेसी-246238एच)	01 फरवरी 2013
दफादार	राधाकृष्णन के	(सं. 15461932एच अब जेसी-246225एल)	01 फरवरी 2013
दफादार	मूला राम	(सं. 15468333एल अब जेसी-246240ए)	01 फरवरी 2013
दफादार	प्रवीन कुमार सिंह	(सं. 15468560एल अब जेसी-246241एच)	01 फरवरी 2013

दफादार	तेजश्वरा राव मारपु	(सं. 15464415डब्ल्यू अब जेसी—246251एम)	*05 फरवरी 2013
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 जनवरी 2013 से दी जाती है)			
दफादार	एस मुरुगेश	(सं. 15464506ए अब जेसी—246252पी)	01 फरवरी 2013
दफादार	हरी क्रिष्ण एस	(सं. 15464520एम अब जेसी—246253एक्स)	01 फरवरी 2013
दफादार	जयपाल सिंह	(सं. 15465823एन अब जेसी—246256एल)	*01 फरवरी 2013
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 नवम्बर 2012 से दी जाती है)			
दफादार	अजय कुमार माहला	(सं. 15465580एन अब जेसी—246260एन)	*13 फरवरी 2013
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2013 से दी जाती है)			
दफादार	गोपाल सिंह	(सं. 15461652पी अब जेसी—246139ए)	01 फरवरी 2013
दफादार/ क्लर्क	डी ओ सुनील कुमार	(सं. 1098990ए अब जेसी—245853एन)	01 अगस्त 2012
दफादार/ क्लर्क	शेव नारायण यादव	(सं. 1089646एन अब जेसी—245908एम)	01 सितम्बर 2012

राजीव जौहरी
अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 23rd May 2015

ARMY BRANCH

No. 125, dated 6th May 2015—The President is pleased to make the following promotion :—

TERRITORIAL ARMY

TERRITORIAL COMMISSION

TO BE LT COL

Maj Sandeep Bhatnagar	TA-42412	(Infantry)	30 Mar 2014
Maj Sanket Sharma	TA-42793	(Infantry)	21 Dec 2014

B. B. JOSHI
Under Secretary

ARMY BRANCH

No. 126, dated 6th May 2015—The President is pleased to make the following promotions :-

REGULAR ARMY

THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

To be Substantive Subedar Major (GD)

SUB BHAGIRATH	(JC-420949P)	01 st Jan 2015
---------------	--------------	---------------------------

To be Substantive Subedar (GD)

NB SUB JAIPAL	(JC-422031N)	01 st Sep 2014
NB SUB SUBHASH CHAND	(JC-421628K)	01 st Jan 2015
NB SUB SATISH KUMAR	(JC-422028N)	09 th Feb 2015*

*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Jan 2015 without effect on pay and allowances)

NB SUB JASWANT RAWAL	(JC-422093N)	01 st Feb 2015*
----------------------	--------------	----------------------------

*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 06th Jan 2015 without effect on pay and allowances)

NB SUB DHRUBA CHARAN DAS	(JC-421768W)	02 nd Feb 2015*
--------------------------	--------------	----------------------------

*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Feb 2015 without effect on pay and allowances)

NB SUB RAM GOPAL	(JC-422101F)	01 st Feb 2015
------------------	--------------	---------------------------

NB SUB BASAPPA UPPAR	(JC-422102K)	17 th Feb 2015*
----------------------	--------------	----------------------------

*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Feb 2015 without effect on pay and allowances)

NB SUB DEVENDRA PAL SINGH	(JC-422117M)	02 nd Feb 2015*
---------------------------	--------------	----------------------------

*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Feb 2015 without effect on pay and allowances)

NB SUB DINESH BABU AP	(JC-422202P)	01 st Feb 2015
-----------------------	--------------	---------------------------

NB SUB RAVINDER SINGH	(JC-422219H)	06 th Feb 2015*
-----------------------	--------------	----------------------------

*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Feb 2015 without effect on pay and allowances)

NB SUB HOSHILA SHARMA	(JC-422252A)	07 th Feb 2015*
-----------------------	--------------	----------------------------

*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Feb 2015 without effect on pay and allowances)

NB SUB KAILASH PRASAD	(JC-422326K)	01 st Mar 2015
NB SUB SUBE SINGH BHAIRA	(JC-422345P)	01 st Mar 2015

TO BE SUBEDAR MAJOR (RELIGIOUS TEACHER PANDIT)

Sub (RT) Aryendra Nath Agnihotri	(JC-215278H)	01 Nov 2014
----------------------------------	--------------	-------------

TO BE SUBEDAR (RELIGIOUS TEACHER PANDIT)

Nb Sub (RT) Chandra Prakash Lakhera	(JC-419935H)	06 Feb 2015*
-------------------------------------	--------------	--------------

* (Granted seniority in the rank of substantive Subedar (RT) wef 01 Feb 2015 without effect on pay and allowances)

TO BE NAIB SUBEDAR (RELIGIOUS TEACHER PANDIT)

Pramod Kumar Pandey	(JC-422639H)	27 Sep 2014
Dushyant Kumar	(JC-422640X)	27 Sep 2014
Dharmendra Kumar Pandey	(JC-422748P)	27 Sep 2014
Manoj Kumar Dwivedi	(JC-422701K)	07 Feb 2015

TO BE NAIB SUBEDAR (MUSICIAN)

Hav (Musn) Kannan R	(No 14923355K now JC-422747M)	02 Feb 2015@
---------------------	-------------------------------	--------------

@ (Granted seniority in the rank of substantive Naib Subedar (Musn) wef 28 Oct 2014 without effect on pay and allowances)

TO BE SUBSTANTIVE SUBEDAR (CLERK (SD))

NB SUB (CLK (SD)) BRAJESH KUMAR PAL	(JC-422104P)	01 FEB 2015
NB SUB (CLK (SD)) SUNIL KUMAR	(JC-422282X)	01 FEB 2015
NB SUB (CLK (SD)) RAM SAHAY SAINI	(JC-422284H)	01 FEB 2015
NB SUB (CLK (SD)) THOTA VENKANNA	(JC-422285L)	01 FEB 2015
NB SUB (CLK (SD)) ARUNA KUMAR CH	(JC-422286N)	05 FEB 2015*

* (Granted seniority in the rank of substantive Subedar Clerk (SD) wef 01st Feb 2015 without effect on pay and allowances)

TO BE NAIB SUBEDAR (CLERK (SD))

HAV (CLK (SD)) V MOORTHY	(14924041P Now JC-422745F)	19 JAN 2015*
--------------------------	----------------------------	--------------

* (Granted seniority in the rank of Nb Subedar Clerk (SD) wef 01st Nov 2014 without effect on pay and allowances)

HAV (CLK (SD)) N RAMASAMY	(14924042X Now JC-422746K)	01 DEC 2014
---------------------------	----------------------------	-------------

HAV (CLK (SD)) SUKH SAGAR GUPTA	(14924187H Now JC-422749X)	02 FEB 2015*
---------------------------------	----------------------------	--------------

* (Granted seniority in the rank of Nb Subedar Clerk (SD) wef 01st Feb 2015 without effect on pay and allowances)

HAV (CLK (SD)) VENU P	(14924191L Now JC-422750M)	01 FEB 2015
-----------------------	----------------------------	-------------

HAV (CLK (SD)) RAVINDER KUMAR	(14924192N Now JC-422751P)	01 FEB 2015
-------------------------------	----------------------------	-------------

HAV (CLK (SD)) SUMIT MAITRA	(14924197M Now JC-422752X)	01 FEB 2015
-----------------------------	----------------------------	-------------

HAV (CLK (SD)) PAWAR MOHAN LUXMAN	(14924055P Now JC-422753A)	02 FEB 2015*
-----------------------------------	----------------------------	--------------

* (Granted seniority in the rank of Nb Subedar Clerk (SD) wef 01st Feb 2015 without effect on pay and allowances)

RAJEEV JAUHARI
Under Secretary

ARMY BRANCH

No. 127, dated 7th May 2015—The President is pleased to make the following promotions:-

REGULAR ARMY

ARMY EDUCATIONAL CORPS

TO BE SUBEDAR MAJOR

Sub	Ashutosh Kumar Jha	JC-803179L	01-05-2014
Sub	A Brojendra Sharma	JC-803184W	@ 19-07-2014
@ Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 01 Jul 2014 without effect on pay and allowances.			
Sub	Narendra Singh Mehta	JC-803208P	01-08-2014
Sub	Rakesh Pati Tripathi	JC-803209X	01-08-2014
Sub	Suman Kumar Upadhyaya	JC-803210M	01-09-2014
Sub	Shiva Kumar Singh	JC-803218Y	#15-09-2014
Sub	Akhileshwar Singh	JC-803225P	01-09-2014
Sub	Jasvir Singh	JC-803230A	01-09-2014
#Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 01 Sep 2014 without effect on pay and allowances.			
Sub	Sanjay Goyat	JC-803231H	\$07-10-2014
Sub	Balwant Singh Sangwan	JC-803241M	\$17-10-2014
\$Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 01 Oct 2014 without effect on pay and allowances.			
Sub	Krishan Chander	JC-803246L	01-11-2014
Sub	Rajender Singh	JC-803249Y	01-11-2014
Sub/Clk	Puttu Lal Shakya	JC-804010H	01-12-2014
Sub	Jarnail Singh	JC-803257X	01-12-2014
Sub	Sudham Pal Chaudhary	JC-803261A	01-12-2014
Sub	Ram Chander	JC-803265W	01-12-2014

TO BE SUBEDAR

Nb Sub	Harchand Ram	JC-804168L	@ 11-06-2014
Nb Sub	Vinod Kumar Dhasmana	JC-804169N	@05-07-2014
Nb Sub	Shiv Kumar	JC-804176K	@23-07-2014
Nb Sub	P Ramasubramani	JC-804177M	@ 10-07-2014
Nb Sub	Ram Singh	JC-804179X	@ 16-07-2014
Nb Sub	Sree Krshin Pachori	JC-804180M	@ 16-07-2014
Nb Sub	Bhanwar Singh	JC-804183A	@30-06-2014
Nb Sub	BK Shukla	JC-804188Y	@30-06-2014
Nb Sub	Bibhuti Kumar Singh	JC-804191Y	@28-07-2014
Nb Sub	Kamal Bihari Pandey	JC-804196X	@ 11-07-2014
Nb Sub	Susanta Kumar Mohanty	JC-804197A	@07-07-2014
Nb Sub	Kishore Singh	JC-804204L	@02-07-2014
Nb Sub	Virender Kumar Rana	JC-804205N	01-06-2014
Nb Sub	Awanindra Kumar Gupta	JC-804261M	@21-06-2014

Nb Sub	Manoj Kumar Singh	JC-804161F	\$03-10-2014
@Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2014 without effect on pay and allowances.			
\$Granted seniority in the rank of Sub wef 24 Jun 2014 without effect on pay and allowances.			
Nb Sub	Raveendra	JC-804209K	#06-08-2014
Nb Sub	Chatur Bhuj Tiwari	JC-804210Y	01-07-2014
Nb Sub	Jude	JC-804215X	#08-08-2014
Nb Sub	SK Yousuf Ali	JC-804216A	01-07-2014
Nb Sub	Rajanarayanan R	JC-804221L	#01-10-2014
Nb Sub	Joys Mathew	JC-804223W	#25-07-2014
Nb Sub	Prabhaker Prasad Yadav	JC-804224Y	#05-07-2014
#Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2014 without effect on pay and allowances.			
Nb Sub	Ajith Kumar P	JC-804227M	01-08-2014
Nb Sub	Surjeet Singh Datyal	JC-804228P	01-08-2014
Nb Sub	Dinesh Singh Ladhari	JC-804229X	01-08-2014
Nb Sub	Gajendra Singh	JC-804230M	01-08-2014
Nb Sub	Satyawan Singh	JC-804231P	01-08-2014
Nb Sub	Dalip Singh	JC-804232X	01-08-2014
Nb Sub	Karna Beer Singh	JC-804233A	01-08-2014
Nb Sub	Suresh Kumar	JC-804234H	01-08-2014
Nb Sub	Ram Yagya Mishra	JC-804235L	@12-08-2014
Nb Sub	Baskar S	JC-804513N	01-08-2014
@Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2014 without effect on pay and allowances.			
Nb Sub	B Gem Singh Sikarwar	JC-804236N	01-09-2014
Nb Sub	Vikram Jit	JC-804237W	01-09-2014
Nb Sub	Balvir Singh	JC-804239F	01-09-2014
Nb Sub	Pradeep Kumar Sahoo	JC-804240W	01-09-2014
Nb Sub	Ram Kishan	JC-804241Y	01-09-2014
Nb Sub	Rakesh Kumar Rana	JC-804242F	01-09-2014
Nb Sub	Balachandran K	JC-804243K	01-09-2014
Nb Sub	Dhan Singh Bisht	JC-804244M	01-09-2014
Nb Sub	Ramesh Chandra Joshi	JC-804245P	01-09-2014
Nb Sub	Anand Singh	JC-804246X	01-09-2014
Nb Sub	Satish Chandra	JC-804247A	01-09-2014
Nb Sub	Narayan Chandra Dwivedi	JC-804248H	@02-09-2014
Nb Sub	Pramod Kumar	JC-804249L	@06-09-2014
Nb Sub	Kaushlendra Singh	JC-804250A	01-09-2014
Nb Sub	Nirmal Chand	JC-804251H	01-09-2014
Nb Sub	Harekrushna Hota	JC-804252L	01-09-2014
Nb Sub/Clk	Kuldeep Singh	JC-804535M	01-09-2014
@Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2014 without effect on pay and allowances.			

Nb Sub	Ranjeet Singh	JC-804254W	01-10-2014
Nb Sub	Mahendra Kumar Tiwari	JC-804255Y	01-10-2014
Nb Sub	Praduman Sharma	JC-804257K	01-10-2014
Nb Sub	Ranjan Sharma	JC-804258M	01-10-2014
Nb Sub	Chandra Vir Singh	JC-804259P	01-10-2014
Nb Sub	Raghunandan Upadhyay	JC-804260K	01-10-2014
Nb Sub	Raj Pal	JC-804262P	01-10-2014
Nb Sub	Mahinder Pal	JC-804263X	01-10-2014
Nb Sub	Puran Prasad	JC-804264A	01-10-2014
Nb Sub	Ajay Pal Singh	JC-804265H	01-10-2014
Nb Sub	Suresh Chand Sharma	JC-804266L	01-11-2014
Nb Sub	Mangal Singh	JC-804267N	@07-11-2014
Nb Sub	Tejvir Singh	JC-804268W	01-11-2014
Nb Sub	Bhagmal	JC-804271W	01-11-2014
Nb Sub	Raveendran K	JC-804272Y	@26-11-2014
Nb Sub	Sain Dass	JC-804274K	01-11-2014
Nb Sub	Achuthan Kutty C	JC-804275M	01-11-2014
Nb Sub	Rabindra Kumar Pradhan	JC-804276P	01-11-2014
Nb Sub	Radhakrishanan K	JC-804277X	01-11-2014
Nb Sub	Suresh E	JC-804282H	01-11-2014
@Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2014 without effect on pay and allowances.			
Nb Sub	Hem Singh Verma	JC-804284N	01-12-2014
Nb Sub	Joseph Mathew P	JC-804285W	01-12-2014
Nb Sub	Saseendran MR	JC-804287F	01-12-2014
Nb Sub	Sasidharan Nair PA	JC-804289M	01-12-2014
Nb Sub	Ajaya Kumar Jena	JC-804292M	@02-12-2014
Nb Sub/Clk	Sudama Yadav	JC-804536P	@08-12-2014
@Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2014 without effect on pay and allowances.			

TO BE NAIB SUBEDAR

Hav	Anil Kumar Singh	(9512186X Now JC-804963L)	01-06-2014
Hav	Satish Chandra Choudhary	(9512253X Now JC-804980L)	@18-07-2014
Hav	Ravinder	(9512267X Now JC-804984F)	01-07-2014
@Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2014 without effect on pay and allowances.			
Hav	Suresh Baragali	(9512119M Now JC-804992A)	#01-08-2014
Hav	Kaminder Pal Singh	(9512254A Now JC-804993H)	#02-08-2014
Hav	Asit Kumar Jena	(9512261W Now JC-804994L)	#01-08-2014
Hav	Hoshyar Singh	(9512277F Now JC-804995N)	#01-08-2014
#Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 19 Jul 2014 without effect on pay and allowances.			

Hav	Bablu Kumar Ghosh	(9510978Y Now JC-804996W)	01-08-2014
Hav	Anil Kumar	(9512289W Now JC-804997Y)	01-08-2014
Hav	Chavan Shital Vitthalrao	(9512291N Now JC-804998F)	01-08-2014
Hav	Hayat Singh	(9512292W Now JC-804999K)	@ 12-08-2014
Hav	Ashok Kumar	(9512293Y Now JC-805000L)	01-08-2014
Hav	Adarsh Kumar	(9512297P Now JC-805001N)	01-08-2014
Hav	Rajendra Kumar Bharti	(9512298X Now JC-805002W)	@ 19-08-2014
Hav	Sanjeev Kumar	(9512301M Now JC-805003Y)	01-08-2014
Hav	Kodag Suresh Panditrao	(9512303X Now JC-805004F)	01-08-2014
Hav	Pawar Vijay Kumar Potatrao	(9512305H Now JC-805005K)	01-08-2014
Hav	Sushil Kumar	(9512306L Now JC-805006M)	@ 20-08-2014
@ Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2014 without effect on pay and allowances.			
Hav	Member Singh	(9512308W Now JC-805007P)	01-09-2014
Hav	Sanjay Kumar	(9512309Y Now JC-805008X)	01-09-2014
Hav	Ajay Kumar	(9512312Y Now JC-805009A)	01-09-2014
Hav	Surender Sharma	(9512316P Now JC-805010P)	01-09-2014
Hav	Narpat Singh Godara	(9512318A Now JC-805011X)	01-09-2014
Hav	Sundermani Samantara	(9512319H Now JC-805012A)	\$03-09-2014
Hav	Mritunjay Shukla	(9512321A Now JC-805013H)	01-09-2014
Hav	Raj Kumar Joshi	(9512362K Now JC-805014L)	01-09-2014
Hav	Anuj Kumar Thakur	(9512363M Now JC-805015N)	01-09-2014
Hav	Shailendra Kumar Singh	(9512364P Now JC-805016W)	01-09-2014
Hav	Jagdish Kumar	(9512367H Now JC-805017Y)	01-09-2014
Hav	Sri Ganesh Kumar Pandey	(9512370H Now JC-805018F)	01-09-2014
Hav	Shailendra Kumar	(9512371L Now JC-805019K)	01-09-2014
Hav	Uday Kumar Uday	(9512373W Now JC-805020Y)	01-09-2014
Hav	Rajender Singh	(9512374Y Now JC-805021F)	01-09-2014
Hav	Nagendra Singh	(9512376K Now JC-805022K)	01-09-2014
Hav	Dharamvir Singh	(9510987A Now JC-805023M)	01-09-2014
Hav	Baksa Ram Vishnoi	(9510998M Now JC-805024P)	01-09-2014
Hav	Pund Sanjiv Bhanudas	(4270644A Now JC-805025X)	01-09-2014
\$ Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2014 without effect on pay and allowances.			
Hav	Ajay Kumar Sharma	(9512377M Now JC-805026A)	@ 14-10-2014
Hav	Biraja Ranjan Sabat	(9512380M Now JC-805027H)	@ 22-10-2014
Hav	Shravan Kumar	(9512382X Now JC-805028L)	@ 13-11-2014
Hav	Basant Kumar Swain	(9512384H Now JC-805029N)	@ 13-11-2014
Hav	Mukesh Chandra	(9512385L Now JC-805030H)	@ 25-10-2014
Hav	Anil Kumar Singh	(9512386N Now JC-805031L)	@ 11-10-2014
Hav	Suraj Singh	(9512388Y Now JC-805032N)	@ 27-10-2014

Hav	Rajendra Prakash Suyal	(9512390W Now JC-805033W)	@28-10-2014
Hav	Manoj Kanti Dhar	(9512393K Now JC-805034Y)	@29-10-2014
Hav	Pandey Anand Dheerendra Nath	(9512394M Now JC-805035F)	@24-10-2014
Hav	Kamla Kant	(9512395P Now JC-805036K)	@16-10-2014
Hav	Manoj Kumar	(9512399L Now JC-805037M)	@13-10-2014
Hav	Sri Rajesh Kumar Upadhyay	(9512400P Now JC-805038P)	@18-10-2014
Hav	Bikram Singh	(9512402A Now JC-805039X)	@03-11-2014
Hav	Sri Rambir Singh Tomar	(9512403H Now JC-805040M)	@20-10-2014
Hav	V Maruruba Jayaraj	(9512404L Now JC-805041P)	@05-11-2014
Hav	Harendra Singh Yadav	(9512407Y Now JC-805042X)	@05-12-2014
Hav	Pawan Kumar Sharma	(9512409K Now JC-805043A)	01-10-2014
Hav	Baljit Singh	(9512410Y Now JC-805044H)	@17-10-2014
Hav	Anurag Pandey	(9512414P Now JC-805045L)	@28-10-2014
@Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2014 without effect on pay and allowances.			
Hav	Sri Pawan Kumar Sharma	(9512416A Now JC-805046N)	01-11-2014
Hav	Ummed Singh Shekhawt	(9512417H Now JC-805047W)	01-11-2014
Hav	Vinod Kumar Gupta	(9512425F Now JC-805048Y)	01-11-2014
Hav	Sanjeev Kumar	(9512427M Now JC-805049F)	#27-11-2014
Hav	Sri Shailendra Kumar Shrivastava	(9512428P Now JC-805050W)	01-11-2014
Hav	Ranjeet Kumar Dubey	(9512443K Now JC-805051Y)	#05-11-2014
Hav	Rajesh Kumar Singh	(9512444M Now JC-805052F)	#12-11-2014
Hav	Pawan Kumar	(9512446X Now JC-805053K)	#03-11-2014
Hav	Balwant Singh	(9512265M Now JC-805054M)	@01-01-2015
#Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2014 without effect on pay and allowances.			
@Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 22 Nov 2014 without effect on pay and allowances.			
Hav	Santosh Kumar Pandey	(9512447A Now JC-805055P)	01-12-2014
Hav	Vijay Singh	(9512449L Now JC-805056X)	01-12-2014
Hav	Davinder Kumar	(9512450A Now JC-805057A)	01-12-2014
Hav	Sandip Singh	(9512451H Now JC-805058H)	01-12-2014
Hav	Devanand Pandey	(9512452L Now JC-805059L)	@06-12-2014
Hav	Ramesh Kumar Singh	(9512453N Now JC-805060A)	01-12-2014
Hav	Amrendra Kumar	(9512455Y Now JC-805061H)	01-12-2014
Hav	Vinay Kumar Badola	(9512460K Now JC-805062L)	01-12-2014
Hav	Vipin Singh	(9512469Y Now JC-805063N)	01-12-2014
Hav	Sri Ramesh Kumar	(9512247K Now JC-805066F)	\$09-01-2015
Hav	Mohammad Akram	(4270633N Now JC-805064W)	01-12-2014

@Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2014 without effect on pay and allowances.

\$Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 06 Dec 2014 without effect on pay and allowances.

ALKA JOSHI
Under Secretary

No. 128, dated 7th May 2015—The president is pleased to make the following promotion :—

REGULAR ARMY CORPS OF ENGINEERS MES MILITERISED CADRE {TO BE NB SUB }

RANK	NAME	ARMY NO & JC NO		DATE OF PROMOTION	REMARKS
HAV	ASIM BISWAS	15328623L	JC-333143Y	16-05-2014	H
HAV	BASHEER S	15317438X	JC-333144F	12-05-2014	H
HAV	PARIJAT PRAMANIK	15336263P	JC-333145K	13-05-2014	H
HAV	ABHAY KUMAR	15337569K	JC-333146M	15-05-2014	H
HAV	ROSHAN KUMAR YADAV	15562943W	JC-333147P	13-05-2014	H
HAV	OK ANIL KUMAR	1587657K	JC-333148X	15-05-2014	H
HAV	SOMASE MAHENDRA BHANU DAS	15566848F	JC-333149A	15-05-2014	H
HAV	GHADGE SUDHIR SUKHDEV	15568233P	JC-333150P	13-05-2014	H
HAV	BIJU PV	15322974K	JC-333151X	13-05-2014	H
HAV	VINOD KUMAR	15566252F	JC-333152A	13-05-2014	H
HAV	BIJENDRA SINGH PUNDIR	15340044L	JC-333153H	13-05-2014	H
HAV	RAM CHANDRA SINGH TOMAR	15569322A	JC-333154L	13-05-2014	H
HAV	LALIT KUMAR	15327034H	JC-333155N	12-05-2014	H
HAV	VINOD PP	15325569X	JC-333156W	13-05-2014	H
HAV	KUMAR PAL	15336038A	JC-333157Y	13-05-2014	H
HAV	KAILASH SINGH	15335963W	JC-333158F	22-05-2014	H
HAV	PRAKASH CHANDRA MOHANTY	15566088K	JC-333159K	15-05-2014	H
HAV	PRAVESH VERMA	1497477A	JC-333160Y	13-05-2014	H
HAV	PREM KUMAR TIWARI	15561765M	JC-333161F	13-05-2014	H
HAV	SANJAY PAWAR	15562829Y	JC-333162K	17-05-2014	H
HAV	CHITTIBABU DHARA	15316789A	JC-333163M	13-05-2014	H
HAV	KUMARASAMY V	15321144F	JC-333164P	13-05-2014	H
HAV	WANKHADE SATISH MANOHAR RAO	15569091P	JC-333165X	13-05-2014	H
HAV	RAKESH KUMAR DIXIT	1589694W	JC-333166A	26-05-2014	H
HAV	KALE GORAKSHA BHIMRAO	15563570A	JC-333167H	03-06-2014	H
HAV	SUBHASH CHAND	15335534P	JC-333168L	15-05-2014	H
HAV	DARSHANA BHATI	1490847M	JC-333169N	15-05-2014	H
HAV	NOMESWARAN C	15318943M	JC-333170H	15-05-2014	H
HAV	PRAVEEN TUKARAM MAHABADI	15562825H	JC-333171L	24-05-2014	H
HAV	MOHD SIRAJUDDIN ANSARI	15562153F	JC-333172N	13-05-2014	H
HAV	MUKESH KUMAR	15570478K	JC-333173W	13-05-2014	H
HAV	SHANKAR NAMDEV UGALE	15568908K	JC-333174Y	04-06-2014	H
HAV	BRAJ NANDAN SINGH	15342715H	JC-333175F	13-05-2014	H

RANK	NAME	ARMY NO & JC NO		DATE OF PROMOTION	REMARKS
HAV	AJI TA	15316231L	JC-333176K	29-05-2014	H
HAV	MALEKAR GIRIDHAR BAPURAO	1584497K	JC-333177M	13-05-2014	H
HAV	RAUT KISHOR KUMAR DNYANESHWAR RAO	15562415M	JC-333178P	13-05-2014	H
HAV	GORE BHARAT RAJENDRA	15570556W	JC-333179X	09-06-2014	H
HAV	RAMESH C	15319951X	JC-333180M	23-05-2014	H
HAV	SIVAKUMAR A	15320249Y	JC-333181P	30-06-2014	I
HAV	CHARANJIT SINGH	15561172A	JC-333182X	02-07-2014	I
HAV	K SIVA KUMAR	15317327A	JC333183A	30-06-2014	I
HAV	MD ASLAM	15561904L	JC-333184H	28-06-2014	I
HAV	SUKHVINDER SINGH	1488698L	JC-333185L	01-07-2014	I
HAV	RAMBIR	15562875N	JC-333186N	30-06-2014	I
HAV	RAVINDER KUMAR	15335231A	JC-333187W	28-06-2014	I
HAV	OUM PRAKASH SINGH	15329081Y	JC-333188Y	30-06-2010	I
HAV	REFAZUDDIN CHOUDHARY	1492800A	JC-333189F	28-06-2014	B
HAV	DHARAM PAL	15336231M	JC-333190W	15-05-2014	H
HAV	SANDEEP SINGH	15320735W	JC-333191Y	05-07-2014	I
HAV	RAMESH CHANDER	1589207L	JC-333192F	28-06-2014	I
HAV	KRISHNA RAO KORNU	15315547L	JC-333193K	07-07-2014	I
HAV	SUBODH KUMAR SINGH	1497431X	JC-333194M	02-07-2014	I
HAV	JIJEESH KUMAR PK	15318158W	JC-333195P	30-06-2014	I
HAV	SOMPAL SINGH	15561901X	JC-333196X	24-06-2014	I
HAV	SHEESH PAL	1490163W	JC-333197A	02-07-2014	I
HAV	KAWADE VIKAS POPAT	15565973Y	JC-333198H	28-06-2014	I
HAV	SYAM S	15321004P	JC-333199L	01-03-2014	E
HAV	PARDEEP KUMAR	15343556H	JC-333200P	13-05-2014	H
HAV	VIJAY KUMAR	15348183K	JC-333201X	30-06-2014	I
HAV	SHAILENDRA KUMAR GUPTA	15569656P	JC-333202A	30-06-2014	I
HAV	T AMAR RAJESH	15318703P	JC-333203H	01-07-2014	I
HAV	SUNIL KUMAR TV	15319855H	JC-333204L	14-07-2014	I
HAV	RAVINDRA KUMAR	15336246P	JC-333205N	09-07-2014	I
HAV	SHAKIR HUSSAIN PATHAN	15318933H	JC-333206W	09-07-2014	I
HAV	MUKESH KUMAR	15336792F	JC-333207Y	02-07-2014	I
HAV	VENKATESWARA RAO BODDU	15336077Y	JC-333208F	07-07-2014	I
HAV	A CHINNADURAI	15314738N	JC-333209K	30-06-2014	I
HAV	NAVIN CHANDRA JOSHI	15338823P	JC-333210Y	01-09-2014	F
HAV	TAPAN KUMAR SAHU	1490385L	JC-333211F	01-07-2014	I
HAV	NAVABUDDIN	15566056F	JC-333212K	01-07-2014	I

RANK	NAME	ARMY NO & JC NO		DATE OF PROMOTION	REMARKS
HAV	SANTOSH KUMAR TIWARI	15348184M	JC-333213M	19-08-2014	K
HAV	SACHIN KUMAR GHODAKE	8033402P	JC-333214P	28-08-2014	K
HAV	SAWANT DEOSING MANSING	15328084A	JC-333215X	19-08-2014	K
HAV	SANTU BHATTACHARYA	15572049F	JC-333216A	29-08-2014	K
HAV	SANTOSH KUMAR SINGH	15347794M	JC-333217H	19-08-2014	K
HAV	SANTOSH KUMAR SINGH	15335967M	JC-333218L	22-08-2014	K
HAV	DEEPAK KUMAR SHARMA	15320428Y	JC-333219N	20-08-2014	K
HAV	INGALE NIRAJ SUBHASH	15563384K	JC-333220H	19-08-2014	K
HAV	NARENDRA DEO	1494339N	JC-333221L	15-07-2014	I
HAV	PRAMOD KUMAR YADAV	15348205X	JC-333222N	19-08-2014	K
HAV	DHOLE ASHISH ASHOK	1585982L	JC-333223W	20-08-2014	K
HAV	AJAD SINGH	1588726F	JC-333224Y	19-08-2014	K
HAV	SONMALE SHRIKANT DATTATRAYA	15320712P	JC-333225F	20-08-2014	K
HAV	SURESHA NAND	1486872N	JC-333226K	18-08-2014	K
HAV	RAMA PRASAD	1588778X	JC-333227M	15-05-2014	H
HAV	MARPU JAGGA RAO	15321549M	JC-333228P	13-05-2014	H
HAV	AJAY SINGH	15345334M	JC-333229X	20-08-2014	K
HAV	HARISH LAL	1493399W	JC-333230M	03-10-2014	L
HAV	SANTAN SINGH RAWAT	1493559L	JC-333231P	01-10-2014	L
HAV	HAKE RAM VETLA	15562117W	JC333232X	30-09-2014	L
HAV	DIPAK MOHAPATRA	15336552K	JC-333233A	04-10-2014	L
HAV	PEDDA SRINIVASH	15313079X	JC-333234H	29-09-2014	L
HAV	MURALI DHARAN AP	15315382X	JC-333235L	19-08-2014	K
HAV	SANTOSH KUMAR SINGH	15326615N	JC-333236N	07-10-2014	L
HAV	GADAM SETTY SRINIVASA RAO	1589168X	JC-333237W	07-10-2014	L
HAV	SHIV KUMAR SHARMA	1588641L	JC-333238Y	04-10-2014	L
HAV	ABHILASH KUMAR DEOLIA	15336227K	JC-333239F	04-10-2014	L
HAV	SHAKTI PRASAD MOHANTY	15569646L	JC-333240W	04-10-2014	L
HAV	SHIV PRAKASH	15316741M	JC-333241Y	04-10-2014	L
HAV	KP PRAVEEN	15318773N	JC-333242F	04-10-2014	L
HAV	MANEESH KUMAR	15335023L	JC-333243K	08-10-2014	L
HAV	YASIN ANSARI	1589200F	JC-333244M	01-10-2014	L
HAV	SUBBU RAJ G	15317491H	JC-333245P	07-10-2014	L
HAV	MANOHAR SINGH	1493113W	JC-333246X	04-10-2014	L
HAV	PLANDE SANDIP RAMCHANDRA	15561827F	JC-333247A	04-10-2014	L
HAV	K ANTHAIAH	15319262W	JC-333248H	07-10-2014	L

RANK	NAME	ARMY NO & JC NO		DATE OF PROMOTION	REMARKS
HAV	MALIK MOHD BILAL KHAN	15562405H	JC-333249L	07-10-2014	L
HAV	SANJEEV KUMAR TN	15320327L	JC-333250A	04-10-2014	L
HAV	SREEJITH T	15316654Y	JC-333251H	02-10-2014	L
HAV	V JAGADEESH KUMAR	15323636Y	JC-333252L	04-10-2014	L
HAV	SHAILESH SHINDE	15562844N	JC-333253N	04-10-2014	L
HAV	PRASHANT SHINDE	15566065H	JC-333254W	07-10-2014	L
HAV	AMBRE SHEKHAR VIJAY	15562390L	JC-333255Y	01-10-2014	L
HAV	S K SHAH ALAM ALI	1494387N	JC-333256F	07-10-2014	L
HAV	KALAIMARAN N	15317603X	JC-333257K	01-10-2014	L
HAV	PARDEEP SINGH	1589554K	JC-333258M	11-10-2014	L
HAV	NAVEEN KUMAR	15571024H	JC-333259P	29-10-2014	F
HAV	VIKRAM SINGH	15571161F	JC333260K	29-10-2014	F
HAV	VIKAS KUMAR	15345497A	JC-333261M	31-10-2014	F
HAV	AJAY SINGH	15321269Y	JC-333262P	08-10-2014	G
HAV	NARASIMHARAJU ANNEBOINA	15336295X	JC-333263X	11-10-2014	G
HAV	SURENDRA SINGH	1589612H	JC-333264A	27-10-2014	I
HAV	RAKESH MAHADEV MAHAMUNKAR	15568269N	JC-333265H	27-10-2014	I
HAV	PRAVESH KHATRI	15343002K	JC-333266L	27-10-2014	I
HAV	VIKRAM SINGH	15336754L	JC-333267N	30-10-2014	I
HAV	SANDEEP KUMAR JAIN	15348187A	JC-333268W	19-08-2014	K
HAV	ANUJ KUMAR SINGH	15346912H	JC-333269Y	24-10-2014	K
HAV	PREM NATH SINGH	15320541N	JC-333270N	19-08-2014	K
HAV	DEVARAJA HP	15320554L	JC-333271W	19-08-2014	K
HAV	SHYAM MOHAN TRIPATHI	15335936M	JC-333272Y	27-10-2014	K
HAV	ARUN KUMAR PB	15320608F	JC-333273F	30-10-2014	K
HAV	SUNIL SINGH BHANDARI	1493142L	JC-333274K	27-10-2014	L
HAV	SUBHASHIS MUKHERJEE	15338405A	JC-333275M	14-10-2014	L
HAV	SUNIL R	15317980N	JC-333276P	04-10-2014	L
HAV	SASHIBHUSAN BEHURIA	1493645W	JC-333277X	07-10-2014	L
HAV	DEVENDRA SINGH DANGWAL	1489493H	JC-333278A	13-10-2014	L
HAV	BHASKAR PRAKASH KADAM	15562423L	JC-333279H	07-10-2014	L
HAV	SANDEEP DUTT MEHTA	15336828P	JC-333280X	27-10-2014	L
HAV	RAHEESH ALI	15561508P	JC-333281A	13-10-2014	L
HAV	SAHADEB CHOWDHURY	15326420H	JC-333282H	01-11-2014	A
HAV	LAXMAN KUMAR PANDEY	15569323H	JC-333283L	29-10-2014	B
HAV	AMULYA KUMAR SWAIN	15343905F	JC-333284N	28-10-2014	C
HAV	AJAY KUMAR	15345430F	JC-333285W	18-10-2014	D

RANK	NAME	ARMY NO & JC NO		DATE OF PROMOTION	REMARKS
HAV	AMIT KUMAR	15343815A	JC-333286Y	30-10-2014	F
HAV	GIRRAJ SINGH JADON	15329113W	JC-333287F	31-10-2014	G
HAV	ARVIND SINGH	15571159K	JC-333288K	24-10-2014	H
HAV	DEVESH KUMAR YADAV	15572947A	JC-333289M	18-10-2014	H
HAV	NARAYAN CHANDRA SAHOO	15345651N	JC-333290F	01-11-2014	I
HAV	DEEPAK SAMAL	15345737M	JC-333291K	01-11-2014	I
HAV	MANISH KUMAR KAMBOJ	15343924M	JC-333292M	03-11-2014	B
HAV	NAGESH KUMAR	15570080P	JC-333293P	09-09-2014	K
HAV	NARENDRA SINGH	15343919F	JC-333294X	07-11-2014	K
HAV	BIJAYA KUMAR KAR	15344000L	JC-333295A	28-10-2014	K
HAV	JAGDALE SHRIRAM JAY SINGH	15567923M	JC-333296H	31-10-2014	K
HAV	MORE AJIT ASHOK	15571540X	JC-333297L	01-11-2014	L
HAV	ABHILASH AP	15318513H	JC-333298N	07-10-2014	L
HAV	PRABHU SINGH	1493379H	JC-333299W	30-10-2014	L
HAV	NAVIN KUMAR	15338848F	JC-333300A	07-11-2014	L
HAV	SANJEEV KUMAR	15329614W	JC-333301H	01-11-2014	H
HAV	SAWANT SOMNATH DATTATRYA	15571520K	JC-333302L	01-11-2014	K
HAV	SRINEBAS HAZRA	15328612Y	JC-333303N	30-09-2014	L
HAV	ASIF KHAN	15570967P	JC-333304W	03-11-2014	L
HAV	PREMA KUMAR TAMMINANA	15318614W	JC-333305Y	29-10-2014	L
HAV	DHUMAL SURESH JAYWANT	1589741H	JC-333306F	04-10-2014	L
HAV	ANISH KUMAR	15564329A	JC-333307K	14-11-2014	L
HAV	RANJEET SHARMA	15345309N	JC-333308M	19-11-2014	F
HAV	ROHIT KUMAR	15331186F	JC-333309P	30-10-2014	F
HAV	RAJIV KUMAR	15335758P	JC-333310K	22-10-2014	G
HAV	HARISH SINGH BISHT	1493851A	JC-333311M	27-10-2014	I
HAV	PANKAJ HAZARIKA	15571755W	JC-333312P	03-11-2014	I
HAV	VIKAS BHARDWAJ	15566086Y	JC-333313X	21-11-2014	I
HAV	AKHILESH KUMAR MISHRA	15323607K	JC-333314A	21-11-2014	I
HAV	HARISH CHANDRA DWIVEDI	15562136F	JC-333315H	13-11-2014	I
HAV	PARDEEP KUMAR	15336936Y	JC-333316L	30-10-2014	I
HAV	BHUPENDRA KUMAR SINGH	15571541A	JC-333317N	03-11-2014	K
HAV	MAHRAJ SINGH YADAV	15572944M	JC-333318W	29-08-2014	K
HAV	UTTAM KUMAR MANDAL	15564339K	JC-333319Y	30-10-2014	K
HAV	GHANSHYAM SHARMA	15564432L	JC-333320N	30-10-2014	K
HAV	PAWAR VINOD DADA SAHEB	15340896A	JC-333321W	09-10-2014	L

RANK	NAME	ARMY NO & JC NO		DATE OF PROMOTION	REMARKS
HAV	GV GOPALA KRISHNA	15320199Y	JC-333322Y	09-10-2014	L
HAV	HIRANMAY BISWAS	15567167L	JC-333323F	04-10-2014	L
HAV	RAVINDRA SINGH	15339695P	JC-333324K	01-10-2014	L
HAV	LALIT SAHI	1494826N	JC-333325M	11-10-2014	L
HAV	SHAILENDRA SINGH	15343191Y	JC-333326P	01-12-2014	A
HAV	CHAUHAL SINGH	15343216A	JC-333327X	26-11-2014	A
HAV	RATTI RAM GURJAR	15329500L	JC-333328A	01-11-2014	F
HAV	PRASAD DODDI	15321721H	JC-333329H	29-10-2014	K
HAV	JITENDRA SINGH	1492469X	JC-333330X	04-10-2014	L
HAV	M KANNAN	15315844Y	JC-333331A	01-10-2014	L
HAV	LAL BABU YADAV	15336101K	JC-333332H	07-10-2014	L
HAV	LALIT KUMAR	15338150L	JC-333333L	09-12-2014	M
HAV	GAJARAJI VSD	15320973H	JC-333334N	09-12-2014	M
HAV	SURESH KUMAR PILLALAMARRI	15323630X	JC-333335W	09-12-2014	M
HAV	NAGESH KUMAR SINGH	15337688A	JC-333336Y	10-12-2014	M
HAV	RAJESH SINGH BISHT	15335446Y	JC-333337F	10-12-2014	M
HAV	ARJUNA RAO BANTI	15316272P	JC-333338K	10-12-2014	M
HAV	DEEPAK KUMAR	1589975M	JC-333339M	09-12-2014	M
HAV	PURAN CHAND BHATT	15335490H	JC-333340F	10-12-2014	M
HAV	MANOJ KUMAR	1494567W	JC-333341K	11-12-2014	M
HAV	JYOTHISH MV	15316219K	JC-333342M	09-12-2014	M
HAV	SABALE RAMESH DEVRAM	15569314F	JC-333343P	09-12-2014	M
HAV	PATIL SANTOSH SHAMRAO	15562915K	JC-333344X	10-12-2014	N
HAV	BISWAJIT BHATTACHARYA	15328793P	JC-333345A	18-12-2014	K
HAV	SHOVAN KUMAR SHEE	15339601M	JC-333346H	15-12-2014	K
HAV	SAHARE ALAM ANSARI	1589082Y	JC-333347L	01-10-2014	L
HAV	RAKESH KUMAR	1492456A	JC-333348N	04-10-2014	L
HAV	ELANCHEZHIAN C	15338687K	JC-333349W	01-10-2014	L
HAV	KAPIL KUMAR	15330788H	JC-333350L	14-11-2014	L
HAV	DHARMENDRA KUMAR YADAV	15348164Y	JC-333351N	13-12-2014	M
HAV	SATISH KUMAR	15335798W	JC-333352W	12-12-2014	M
HAV	SURESH KUMAR	15329662W	JC-333353Y	15-12-2014	M
HAV	SHER SINGH	15318034F	JC-333354F	12-12-2014	M
HAV	BHAIRAT SACHIN ABHIMAN	15321239F	JC-333355K	09-12-2014	M
HAV	MANOJ KUMAR YADAV	15323610K	JC-333356M	09-12-2014	M
HAV	VINOD KUMAR SHARMA	15337641P	JC-333357P	10-12-2014	M
HAV	SUDHIR KUMAR	15565014H	JC-333358X	10-12-2014	M

RANK	NAME	ARMY NO & JC NO		DATE OF PROMOTION	REMARKS
HAV	JITENDRA KUMAR NAYAK	15325132K	JC-333359A	08-01-2015	M
HAV	NIRMAL PAL	15338493F	JC-333360P	08-12-2014	M
HAV	PRATAP SINGH	15338861L	JC-333361X	09-12-2014	M
HAV	BRIJ MOHAN SINGH	15338943N	JC-333362A	10-12-2014	M
HAV	MUKESH KUMAR SINGH	15326731W	JC-333363H	17-12-2014	M
HAV	SANJAY KUMAR	15335133A	JC-333364L	18-12-2014	M
HAV	KULDEEP SINGH	15567125Y	JC-333365N	09-12-2014	M
HAV	SANJAY KUMAR	15569772X	JC-333366W	10-12-2014	M
HAV	JADHAV DADASAHEB SUMANRAO	15561929X	JC-333367Y	09-12-2014	M
HAV	P RAMESH KUMAR	15318171A	JC-333368F	09-12-2014	M
HAV	L V SDR RAJU B	15320110F	JC-333369K	09-12-2014	M
HAV	HIMANSU JOSHI	15341091P	JC-333370Y	10-12-2014	M
HAV	CHANDRA SHAKHER	15341242H	JC-333371F	26-12-2014	M
HAV	ARVIND KUMAR	1485768N	JC-333372K	11-12-2014	N
HAV	CHAVAN KIRAN DNYANESHWAR	15568164K	JC-333373M	24-12-2014	N
HAV	K JAYARAM	15319604Y	JC-333374P	10-12-2014	N
HAV	MORE ASHOK GANPAT	15564785L	JC-333375X	10-12-2014	N

Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 16/02/2013, 22/06/2013, 13/07/2013, 17/08/2013, 12/10/2013, 07/12/2013, 21/12/2013, 01/03/2014, 17/05/2014, 20/06/2014, 26/06/2014 05/07/2014, 16/08/2014, 11/10/2014 and 01/12/2014 without effect on pay allces.

A	Seniority wef 16/02/2013	I	Seniority wef 17/05/2014
B	Seniority wef 22/06/2013	J	Seniority wef 20/06/2014
C	Seniority wef 13/07/2013	JJ	Seniority wef 26/06/2014
D	Seniority wef 17/08/2013	K	Seniority wef 05/07/2014
E	Seniority wef 12/10/2013	L	Seniority wef 16/08/2014
F	Seniority wef 07/12/2013	M	Seniority wef 11/10/2014
G	Seniority wef 21/12/2013	N	Seniority wef 01/12/2014
H	Seniority wef 01/03/2014		

BENGAL ENGINEER GROUP

To be Nb Sub (GD)

Hav	Vijay Kumar	(1487191X	Now JC-340945L)	03072014*
Hav	Puran Chandra	(1487763N	Now JC-340946N)	06082014@
Hav	Surendra Mohan Pandey	(1487804M	Now JC-340947W)	05082014@
Hav	Ghanshyam	(15339898Y	Now JC-340948Y)	05082014@
Hav	Santosh Kumar	(1482967W	Now JC-340949F)	06082014@

To be Nb Sub Clk (SD)

Hav	Meijaolung Gonmei	(15338862N	Now JC-340950W)	27062014#
Hav	Aravind J	(15338944W	Now JC-340951Y)	16062014#
Hav	Nitin Kumar Sharma	(15343497F	Now JC-340952F)	30062014*
Hav	Sudhir Maan	(15343792K	Now JC-340953K)	01072014@
Hav	Vipin Kumar	(15343840Y	Now JC-340954M)	02072014@
Hav	Jitendra Singh	(15343843M	Now JC-340955P)	07072014@

To be Nb Sub Clk (IM)

Hav	Surendra Singh	(1485366W	Now JC-340956X)	26062014\$
-----	----------------	-----------	-----------------	------------

(To be Nb Sub/SKT)

Hav	Dev Kumar Mishra	(1490784P	Now JC-340957A)	27062014#
Hav	Sudhansu Kumar Deo	(1490874W	Now JC-340958H)	07072014#
Hav	Sinde Balasaheb Kondiba	(1491871P	Now JC-340959L)	06072014#
Hav	Manoj Kumar	(1492345H	Now JC-340960A)	02072014@

* (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2014 without effect on pay & allces).

@ (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2014 without effect on pay & allces).

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 03 May 2014 without effect on pay & allces).

\$ (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2014 without effect on pay & allces).

To be Nb Sub (GD)

Hav	Dig Vijay Singh Negi	(15348109H	Now JC340961H)	05082014@
Hav	Dalip Singh Nainwal	(1486490K	Now JC-340962L)	06082014@
Hav	Sunil Kumar	(1486567F	Now JC-340963N)	06082014@
Hav	Dev Nath Singh Yadav	(1487245N	Now JC-340964W)	08082014#
Hav	Kaustuva Nand	(1487273A	Now JC-340965Y)	08082014#
Hav	Madan Singh	(1487372H	Now JC-340966F)	04082014#
Hav	Ramvir	(1487384X	Now JC-340967K)	07082014#
Hav	Balwinder Singh	(1483795Y	Now JC-340968M)	06082014#
Hav	Tilak Chandra Pandey	(1485402W	Now JC-340969P)	08082014#
Hav	Hardayal Singh Kholia	(1486032N	Now JC-3403970K)	06082014#
Hav	Satish Kumar	(1486754A	Now JC-340971M)	09082014#
Hav	Sushil Kumar Chauhan	(1487899X	Now JC-340972P)	06082014#
Hav	Bikram Digal	(1482757W	Now JC-340973X)	13082014#
Hav	Chunubad Singh	(1482968Y	Now JC-340974A)	07082014#
Hav	Virendra Prasad	(1483058X	Now JC-340975H)	05082014#
Hav	Ashok Kumar	(1483090M	Now JC-340976L)	15082014#
Hav	Amlesh Singh	(1484020A	Now JC-340977N)	15082014#
Hav	Asit Kumar Panda	(1484396F	Now JC-340978W)	19082014#
Hav	Lakha Singh	(15341076A	Now JC-340979Y)	04082014#
Hav	Prem Kumar	(15345132L	Now JC-340980N)	06082014#
Hav	Sarabjit Singh	(15346685N	Now JC-340981W)	05082014#
Hav	Surendra Singh	(15347956M	Now JC-340982Y)	14082014#

Hav	Deo Narain Singh Yadav	(1483283M	Now JC340983F)	09082014#
Hav	Ram Naresh Singh	(1483313Y	Now JC340984K)	11082014#
Hav	Om Prakash Rai	(1483347M	Now JC340985M)	29082014%
Hav	Baljeet Singh	(15336980H	Now JC340986P)	15082014%
Hav	Ajit Singh	(15344020Y	Now JC340987X)	11082014%
Hav	Upendra Pal	(1482854N	Now JC340988A)	11082014%

(To be Nb Sub Clk (SD)

Hav	Soundar Rajan S	(15338625K	Now JC-340989H)	27082014&
Hav	Raj Kumar	(15343004P	Now JC-340990X)	26082014\$
Hav	Samiran Biswas	(15343877A	Now JC-340991A)	01082014%
Hav	Kailash Bahadur	(15343898W	Now JC-340992H)	01082014%
Hav	Mewa Singh	(15343902N	Now JC-340993L)	01082014%
Hav	Virendra Kumar	(15343907M	Now JC-340994N)	01082014%
Hav	Harendra Kumar Singh	(15343912X	Now JC-340995W)	21082014%
Hav	Dinesh Yadav	(15343979W	Now JC-340996Y)	22082014%
Hav	Herpreet Singh	(15344029X	Now JC-340997F)	22082014%
Hav	Medhavi Pratap	(15344033W	Now JC-340998K)	23082014%
Hav	Swapan Roy	(15343095K	Now JC-340999M)	22082014%
Hav	Pramod Kumar	(15344087X	Now JC-341000N)	02092014%
Hav	Sudhir	(15343006A	Now JC-341001W)	23082014%
Hav	Balaram Panigrahi	(15344095W	Now JC-341002Y)	25082014%
Hav	Somnath Shit	(15344163Y	Now JC-341003F)	22082014%

(To be Nb Sub /SKT)

Hav	Madan Ram	(1490203M	Now JC-341004K)	19062014*
Hav	Anjani Kumar Singh	(1491830W	Now JC-341005M)	12052014#@

(To be Nb Sub/Svy Cat)

Hav	Rajesh Kumar Tiwari	(1489350H	Now JC-341006P)	01082014%
Hav	Roshan Singh Rawat	(1489352N	Now JC-341007X)	01082014%

@ (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 31 May 2014 without effect on pay & allces).

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2014 without effect on pay & allces).

% (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2014 without effect on pay & allces).

& (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2014 without effect on pay & allces).

\$ (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 03 May 2014 without effect on pay & allces).

* (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2013 without effect on pay & allces).

#@ (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2014 without effect on pay & allces).

[to be Nb Sub (GD)]

Hav	Ramesh	(15347510X	Now JC-340889X)	14062014@
Hav	Ranjit Pattanaik	(1485328A	Now JC-340890M)	09062014#
Hav	Ganesh Giri	(15337488K	Now JC-340891P)	14062014#
Hav	Brijesh Kumar Singh	(1487184F	Now JC-340892X)	06062014\$
Hav	Satyendra Singh Negi	(1487228N	Now JC-340893A)	05062014\$

[To be Nb Sub Clk (SD)]

Hav	Kunj Bihari Mishra	(6390453N	Now JC-340894H)	13062014%
Hav	SK Sirajuddin Ahamed	(1485872F	Now JC-340895L)	14062014%
Hav	Surendra Singh	(15335974H	Now JC-340896N)	13062014%
Hav	Bhupesh Kumar Upadhyay	(15336157W	Now JC-340897W)	24062014%
Hav	Santosh Kumar CK	(15336134P	Now JC-340898Y)	14062014%
Hav	Santosh Kumar Singh	(15338157P	Now JC-340899F)	13062014%
Hav	Ismail Babu Shaik	(15338580P	Now JC-340900L)	13062014%
Hav	Alok Kumar Patanwar	(15338670W	Now JC-340901N)	13062014%
Hav	Biplab Dutta	(15338491W	Now JC-340902W)	16062014%
Hav	Brij Nath Pandey	(15338829W	Now JC-340903Y)	17062014%
Hav	Waikhom Minakanta Meetei	(15338901F	Now JC-340904F)	13062014%
Hav	Binod Kumar Bharti	(15338929F	Now JC-340905K)	13062014%
Hav	Vasanth Kumar HV	(15338948M	Now JC-340906M)	14062014%
Hav	Mahipal Singh	(15339205W	Now JC-340907P)	13062014%
Hav	Awungshi Ramyo	(15338900Y	Now JC-340908X)	13062014%
Hav	Jitendra Singh Bhadauria	(15339845A	Now JC-340909A)	12062014%
Hav	Leishangthem Ranjan Singh	(15339854F	Now JC-340910P)	12062014%
Hav	Ghanendra Vir Vikram Singh	(15342454A	Now JC-340911X)	12062014%
Hav	Deepak Kumar Mishra	(15343067X	Now JC-340912A)	13062014%
Hav	Sumanta Mandal	(15343079M	Now JC-340913H)	13062014%
Hav	Aghmochan Singh Patel	(15343158F	Now JC-340914L)	14062014%
Hav	Jitendra Kumar	(15343178P	Now JC-340915N)	13062014%
Hav	Deepak Kumar Bhuyan	(15343217H	Now JC-340916W)	13062014%
Hav	Nirmal Sarkar	(15343285W	Now JC-340917Y)	13062014\$
Hav	Ashok Kumar Yadav	(15343288K	Now JC-340918F)	16062014\$
Hav	Brajesh Kumar Singh	(15343341K	Now JC-340919K)	12062014\$
Hav	Sujit Ghosh	(15343399F	Now JC-340920Y)	13062014\$
Hav	Sajal Ghosh	(15343401N	Now JC-340921F)	13062014\$
Hav	Palash Chandra Ghosh	(15343410P	Now JC-340922K)	13062014\$
Hav	N Shanti Kumar Singha	(15343436K	Now JC-340923M)	16062014\$
Hav	Rajnish	(15343764X	Now JC-340924P)	13062014\$

(To be Nb Sub/SKT)

Hav	Rajendra Prasad Panda	(1489577W	Now JC-340925X)	13062014&
Hav	Chinta Moni Ghosal	(1489623A	Now JC-340926A)	12062014&
Hav	Dharmendra Singh	(1489576N	Now JC-340927H)	19052014^
Hav	S Jayapalan	(1490503N	Now JC-340928L)	16062014*
Hav	Lalit Mohan	(1490790H	Now JC-340929N)	20062014#
Hav	Satish Kumar	(1490823H	Now JC-340930H)	14062014#
Hav	More Dattatraya Vitthal Rao	(1490828F	Now JC-340931L)	14062014#
Hav	Mete Shatrughan Laxman	(1490862F	Now JC-340932N)	14062014#
Hav	Mahesha Prasada Tripathy	(1491298K	Now JC-340933W)	16062014#\$
Hav	Alazar	(1491670W	Now JC-340934Y)	02062014#\$
Hav	Manjit Singh	(1491861L	Now JC-340935F)	18062014%
Hav	Salim Mohammed	(1486624X	Now JC-340936K)	02062014\$
Hav	Krishna Pal Singh	(1492081M	Now JC-340937M)	02062014\$
Hav	Sunil Kumar KK	(1492120A	Now JC-340938P)	01062014\$
Hav	Bambaniya Manubhai Jesabhai	(1492147X	Now JC-340939X)	02062014\$
Hav	Warhate Jayvant Krishndev	(1492157F	Now JC-340940M)	02062014\$
Hav	Nikam Sandip Tukaram	(1492216H	Now JC-340941P)	02062014\$
Hav	Dinesh Singh Routela	(1492287K	Now JC-340942X)	02062014\$
Hav	Om Prakash	(1492321Y	Now JC-340943A)	05062014\$

(To be Nb Sub Svy Cat)

Hav	Pradeep Singh	(1489001Y	Now JC-340944H)	25062014%#
-----	---------------	-----------	-----------------	------------

@ (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 08 Feb 2014 without effect on pay & allces).

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2014 without effect on pay & allces).

\$ (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2014 without effect on pay & allces).

% (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 03 May 2014 without effect on pay & allces).

& (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2013 without effect on pay & allces).

^ (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Jan 2014 without effect on pay & allces).

* (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2014 without effect on pay & allces).

%# (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2014 without effect on pay & allces).

#\$ (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2014 without effect on pay & allces).

BOMBAY ENGINEER GROUP

TO BE NB SUB (CLK SD)

HAV (CLK SD)	RATHEESH KUMAR R	S.NO	1587519H	NOW	JC353015H	16 TH JUN 2014
HAV (CLK SD)	MORE SANDESH PANDURANG	S.NO	1587526Y	NOW	JC353016L	02 ND JUN 2014
HAV (CLK SD)	MAHBOOB ALI MALIK	S.NO	1587539W	NOW	JC353017N	02 ND JUN 2014
HAV (CLK SD)	SATISH CHAND CHAHAR	S.NO	1587584H	NOW	JC353018W	04 TH JUN 2014
HAV (CLK SD)	SAMIR ROY CHOWDHURY	S.NO	1587592F	NOW	JC353019Y	02 ND JUN 2014
HAV (CLK SD)	PRATAP KUMAR RAY	S.NO	1587593K	NOW	JC353020N	02 ND JUN 2014
HAV (CLK SD)	BAREN KUMAR MONDAL	S.NO	1587595P	NOW	JC353021W	02 ND JUN 2014
HAV (CLK SD)	GIRANAND PRASAD	S.NO	1587606W	NOW	JC353022Y	02 ND JUN 2014

Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jun 2014 without effect on pay and allowances

TO BE NB SUB (SKT)

HAV(SKT)	ANIL KUMAR SINGH	S.NO	1586407W	NOW	JC352909M	01 ST MAY 2014
HAV(SKT)	SAYED REYAJ AHMED	S.NO	1580312A	NOW	JC352910F	02 ND MAY 2014

Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Apr 2006 without effect on pay and allowances

HAV(SKT)	SHER SINGH	S.NO	1586463P	NOW	JC352911K	01 ST MAY 2014
----------	------------	------	----------	-----	-----------	---------------------------

Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Aug 2006 without effect on pay and allowances

HAV(SKT)	MANOJ KUMAR MISHRA	S.NO	1586487Y	NOW	JC352912M	01 ST MAY 2014
HAV(SKT)	RAVINDER KUMAR	S.NO	1586595H	NOW	JC352913P	30 TH APR 2014

Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2008 without effect on pay and allowances

HAV(SKT)	ANIL KUMAR	S.NO	1586624M	NOW	JC352914X	06 TH MAY 2014
----------	------------	------	----------	-----	-----------	---------------------------

Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st May 2008 without effect on pay and allowances

HAV(SKT)	PATEL MUKESH BHAI KANAJI BHAI	S.NO	1586685K	NOW	JC352915A	12 TH MAY 2014
HAV(SKT)	SUNIL KUMAR SHARMA	S.NO	1586741X	NOW	JC352916H	01 ST MAY 2014
HAV(SKT)	KALLAM SREENIVASA REDDY	S.NO	1586860N	NOW	JC352917L	03 RD MAY 2014
HAV(SKT)	CHILAKALA SIVA SANKAR	S.NO	1586873L	NOW	JC352918N	02 ND MAY 2014
HAV(SKT)	B SARVANAN	S.NO	1586875W	NOW	JC352919W	06 TH MAY 2014

Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Oct 2008 without effect on pay and allowances

HAV(SKT)	RAKATE TANAJIRAO SAMBHAJIRAO	S.NO	1586965X	NOW	JC352920L	01 ST MAR 2014
Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Jan 2010 without effect on pay and allowances						
HAV(SKT)	PALASKAR RAMDAS NIVRUTTI	S.NO	1586968L	NOW	JC352921N	01 ST MAY 2014
Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Apr 2010 without effect on pay and allowances						
HAV(SKT)	JAYA KUMAR M	S.NO	1587090Y	NOW	JC352922W	03 RD MAY 2014
HAV(SKT)	Z ARUL PAUL	S.NO	1587099N	NOW	JC352923Y	02 ND MAY 2014
HAV(SKT)	ARVIND KUMAR	S.NO	1587141F	NOW	JC352924F	02 ND MAY 2014
HAV(SKT)	JAYENDRA PRASAD	S.NO	1587285K	NOW	JC352925K	01 ST MAY 2014
Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Nov 2010 without effect on pay and allowances						
HAV(SKT)	SRIDHAR SAHOO	S.NO	1587597A	NOW	JC352926M	02 ND MAY 2014
Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Jul 2011 without effect on pay and allowances						
HAV(SKT)	BALWANT SINGH	S.NO	1587635L	NOW	JC352927P	01 ST MAY 2014
HAV(SKT)	HARE KRISHNA SINGH	S.NO	1587649L	NOW	JC352928X	02 ND MAY 2014
HAV(SKT)	AJI KUMAR V	S.NO	1587716L	NOW	JC352929A	01 ST MAY 2014
HAV(SKT)	NURDIN	S.NO	1587717N	NOW	JC352930P	01 ST MAY 2014
HAV(SKT)	KHEMENDRA KUMAR	S.NO	1586511K	NOW	JC352931X	01 ST MAY 2014
HAV(SKT)	C ACHYUTHA REDDY	S.NO	1587780H	NOW	JC352932A	01 ST MAY 2014
Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Nov 2011 without effect on pay and allowances						
HAV(SKT)	JITENDRA SINGH	S.NO	1587811X	NOW	JC352933H	01 ST MAY 2014
Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Dec 2011 without effect on pay and allowances						
HAV(SKT)	SHRIKANT SHUKLA	S.NO	1587852F	NOW	JC352934L	01 ST MAY 2014
HAV(SKT)	ADLOORI SRINIVASA RAJU	S.NO	1587868M	NOW	JC352935N	03 RD MAY 2014
Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Apr 2012 without effect on pay and allowances						
HAV(SKT)	P CHELLADURAI	S.NO	1587902F	NOW	JC352936W	01 ST MAY 2014
Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Jul 2012 without effect on pay and allowances						
HAV(SKT)	GADE RAVINDRA BAJRANG	S.NO	1587917K	NOW	JC352937Y	02 ND MAY 2014
Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Oct 2012 without effect on pay and allowances						
HAV(SKT)	JOSHI JAYENDRA JYOTISHANKAR	S.NO	1587924A	NOW	JC352938F	01 ST MAY 2014
Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st May 2013 without effect on pay and allowances						
HAV(SKT)	KHOKAN BOSE	S.NO	1588097P	NOW	JC352939K	02 ND MAY 2014

HAV(SKT)	MANOJ KUMAR SINGH	S.NO	1588100K	NOW	JC352940Y	02 ND MAY 2014
HAV(SKT)	UDAI BHAN SINGH	S.NO	1588102P	NOW	JC352941F	03 RD JUN 2014
HAV(SKT)	RAJEEV KUMAR S	S.NO	1588107N	NOW	JC352942K	17 TH MAY 2014
HAV(SKT)	SHIVE PRAKASH	S.NO	1588121A	NOW	JC352943M	13 TH MAY 2014
Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 22 nd Feb 2014 without effect on pay and allowances						
HAV(SKT)	SANTHOSH BHASKAR	S.NO	1588130F	NOW	JC352944P	05 TH MAY 2014
HAV(SKT)	TITTUS THOMAS	S.NO	1588134X	NOW	JC352945X	03 RD MAY 2014
HAV(SKT)	MANOJ KUMAR DAS	S.NO	1588148X	NOW	JC352946A	01 ST MAY 2014
HAV(SKT)	PRAMOD KUMAR MOHANTY	S.NO	1588154L	NOW	JC352947H	01 ST MAY 2014
HAV(SKT)	GANGESH KUMAR	S.NO	1588158F	NOW	JC352948L	03 RD MAY 2014
HAV(SKT)	NEMA RAM	S.NO	1588159K	NOW	JC352949N	05 TH MAY 2014
HAV(SKT)	BABAR ALI	S.NO	1588160Y	NOW	JC352950H	02 ND MAY 2014
HAV(SKT)	ASHOK KUMAR YADAV	S.NO	1588191Y	NOW	JC352951L	13 TH MAY 2014
HAV(SKT)	SHIV POOJAN YADAV	S.NO	1588202A	NOW	JC352952N	03 RD MAY 2014
HAV(SKT)	AMRENDRA KUMAR SINGH	S.NO	1588203H	NOW	JC352953W	03 RD MAY 2014
HAV(SKT)	T HARI SHANKAR	S.NO	1588211F	NOW	JC352954Y	26 TH MAY 2014
HAV(SKT)	SURENDRA PRASAD	S.NO	1588212K	NOW	JC352955F	02 ND MAY 2014
HAV(SKT)	SHIVTE NITIN BALIRAM	S.NO	1588268W	NOW	JC352956K	02 ND MAY 2014
HAV(SKT)	OMPRAKASH YADAV	S.NO	1588269Y	NOW	JC352957M	02 ND MAY 2014
HAV(SKT)	CHATTI PRAHLAD	S.NO	1587928W	NOW	JC352958P	04 TH JUN 2014
HAV(SKT)	ASHUTOSH BISWAS	S.NO	1588150P	NOW	JC352959X	07 TH MAY 2014
HAV(SKT)	PHOOL CHAND VERMA	S.NO	1588155N	NOW	JC352960M	13 TH MAY 2014
HAV(SKT)	SANJAY KUMAR	S.NO	1588279H	NOW	JC352961P	20 TH MAY 2014
HAV(SKT)	D ARUL PRAKASH	S.NO	1587945W	NOW	JC352962X	01 ST MAY 2014
HAV(SKT)	VENKATESWARLU GANNA	S.NO	1588108W	NOW	JC352963A	02 ND MAY 2014
HAV(SKT)	BIPIN KUMAR BHARTI	S.NO	1588153H	NOW	JC352964H	01 ST MAY 2014
HAV(SKT)	GOPAL PRASAD SAH	S.NO	1588248H	NOW	JC352965L	02 ND MAY 2014
HAV(SKT)	SAKPAL RAVI SHANKAR	S.NO	1588278A	NOW	JC352966N	02 ND MAY 2014
Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 22 nd Feb 2014 with pay and allowances						
HAV(SKT)	HARI OM SHARMA	S.NO	1586610M	NOW	JC352967W	10 TH JUN 2014
Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Jan 2008 without effect on pay and allowances						
HAV(SKT)	FATEH SINGH	S.NO	1587633A	NOW	JC352968Y	10 TH JUN 2014

HAV(SKT)	PRATAP CHANDRA SAHU	S.NO	1587643K	NOW	JC352969F	02 ND MAY 2014
Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Nov 2011 without effect on pay and allowances						
HAV(SKT)	SANKAR SINHA	S.NO	1588103X	NOW	JC352970W	24 TH MAY 2014
Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 22 nd Feb 2014 without effect on pay and allowances						
HAV(SKT)	BAIJU V	S.NO	1588125W	NOW	JC352971Y	14 TH JUN 2014
HAV(SKT)	MUKESH CHANDRA JOSHI	S.NO	1588141N	NOW	JC352972F	12 TH JUN 2014
HAV(SKT)	GIRAWALE SADASHIV SHAHU	S.NO	1587919P	NOW	JC352973K	31 ST MAY 2014
HAV(SKT)	GHUMAN SINGH SHEKHAWAT	S.NO	1588190W	NOW	JC352974M	02 ND JUN 2014
HAV(SKT)	SUNIL KUMAR SHARMA	S.NO	1588280X	NOW	JC352975P	02 ND JUN 2014
HAV(SKT)	KULWINDER SINGH	S.NO	1588281A	NOW	JC352976X	18 TH JUN 2014
HAV(SKT)	PRAKASH VIR	S.NO	1588284N	NOW	JC352977A	16 TH JUN 2014
HAV(SKT)	SUNIL KUMAR	S.NO	1588289M	NOW	JC352978H	31 ST MAY 2014
HAV(SKT)	SHEO KUMAR CHOUDHARY	S.NO	1588309P	NOW	JC352979L	14 TH JUN 2014
HAV(SKT)	HARNAM SINGH	S.NO	1588328A	NOW	JC352980A	02 ND JUN 2014
HAV(SKT)	NARAYAN YERUNKAR	S.NO	1588332H	NOW	JC352981H	01 ST JUN 2014
HAV(SKT)	VINAY KUMAR	S.NO	1588335W	NOW	JC352982L	06 TH JUN 2014
HAV(SKT)	JAI PRAKASH VERMA	S.NO	1588341K	NOW	JC352983N	14 TH JUN 2014
HAV(SKT)	UMESH CHANDRA	S.NO	1588345A	NOW	JC352984W	02 ND JUN 2014
Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 22 nd Mar 2014 without effect on pay and allowances						
HAV(SKT)	SHAILENDER KUMAR	S.NO	1588356M	NOW	JC352985Y	02 ND JUN 2014
HAV(SKT)	ASHISH KUMAR SINGH	S.NO	1588361X	NOW	JC352986F	12 TH JUN 2014
HAV(SKT)	SANDEEP SINGH	S.NO	1588365N	NOW	JC352987K	02 ND JUN 2014
HAV(SKT)	MASSUB ALI	S.NO	1588374P	NOW	JC352988M	02 ND JUN 2014
HAV(SKT)	VIKAS RANA	S.NO	1588410P	NOW	JC352989P	02 ND JUN 2014
HAV(SKT)	KAMAL KANTI BISWAS	S.NO	1588548K	NOW	JC352990K	16 TH JUN 2014
HAV(SKT)	GAUTAM BHOWMIK	S.NO	1588551K	NOW	JC352991M	16 TH JUN 2014
HAV(SKT)	BIKASH CHANDRA MONDAL	S.NO	1588559W	NOW	JC352992P	18 TH JUN 2014
HAV(SKT)	SANJIB MAHAPATRA	S.NO	1588599X	NOW	JC352993X	21 ST JUN 2014
HAV(SKT)	RABINDRA NATH JANA	S.NO	1588536P	NOW	JC352994A	18 TH JUN 2014

ANURAG SHARMA
Under Secretary

HAV (MUSN)	UPALE UMESH KRISHNA	(S.NO	1584127K	NOW	JC352535F	03 RD OCT 2013
Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Sep 2013 with pay and allowances						

TO BE NB SUB (CLK SD)

HAV (CLK SD)	MAHESHWAR PRADHAN	(S.NO	1586440N	NOW	JC352499F	13 TH SEP 2013
HAV (CLK SD)	MAHENDRA PAL GANGWAR	(S.NO	1586589P	NOW	JC352500L	01 ST AUG 2013
Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 ST Aug 2013 with/without effect on pay and allowances						
HAV (CLK SD)	DHARAMBIR SINGH	(S.NO	1586637K	NOW	JC352507P	02 ND SEP 2013
HAV (CLK SD)	RAJENDRA KUMAR	(S.NO	1586652Y	NOW	JC352508X	02 ND SEP 2013
HAV (CLK SD)	PUKA RAM	(S.NO	1586670F	NOW	JC352509A	02 ND SEP 2013
HAV (CLK SD)	M VINOD KUMAR	(S.NO	1586691X	NOW	JC352510P	03 RD SEP 2013
HAV (CLK SD)	MANAS KUMAR NAYAK	(S.NO	1490440W	NOW	JC352511X	02 ND SEP 2013
HAV (CLK SD)	DILIP KUMAR TANTI	(S.NO	1586694L	NOW	JC352512A	02 ND SEP 2013
HAV (CLK SD)	HOSSAIN MUHAMMAD LITON	(S.NO	1490448H	NOW	JC352513H	01 ST SEP 2013
HAV (CLK SD)	ASHOK KUMAR	(S.NO	1586701W	NOW	JC352514L	10 TH SEP 2013
Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 ST Sep 2013 with/without effect on pay and allowances						
HAV (CLK SD)	BHOOPENDRA KUMAR SHANKHDHAR	(S.NO	1586825L	NOW	JC352536K	03 RD OCT 2013
HAV (CLK SD)	DATA RAM YADAV	(S.NO	1586830W	NOW	JC352537M	03 RD OCT 2013
Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 ST Oct 2013 without effect on pay and allowances						
HAV (CLK SD)	PRADEEP KUMAR K	(S.NO	1586098Y	NOW	JC352539X	28 TH OCT 2013
Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 ST Apr 2013 without effect on pay and allowances						
HAV (CLK SD)	PANDHARE PUNAPPA APPA	(S.NO	1586702Y	NOW	JC352545L	10 TH OCT 2013
HAV (CLK SD)	NARENDER KUMAR	(S.NO	1586715W	NOW	JC352546N	10 TH OCT 2013
HAV (CLK SD)	SUNIL SUNDARAM	(S.NO	1586724X	NOW	JC352547W	10 TH OCT 2013
HAV (CLK SD)	BHAVSAR NILESH VIJAY	(S.NO	1586738X	NOW	JC352548Y	01 ST OCT 2013
HAV (CLK SD)	MACHE TUKARAM YADU	(S.NO	1586755X	NOW	JC352549F	19 TH OCT 2013
HAV (CLK SD)	MD HABIB KHAN	(S.NO	1586247F	NOW	JC352550W	15 TH OCT 2013

TO BE NB SUB (GD)

HAV (GD)	SUKHDEV SINGH	(S.NO	1580667L	NOW	JC352498Y	01 ST JUL 2013
Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Jul 2013 with pay and allowances						
HAV(GD)	HARJINDER SINGH	(S.NO	1581097M	NOW	JC352501N	01 ST AUG 2013
HAV (GD)	CHAUDHARI ASHOK PRABHAKAR	(S.NO	1581123H	NOW	JC352502W	01 ST AUG 2013
HAV (GD)	CHANAKHEKAR AJAY MADHUKAR	(S.NO	1581154H	NOW	JC352503Y	03 RD AUG 2013
HAV (GD)	DHUMAL RAJENDRA CHANDRABHAN	(S.NO	1581203A	NOW	JC352504F	05 TH AUG 2013
HAV (GD)	LAKHBIR SINGH	(S.NO	1581253L	NOW	JC352505K	01 ST AUG 2013
Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Aug 2013 with/ without effect on pay and allowances						
HAV (GD)	SONAWANE SACHIN BABAN	(S.NO	15568489X	NOW	JC352515N	02 ND SEP 2013
HAV (GD)	JAGTAP ASHISH ASHOK	(S.NO	15568803A	NOW	JC352516W	02 ND SEP 2013
HAV (GD)	RAFIK KHAN	(S.NO	1581294P	NOW	JC352517Y	02 ND SEP 2013
HAV(GD)	BHOSALE KUNDALIK BAPU	(S.NO	1581341F	NOW	JC352518F	02 ND SEP 2013
HAV(GD)	KODAG BAJIRAO GULABRAO	(S.NO	1581354Y	NOW	JC352519K	01 ST SEP 2013
HAV(GD)	HARGOPAL	(S.NO	1581385Y	NOW	JC352520Y	02 ND SEP 2013
HAV(GD)	PAWAR SANTOSH SAKHARAM	(S.NO	1581387K	NOW	JC352521F	02 ND SEP 2013
HAV(GD)	BHANWAR ALI	(S.NO	1581402N	NOW	JC352522K	02 ND SEP 2013
HAV(GD)	YUNUS KHAN	(S.NO	1581442P	NOW	JC352523M	01 ST SEP 2013
HAV(GD)	AMBERKAR MANGESH UTTAM	(S.NO	1581446L	NOW	JC352524P	02 ND SEP 2013
Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 st Sep 2013 with/without effect on pay and allowances						

HAV(GD)	DISALE RAJENDRA HANAMANT	(S.NO	1581447N	NOW	JC352525X	02 ND SEP 2013
HAV(GD)	CHAVAN PRADIP GANPAT	(S.NO	1581451W	NOW	JC352526A	02 ND SEP 2013
HAV(GD)	RAM NARESH PAL	(S.NO	1581455M	NOW	JC352527H	02 ND SEP 2013
HAV(GD)	KAMLESHWAR PRASAD	(S.NO	1581479W	NOW	JC352528L	03 RD SEP 2013
HAV(GD)	HARJINDER SINGH	(S.NO	1581482W	NOW	JC352529N	02 ND SEP 2013
HAV(GD)	GURNAM SINGH	(S.NO	1581487P	NOW	JC352530H	02 ND SEP 2013
HAV(GD)	ARJUN SINGH	(S.NO	1581493H	NOW	JC352531L	02 ND SEP 2013
HAV(GD)	HARPAL SINGH	(S.NO	1581498F	NOW	JC352532N	01 ST SEP 2013
HAV(GD)	BALWINDER SINGH	(S.NO	1581522M	NOW	JC352533W	02 ND SEP 2013
HAV(GD)	GURMAIL SINGH	(S.NO	1581530L	NOW	JC352534Y	02 ND SEP 2013

Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Sep 2013 with/without effect on pay and allowances

HAV (GD)	SUKHCHAIN PRASAD MISHRA	(S.NO	1581320L	NOW	JC352540M	03 RD SEP 2013
HAV(GD)	ALIYAS KHAN	(S.NO	1581375P	NOW	JC352541P	01 ST SEP 2013
HAV (GD)	RAM NIVAS VISHVAKARMA	(S.NO	1581378H	NOW	JC352542X	03 RD SEP 2013
HAV (GD)	SAMER SINGH	(S.NO	1581394A	NOW	JC352543A	03 RD SEP 2013
HAV (GD)	JOGINDER PAL SINGH	(S.NO	1581495N	NOW	JC352544H	01 ST SEP 2013

Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Sep 2013 with/without effect on pay and allowances

HAV (GD)	AMAR SINGH	(S.NO	15574328L	NOW	JC352554M	23 RD NOV 2013
HAV (GD)	GURMEL SINGH	(S.NO	1581551F	NOW	JC352555P	29 TH OCT 2013
HAV (GD)	KAUSHAL KISHORE SHARMA	(S.NO	1581552K	NOW	JC352556X	25 TH OCT2013
HAV (GD)	MUKESH KUMAR SHARMA	(S.NO	1581574H	NOW	JC352557A	22 ND OCT 2013
HAV(GD)	CHAVAN SHRIKRISHNA AKARAM	(S.NO	1581575L	NOW	JC352558H	17 TH OCT 2013
HAV(GD)	KULWI NDER SINGH	(S.NO	1581582F	NOW	JC352559L	19 TH OCT 2013
HAV(GD)	BHOSALE SHRIDHAR PANDURANG	(S.NO	1581583K	NOW	JC352560A	07 TH NOV 2013
HAV(GD)	ASLAM KHAN	(S.NO	1581604P	NOW	JC352561H	17 TH OCT 2013
HAV(GD)	SHINDE SUNIL SURESH	(S.NO	1581608L	NOW	JC352562L	17 TH OCT 2013
HAV(GD)	GANGOTRI BHUJANG DIGAMBER	(S.NO	1581616K	NOW	JC352563N	20 TH NOV 2013

Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Oct 2013 without effect on pay and allowances

HAV(GD)	CHAVAN PRASHANT DHONDIBA	(S.NO	1581634M	NOW	JC352564W	25 TH OCT 2013
HAV(GD)	KADAM JITENDRA SHIVAJI	(S.NO	1581639L	NOW	JC352565Y	28 TH OCT 2013
HAV(GD)	CHOUGULE RAJARAM AKARAM	(S.NO	1581644W	NOW	JC352566F	29 TH OCT 2013
HAV(GD)	DALJIT SINGH	(S.NO	1581666P	NOW	JC352567K	19 TH OCT 2013
HAV(GD)	SEWA LAL	(S.NO	1581684X	NOW	JC352568M	25 TH OCT 2013
HAV(GD)	SURYAWANSHI VIJAY KUMAR WAMANRAO	(S.NO	1581687L	NOW	JC352569P	12 TH NOV 2013
HAV(GD)	KAZI ALAM RAJJAK	(S.NO	1581694F	NOW	JC352570K	09 TH NOV 2013
HAV(GD)	DAL CHAND	(S.NO	1581704A	NOW	JC352571M	09 TH NOV 2013
HAV(GD)	SAKE ASHOK RAGHUNATH	(S.NO	1581715M	NOW	JC352572P	13 TH NOV 2013
HAV(GD)	THAKARE SANJEEV KUMAR SUKARAM	(S.NO	1581710N	NOW	JC352573X	25 TH OCT 2013
HAV(GD)	BALJINDER SINGH	(S.NO	1581721A	NOW	JC352574A	12 TH NOV 2013
HAV(GD)	NAIK SANDEEP BHIVSEN	(S.NO	1581728K	NOW	JC352575H	09 TH NOV 2013
HAV(GD)	KUMAR SEN KHAN	(S.NO	1581739W	NOW	JC352576L	29 TH OCT 2013
HAV(GD)	RAM NIWAS	(S.NO	1581744F	NOW	JC352577N	11 TH NOV 2013
HAV(GD)	RANMAL KHAN	(S.NO	1581745K	NOW	JC352578W	07 TH NOV 2013
HAV(GD)	JOGINDER SINGH	(S.NO	1581759K	NOW	JC352579Y	05 TH NOV 2013
HAV(GD)	VINAY KUMAR	(S.NO	1581760Y	NOW	JC352580N	25 TH OCT 2013
HAV(GD)	BHOLA SINGH	(S.NO	1581794M	NOW	JC352581W	02 ND NOV 2013
HAV(GD)	GURADITTA SINGH	(S.NO	1581799L	NOW	JC352582Y	18 TH OCT 2013
Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 ST Oct 2013 without effect on pay and allowances						
HAV(GD)	PARGAT SINGH	(S.NO	1581800P	NOW	JC352585M	02 ND NOV 2013
HAV(GD)	KAKA SINGH	(S.NO	1581801X	NOW	JC352586P	06 TH NOV 2013
HAV(GD)	BALWINDER SINGH	(S.NO	1581802A	NOW	JC352587X	08 TH NOV 2013
HAV(GD)	SHIRAVLE PANDHARINATH SADASHIV	(S.NO	1581836N	NOW	JC352588A	07 TH NOV 2013
HAV(GD)	SHINDE BHIMARAO BABARAO	(S.NO	1581839F	NOW	JC352589H	05 TH NOV 2013
HAV(GD)	DILBAGH SINGH	(S.NO	1581846X	NOW	JC352590X	16 TH NOV 2013
Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 ST Nov 2013 without effect on pay and allowances						
HAV(GD)	PATOLE BALASO KRISHNA	(S.NO	1581907K	NOW	JC352591A	02 ND NOV 2013
HAV(GD)	RAJESH KUMAR SINGH	(S.NO	1581946H	NOW	JC352592H	29 TH NOV 2013
HAV(GD)	RAM REKHA KUMAR SINGH	(S.NO	15573448N	NOW	JC352593L	21 ST NOV 2013

HAV(GD)	LAL CHAND	(S.NO	1581973M	NOW	JC352594N	08 TH NOV 2013
HAV(GD)	HAJARI SINGH CHAUHAN	(S.NO	1581975X	NOW	JC352595W	06 TH NOV 2013
HAV(GD)	RISAL KHAN	(S.NO	1581978L	NOW	JC352596Y	15 TH NOV 2013
HAV(GD)	BARBATE EKNATH NARAYAN	(S.NO	1581984Y	NOW	JC352597F	01 ST NOV 2013
HAV(GD)	KASHID DNYANESHWAR KRISHNA	(S.NO	1581988P	NOW	JC352598K	01 ST NOV 2013
HAV(GD)	TANDELKAR SUNIL MARUTI	(S.NO	1582008P	NOW	JC352599M	01 ST NOV 2013
HAV(GD)	SHAMSHAD KHAN	(S.NO	1582017W	NOW	JC352600W	22 ND NOV 2013
HAV(GD)	TAGAD RAGHUNATH UMAJI	(S.NO	1582721M	NOW	JC352601Y	01 ST NOV 2013
HAV(GD)	VIJAY MORE GANGARAM	(S.NO	1583306X	NOW	JC352602F	11 TH NOV 2013
HAV(GD)	HARBHAJAN SINGH	(S.NO	1583312L	NOW	JC352603K	01 ST NOV 2013

Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Nov 2013 with/without effect on pay and allowances

TO BE NB SUB (SKT)

HAV (SKT)	E RAJA KUMARAN	(S.NO	1587936P	NOW	JC352506M	01 ST SEP 2013
-----------	----------------	-------	----------	-----	-----------	---------------------------

Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Sep 2013 with pay and allowances

MADRAS ENGINEER GROUP

To be Nb Sub (GD)

Rank/ Trade	Name	Army No		JC No	Date of Promotion	Date of seniority without effect on pay and allces
1	2	3	4	5	6	7
Hav (GD)	A SAGAYANATHAN	15310940K	Now	JC311321W	01 DEC 2014	07 JUN 2014*
Hav (GD)	RANGA SWAMY BORRA	15334332F	Now	JC311322Y	01 DEC 2014	07 JUN 2014*
Hav (GD)	PITCHAIMANI C	15309142K	Now	JC311323F	01 DEC 2014	01 JUL 2014#
Hav (GD)	K ANBALAGAN	15310232X	Now	JC311324K	01 DEC 2014	01 SEP 2014\$
Hav (GD)	KEMPANNA LAKKANNAVAR	15310636A	Now	JC311325M	01 DEC 2014	01 DEC 2014
Hav (GD)	BIJU KG	15310681M	Now	JC311326P	01 DEC 2014	01 DEC 2014
Hav (GD)	M MUTHURAMA JOTHI	15310707W	Now	JC311327X	01 DEC 2014	01 DEC 2014
Hav (GD)	BALABATHUNI VEERA SEKHAR	15308790A	Now	JC311328A	01 DEC 2014	01 DEC 2014

* Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 07 Jun 2014 without effect on pay and allce.

Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2014 without effect on pay and allce.

\$ Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2014 without effect on pay and allce

Rank/ Trade	Name	Army No		JC No	Date of Promotion	Date of seniority without effect on pay and allces
1	2	3	4	5	6	7
Hav (GD)	KRISHNAMOORTHY KL	15309523L	Now	JC311290F	01 NOV 2014	01 NOV 2013*
Hav (GD)	K VENKATA REDDY	15309129A	Now	JC311291K	01 NOV 2014	01 JUL 2014#
Hav (GD)	P RAVINDRA KUMAR	15309785F	Now	JC311269Y	01 OCT 2014	01 SEP 2014\$
Hav (GD)	SUNIL KUMAR CP	15310388P	Now	JC311292M	01 NOV 2014	01 NOV 2014
Hav (GD)	M MANOHARAN	15310390M	Now	JC311293P	01 NOV 2014	01 NOV 2014
Hav (GD)	ASOKAN C	15310395L	Now	JC311294X	01 NOV 2014	01 NOV 2014
Hav (GD)	L APPASAMY	15310401N	Now	JC311295A	01 NOV 2014	01 NOV 2014
Hav (GD)	UDAYAKUMAR G	15310436K	Now	JC311296H	01 NOV 2014	01 NOV 2014
Hav (GD)	KP RAJESH	15310443A	Now	JC311298N	01 NOV 2014	01 NOV 2014
Hav (GD)	PV VIJAYAN	15310445L	Now	JC311299W	01 NOV 2014	01 NOV 2014
Hav (GD)	HARISH AB	15310460A	Now	JC311300A	01 NOV 2014	01 NOV 2014
Hav (GD)	NR JAGADEESAN	15310482Y	Now	JC311301H	01 NOV 2014	01 NOV 2014
Hav (GD)	R KANNAPPAN NAIR	15310490X	Now	JC311302L	01 NOV 2014	01 NOV 2014
Hav (GD)	POLINA GANGA JALAM	15310500W	Now	JC311303N	01 NOV 2014	01 NOV 2014
Hav (GD)	NARI SAMMA KOYYA	15310501Y	Now	JC311304W	01 NOV 2014	01 NOV 2014
Hav (GD)	MATTA DHANUMJAYA RAO	15310503K	Now	JC311305Y	01 NOV 2014	01 NOV 2014
Hav (GD)	SUVVARI MALLESWARA RAO	15310504M	Now	JC311306F	01 NOV 2014	01 NOV 2014
Hav (GD)	RUPPA BHASKARA RAO	15310552M	Now	JC311307K	01 NOV 2014	01 NOV 2014
Hav (GD)	MADDIKATLA KASI BABU	15310558N	Now	JC311308M	01 NOV 2014	01 NOV 2014
Hav (GD)	DUDEKULA KASIM SAHEB	15310568X	Now	JC311309P	01 NOV 2014	01 NOV 2014
Hav (GD)	RAVI CHANDRAN R	15310604X	Now	JC311310K	01 NOV 2014	01 NOV 2014
Hav (GD)	RAJARATENAM C	15310627Y	Now	JC311311M	01 NOV 2014	01 NOV 2014
Hav (GD)	APPASA DANDIN	15310629K	Now	JC311312P	01 NOV 2014	01 NOV 2014
Hav (GD)	ISHWARI WALISHEETTI	15310631F	Now	JC311313X	01 NOV 2014	01 NOV 2014

* Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2013 without effect on pay and allce.

Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2014 without effect on pay and allce.

\$ Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2014 without effect on pay and allce.

Rank/ Trade	Name	Army No		JC No	Date of Promotion	Date of seniority without effect on pay and allces
1	2	3	4	5	6	7
Hav (GD)	B BALACHANDRAN	15310082M	Now	JC311270N	01 OCT 2014*	01 SEP 2014
Hav (GD)	L ANTHONIDOSS	15310346H	Now	JC311271W	03 OCT 2014#	01 OCT 2014
Hav (GD)	MALLAREDDI RAMPRASADA RAO	15310359A	Now	JC311272Y	01 OCT 2014	01 OCT 2014
Hav (GD)	JAMSH V JACOB	15310361X	Now	JC311273F	01 OCT 2014	01 OCT 2014
Hav (GD)	SIVAKUMAR C	15310370Y	Now	JC311274K	01 OCT 2014	01 OCT 2014
Hav (GD)	MAYAPPA BABALENNAVAR	15310321W	Now	JC311275M	01 OCT 2014	01 OCT 2014
Hav (GD)	A BHASKAR BRITTO	15310379N	Now	JC311276P	01 OCT 2014	01 OCT 2014
Hav (GD)	ROBIN PU	16113997W	Now	JC311277X	01 OCT 2014\$	29 SEP 2014

* Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2014 without effect on pay and allce.

Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2014 without effect on pay and allce.

\$ Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 29 Sep 2014 without effect on pay and allce.

TO BE NB SUB (SKsT)

HAV/SKT	BHOSALE VIJAY KUMAR DHONDIRAM	15310656N	JC311288K	01/11/2014 @
HAV/SKT	S ARULAPPAN	15310244M	JC311289M	11/11/2014 #

LEGEND

@ Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2012 without effect on pay and allce.

Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2013 without effect on pay and allce.

HAV/SKT	V ALBERT JULIAN	15309758X	JC311320N	01/12/2014 @
---------	-----------------	-----------	-----------	--------------

LEGEND

@ Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012 without effect on pay and allce.

TO BE NB SUB CLKs (SD)

HAV/CLK (SD)	KILAPARTI SRINIVAS	15311496L	JC 311314A	01/12/2014	J/35/CA2(C) dt 25 Oct 14
HAV/CLK (SD)	UPPADA RAMA RAO	15311501L	JC 311315H	01/12/2014	
HAV/CLK (SD)	SURESH B	15311517W	JC 311316L	01/12/2014	
HAV/CLK (SD)	MORE DNYANDEV VITHOBA	15311518Y	JC 311317N	01/12/2014	
HAV/CLK (SD)	MADHUSUDANAN PILLAI R	15311520W	JC 311318W	01/12/2014	
HAV/CLK (SD)	JOHNSON K MATHAI	15311521Y	JC 311319Y	01/12/2014	

HAV/CLK (SD)	MURUGESAN MP	15311329P	JC311258M	01/10/2014	J/30/CA2(C) dt 14 Aug 14
HAV/CLK (SD)	G THIRUPATHI	15311346P	JC311262P	01/10/2014	
HAV/CLK (SD)	VIJAY FERNANDEZ	15310172N	JC311278A	01/11/2014#	J/33/CA2(C) dt 11 Oct 14
HAV/CLK (SD)	ARANGA NATHAN M	15311403L	JC 311279H	01/11/2014	
HAV/CLK (SD)	TN MANI	15311404N	JC 311280X	01/11/2014	
HAV/CLK (SD)	GL KANIKKAIRAJ	15311412M	JC 311281A	01/11/2014	
HAV/CLK (SD)	SINDHA NATWAR SINH	15311462X	JC 311282H	01/11/2014	
HAV/CLK (SD)	PITTA MOHANA RAO	15311465L	JC 311283L	01/11/2014	
HAV/CLK (SD)	SRINIVASA RAO SAMPATI RAO	15311467W	JC 311284N	21/11/2014 @	
HAV/CLK (SD)	SEEPANA LAKSHMAN RAO	15311470W	JC 311285W	01/11/2014	
HAV/CLK (SD)	PATTAN AMANULLAH KHAN	15311475P	JC 311286Y	01/11/2014	
HAV/CLK (SD)	SURESH SINGH	15311477A	JC 311287F	01/11/2014	

Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2013 without effect on pay and allce.

@ Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2014 without effect on pay and allce.

MAN MOHAN
Under Secretary

ARMY BRANCH

No. 130, dated 8th May 2015—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

INFANTRY

BRIGADE OF THE GUARDS

TO BE SUBEDAR

Nb Sub	Rakesh Kumar	JC-404457M	22 Nov 2014*
*Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allce wef 01 Nov 2014.			
Nb Sub	Thomas EA	JC-404458P	22 Nov 2014*
*Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allce wef 01 Nov 2014.			
Nb Sub	Ram Gopal Shukla	JC-404926K	10 Dec 2014*
*Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allce wef 01 Dec 2014.			
Nb Sub	Hukum Singh	JC-404816P	01 Dec 2014
Nb Sub	Jai Singh Kulhari	JC-404759Y	07 Jan 2015*
*Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allce wef 01 Jan 2015.			

Nb Sub	Rakesh Kumar Sharma	JC-404432A	01 Jan 2015
Nb Sub	Sant Singh	JC-404433H	01 Jan 2015
Nb Sub	Govind Singh	JC-404680W	02 Feb 2015*
*Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allce wef 01 Feb 2015.			
Nb Sub	Dwipen Gogoi	JC-404871L	01 Feb 2015
Nb Sub	Ajay Kumar	JC-404706A	01 Feb 2015
Nb Sub	Jape Manik Rao Machhindra	JC-404942F	03 Feb 2015*
*Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allce wef 01 Feb 2015.			
Nb Sub	Bhosale Tukaram Bajirao	JC-404945P	03 Feb 2015*
*Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allce wef 01 Feb 2015.			
Nb Sub	Tej Singh	JC-404618K	01 Jan 2015
Nb Sub	Rajesh Kumar	JC-404785A	01 Jan 2015
Nb Sub	Amar Singh	JC-404796M	17 Feb 2015*
*Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allce wef 01 Jan 2015.			
Nb Sub	Bhagirathmal Jat	JC-404907Y	28 Jan 2015*
*Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allce wef 01 Jan 2015.			
Nb Sub	Kuldip Chand Sharma	JC-404950A	01 Mar 2015
Nb Sub	Vinu Kumar R	JC-404700Y	07 Jan 2015*
*Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allce wef 01 Jan 2015.			
Nb Sub	Ranjeet Singh	JC-404734M	01 Mar 2015
Nb Sub	Bikram Singh	JC-404968W	01 Mar 2015
Nb Sub	Abadhesh Kumar	JC-404992M	01 Mar 2015
Nb Sub	Mewa Lal	JC-404434L	01 Feb 2015
Nb Sub	Kandra Pradhan	JC-404435N	01 Feb 2015
Nb Sub	Patita Paban Rout	JC-404491M	01 Mar 2015
Nb Sub	Praveen Kumar Singh Tomar	JC-404763F	27 Jan 2015*
*Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allce wef 01 Jan 2015.			
Nb Sub	Ajimon KC	JC-404769H	28 Jan 2015*
*Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allce wef 01 Jan 2015.			
Nb Sub	Santhosh CJ	JC-404476X	02 Feb 2015*
*Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allce wef 01 Feb 2015.			
Nb Sub	Yashwant Singh	JC-404720P	03 Mar 2015*
*Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allce wef 01 Mar 2015.			

TO BE SUBEDAR (CLERK SD)

Nb Sub (Clk SD)	Vijendra Singh	JC-404899L	01 Jan 2015
Nb Sub (Clk SD)	Om Prakash Singh	JC-404920H	01 Feb 2015
Nb Sub (Clk SD)	Bibekananda Haldar	JC-404933A	01 Feb 2015
Nb Sub (Clk SD)	Darbara Singh Sidhu	JC-404946X	01 Feb 2015
Nb Sub (Clk SD)	Ikbāl Khan	JC-404947A	01 Feb 2015
Nb Sub (Clk SD)	Ramesh Pratap Singh	JC-404975M	01 Feb 2015
Nb Sub (Clk SD)	Mrutunjaya Tripathy	JC-404976P	01 Feb 2015

TO BE SUBEDAR (SKT)

Nb Sub (SKT)	Ravinder Singh	JC-404842W	01 Mar 2015
--------------	----------------	------------	-------------

TO BE SUBEDAR (RT)

Nb Sub (RT)	Chetany Prakash Sharma	JC-403429N	01 Jan 2015
-------------	------------------------	------------	-------------

TO BE NAIB SUBEDAR

Hav	Maya Ram Sahu	13693440P	now	JC-405291H	24 Dec 2014*
-----	---------------	-----------	-----	------------	--------------

*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Sep 2014.

Hav	Satyvan Singh	13692949P	now	JC-405277W	21 Nov 2014*
-----	---------------	-----------	-----	------------	--------------

*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Oct 2014.

Hav	Dwig Vijay Singh Yadav	13693112F	now	JC-405305X	02 Dec 2014*
-----	------------------------	-----------	-----	------------	--------------

*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Dec 2014.

Hav	Om Prakash Singh Yadav	13693392A	now	JC-405306A	01 Jan 2015
-----	------------------------	-----------	-----	------------	-------------

Hav	Sanyasayya Kenguva	13693928L	now	JC-405294W	22 Nov 2014*
-----	--------------------	-----------	-----	------------	--------------

*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Nov 2014.

Hav	Ravi Chandran G	13694434N	now	JC-405295Y	01 Nov 2014
-----	-----------------	-----------	-----	------------	-------------

Hav	Suresh Kumar	13693318Y	now	JC-405314Y	01 Dec 2014
-----	--------------	-----------	-----	------------	-------------

Hav	Nishan Singh	13692566H	now	JC-405298M	01 Dec 2014
-----	--------------	-----------	-----	------------	-------------

Hav	Dharmender	13695963M	now	JC-405302K	01 Jan 2015
-----	------------	-----------	-----	------------	-------------

Hav	Rajiv Kumar Sharma	13693615M	now	JC-405289L	01 Jan 2015
-----	--------------------	-----------	-----	------------	-------------

Hav	Darbara Singh	13692618N	now	JC-405316K	01 Feb 2015
-----	---------------	-----------	-----	------------	-------------

Hav	Om Prakash	13692731H	now	JC-405317M	01 Feb 2015
-----	------------	-----------	-----	------------	-------------

Hav	Subhash Chander	13695497H	now	JC-405292L	27 Dec 2014*
-----	-----------------	-----------	-----	------------	--------------

*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Sep 2014.

Hav	Kundan Singh	13695808L	now	JC-405293N	01 Jan 2015*
-----	--------------	-----------	-----	------------	--------------

*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Sep 2014.

Hav	Surat Singh	13695972N	now	JC-405296F	27 Dec 2014*
-----	-------------	-----------	-----	------------	--------------

*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Nov 2014.

Hav	Inder Singh Kharayat	13692475Y	now	JC-405313W	01 Feb 2015
-----	----------------------	-----------	-----	------------	-------------

Hav	Chandra Vir Singh	13692849K	now	JC-405299P	01 Jan 2015*
-----	-------------------	-----------	-----	------------	--------------

*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Dec 2014.

Hav	Lajja Ram Gurjar	13693464Y	now	JC-405290A	01 Jan 2015
Hav	Ashok Kumar	13693495Y	now	JC-405318P	03 Feb 2015*
*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Feb 2015.					
Hav	Anil Kumar	13693523A	now	JC-405320M	03 Feb 2015*
*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Feb 2015.					
Hav	Krishna Pal Singh	13695628H	now	JC-405303M	01 Jan 2015
Hav	Raj Kumar	13693013Y	now	JC-405297K	01 Jan 2015*
*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Dec 2014.					
Hav	Ashok Kumar	13693334W	now	JC-405287A	01 Jan 2015
Hav	Jaipal Singh	13693340K	now	JC-405288H	01 Jan 2015
Hav	Ravindra Singh	13694726W	now	JC-405326N	01 Mar 2015
Hav	Ved Prakash Bangrwa	13694155H	now	JC-405323A	23 Feb 2015*
*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Jan 2015.					
Hav	Kuldip Singh	13692832W	now	JC-405327W	02 Mar 2015*
*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Mar 2015.					
Hav	Prem Pal	13693197H	now	JC-405328Y	01 Mar 2015
Hav	Sanjay Kumar Pandey	13693223Y	now	JC-405300Y	13 Jan 2015*
*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 31 Dec 2014.					
Hav	Satyajeet Yadav	13693885F	now	JC-405301F	13 Jan 2015*
*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 31 Dec 2014.					
Hav	Chandra Kanta Gogoi	13693738Y	now	JC-405319X	03 Feb 2015*
*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Feb 2015.					
Hav	Shiv Dani Lal	13692818K	now	JC-405321P	05 Feb 2015*
*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Feb 2015.					
Hav	Balbeer	13693854F	now	JC-405329F	01 Mar 2015
Hav	Ram Sharan	13695390N	now	JC-405304P	23 Jan 2015*
*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 12 Nov 2014.					
Hav	G Aji Kumar	13696389L	now	JC-405322X	23 Jan 2015*
*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 17 Dec 2014.					
Hav	S Gopala Krishnan	13694455K	now	JC-405315F	01 Feb 2015

TO BE NAIB SUBEDAR (CLERK SD)

Hav (Clk SD)	Pramod Kumar Pandey	1491662X	now	JC-405286X	01 Jan 2015
Hav (Clk SD)	Satish Kumar	13695866P	now	JC-405307H	02 Feb 2015*
*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Feb 2015.					
Hav (Clk SD)	Sardar Singh Daroga	13693446W	now	JC-405308L	01 Feb 2015
Hav (Clk SD)	Ram Murti Sharma	13695908W	now	JC-405309N	01 Feb 2015
Hav (Clk SD)	Pramod Kumar Panda	13695946M	now	JC-405310H	01 Feb 2015

Hav (Clk SD)	Rajesh Prasad	13695975F	now	JC-405311L	02 Feb 2015*
-----------------	---------------	-----------	-----	------------	--------------

*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Feb 2015.

Hav (Clk SD)	Harpal Singh	13696148L	now	JC-405312N	02 Feb 2015*
-----------------	--------------	-----------	-----	------------	--------------

*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Feb 2015.

Hav (Clk SD)	Ballo Charanjeet Singh Gurdas Singh	13696242P	now	JC-405325L	02 Mar 2015*
-----------------	-------------------------------------	-----------	-----	------------	--------------

*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Mar 2015.

TO BE NAIB SUBEDAR (SKT)

Hav (SKT)	Jaisa Ram Gurjar	13693102X	now	JC-405324H	01 Mar 2015
--------------	------------------	-----------	-----	------------	-------------

TO BE NAIB SUBEDAR (MUSN)

Hav (Musn)	Prakash Chandra	13694507P	now	JC-405282F	05 Jan 2015*
---------------	-----------------	-----------	-----	------------	--------------

*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 03 Nov 2014.

RAJEEV JAUHARI
Under Secretary

ARMY BRANCH

No. 131, dated 11th May 2015—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS

TO BE SUBSTANTIVE SUBEDAR

Sub	CM Arul Nambi	(JC-826252L)	01 Aug 2014
Sub	V Dayalan	(JC-826253N)	01 Oct 2014 21 Sep 2014*
Sub	G Asokan	(JC-826254W)	01 Oct 2014
Sub	Harindra Kumar Singh	(JC-826255Y)	08 Nov 2014 01 Nov 2014*
Sub	Ram Singh Thakur	(JC-826250A)	01 Jan 2015
Sub	Nathu Singh Rathore	(JC-826256F)	01 Jan 2015
Sub	Murugan S	(JC-826258M)	01 Jan 2015
Sub	Raveendra M Navar	(JC-826259P)	01 Feb 2015

TO BE NAIB SUBEDAR

BHM	S Balasubramani	No 13986612P	(Now JC-826301H)	01 Aug 2014
BHM	Chavan Kishor Shantaram	No 2791227X	(Now JC-826302L)	04 Oct 2014 21 Sep 2014*
BHM	Sanjay Kumar Rana	No 13755586N	(Now JC-826303N)	01 Oct 2014
BHM	Randeep Kumar	No 3187530A	(Now JC-826304W)	01 Oct 2014
BHM	Ganesha Ram Kumhar	No 13694005M	(Now JC-826305Y)	01 Nov 2014
BHM	Ajeet Singh	No 2888720P	(Now JC-826306F)	01 Nov 2014

BHM	Shanmukha N	No 2597518K	(Now JC-826307K)	23 Dec 2014 01 Nov 2014*
BHM	Murugan G	No 15313237F	(Now JC-826308M)	17 Jan 2015 01 Jan 2015*
BHM	B Suresh Kumar	No 2598014H	(Now JC-826309P)	01 Jan 2015
BHM	Vinod Kumar	No 3993203M	(Now JC-826310K)	01 Jan 2015
BHM	Ram Chandra Shrestha	No 5247268F	(Now JC-826311M)	02 Feb 2015 01 Feb 2015*

* Date of Seniority without effect on pay and allowances.

N. B. MANI
Under Secretary

ARMY BRANCH

No. 132, dated 11th May 2015— The President is pleased to make the following promotions:—

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERING

TO BE SUB MASTER TECH AVN (AE)

Sanap Eknath Martand	(JC-767373M)	03 Nov 2014 01 Nov 2014*
Mithilesh Kumar Rai	(JC-767372K)	01 Nov 2014

TO BE SUB MASTER TECH AVN (AVS)

Anil Kumar	(JC-767721H)	01 Nov 2014
Haradhan Mondal	(JC-767384Y)	01 Nov 2014

TO BE SUB MASTER TECH (GUN)

Sujit Mondal	(JC-763008N)	01 Oct 2014
Santosh Kumar Rai	(JC-763468P)	01 Nov 2014

TO BE SUB MASTER TECH (ELECT)

Braham Pal	(JC-763385K)	01 Nov 2014
Naresh Kumar	(JC-763381N)	01 Nov 2014
Azad Kumar	(JC-763382W)	01 Nov 2014
Amir Chand	(JC-763384F)	01 Nov 2014
Ram Dayal Singh	(JC-763334W)	03 Nov 2014 01 Nov 2014*
Maddur Ramesh Shiwagond	(JC-763380L)	03 Nov 2014 01 Nov 2014*

TO BE SUB MASTER TECH (SA)

Prasad PR	(JC-763527W)	01 Nov 2014
Ajoy Kumar Das	(JC-763463W)	01 Nov 2014
Gulab Singh	(JC-763331H)	01 Nov 2014
Jaya Prakashan VK	(JC-763329L)	01 Nov 2014

TO BE SUB MASTER TECH (NW)

Chandar Singh	(JC-763269F)	01 Nov 2014
Thiru Mal D	(JC-763209M)	01 Nov 2014
Jawahar Singh Dudi	(JC-763204N)	27 Oct 2014 01 Oct 2014*

TO BE SUB MASTER TECH (B VEH)

Ravindra Kumar	(JC-763242K)	01 Nov 2014
Gopal A	(JC-763401W)	10 Nov 2014
		01 Nov 2014*
Nand Lal Yadav	(JC-763245X)	01 Nov 2014
Manphool Bishnoi	(JC-763403F)	01 Nov 2014
Bibhupadar Binda Pradhan	(JC-763247H)	01 Nov 2014
Munna Kumar Singh	(JC-763326X)	03 Nov 2014
		01 Nov 2014*
Biju John	(JC-763399K)	10 Nov 2014
		01 Nov 2014*
Avadhesh Kumar Mishra	(JC-763541H)	11 Nov 2014
		01 Nov 2014*

TO BE SUB MASTER TECH (GCE)

Gyanendra	(JC-763182A)	01 Nov 2014
-----------	--------------	-------------

TO BE SUB MASTER TECH (RDR)

Baikuntha Barik	(JC-762976Y)	01 Oct 2014
Bishamber Dass Chowdhary	(JC-763332L)	03 Nov 2014
		01 Nov 2014*
Anil Kumar Sharma	(JC-762963F)	01 Nov 2014
		01 Oct 2014*

TO BE SUB AUTO TECH (B VEH)

Lalit Kumar Singh	(JC-768135M)	01 Nov 2014
		01 Jan 2014*
Uttam Kumar Tiwari	(JC-768136P)	05 Nov 2014
		01 Jan 2014*
Shiv Shankar Maurya	(JC-768139H)	01 Nov 2014
		01 Jan 2014*

TO BE SUB MASTER TECH (C VEH)

Patil Sudhakar Raghunath	(JC-762740K)	14 Aug 2014
		01 Aug 2014*

TO BE SUB AUTO TECH (B VEH)

Shyam Bihari Mishra	(JC-768250M)	01 Nov 2014
		01 Jan 2014*

TO BE SUB MASTER TECH (SA)

Madhu Soodhanan Pillai C	(JC-763379W)	01 Nov 2014
Deena Nath Singh	(JC-763378N)	01 Nov 2014
Lukka Venkateswara Rao	(JC-763330A)	10 Nov 2014
		01 Nov 2014*
Banwari Lal Sharma	(JC-763377L)	01 Nov 2014

TO BE SUB MASTER TECH (GCE)

Rabindra Chnadra Roy	(JC-763183H)	01 Nov 2014
----------------------	--------------	-------------

TO BE SUB MASTER TECH (ELECT)

Santosh Kumar P R	(JC-764522K)	01 Nov 2014
Dashrath Samre	(JC-764523M)	10 Nov 2014
		01 Nov 2014*

TO BE SUB MASTER TECH (B VEH)

S Thangavelu	(JC-763400N)	01 Nov 2014
Thanja Samy E	(JC-763405M)	01 Nov 2014
Prem Paul	(JC-763467M)	01 Nov 2014
Thiruvengadam R	(JC-763464Y)	04 Nov 2014
		01 Nov 2014*
Chandra Pal	(JC-763412H)	14 Nov 2014
		01 Nov 2014*
Uda Ram Kumawat	(JC-764292F)	01 Nov 2014
Jayanta Kumar Ray	(JC-763408A)	01 Nov 2014
Jang Bahadur Singh	(JC-763411A)	01 Nov 2014

TO BE SUB MASTER TECH (GUN)

Prem Singh	(JC-763522X)	01 Nov 2014
Raj Kumar Tiwari	(JC-763375A)	01 Nov 2014
A Parama Raj	(JC-763374X)	01 Nov 2014

TO BE SUB MASTER TECH (NW)

S Velmurugan	(JC-763268Y)	17 Nov 2014
		01 Nov 2014*
Khedkar Shahadeo Ganpat	(JC-763458L)	01 Nov 2014

TO BE SUB MASTER TECH (A VEH)

Balwinder Singh	(JC-763333N)	14 Nov 2014
		01 Nov 2014*

TO BE SUB MASTER TECH AVN (AE)

Subhas Chandra Dalal	(JC-767374P)	12 Nov 2014
		01 Nov 2014*
Niladri Kesari Panda	(JC-767277H)	15 Nov 2014
		01 Nov 2014*

TO BE SUB MASTER TECH (ELECT)

Hans Raj	(JC-767381L)	01 Nov 2014
----------	--------------	-------------

TO BE SUB MASTER TECH AVN (AVS)

Anil Kumar V S	(JC-767386K)	03 Nov 2014
		01 Nov 2014*
Nageshwara Reddi Maddi	(JC-767385F)	03 Nov 2014
		01 Nov 2014*

TO BE SUB MASTER TECH AVN (AE)

Sukhvir Singh	(JC-767375X)	12 Nov 2014
		01 Nov 2014*
Ram Kishor Singh	(JC-767376A)	12 Nov 2014
		01 Nov 2014*

Kamalesh KR Pandey	(JC-767378L)	12 Nov 2014 01 Nov 2014*
Ravi Shankar Dubey	(JC-767371F)	05 Nov 2014 01 Nov 2014*
TO BE SUB MASTER TECH AVN (AVS)		
Rakesh Jamwal	(JC-767382N)	01 Nov 2014
TO BE SUB MASTER TECH AVN (AF)		
Dalbir Singh	(JC-767366W)	15 Nov 2014 01 Nov 2014*
Sunkari Sammaiah	(JC-767365N)	18 Nov 2014 01 Nov 2014*
TO BE SUB TECH (SA)		
Donkar Tanaji Pandurang	(JC-767298N)	01 Nov 2014

* Gtd ante date seniority

ARMOURED CORPS

(To be NBRIS)

DFR(CLKSD) SANTOSH KUMAR SRIVASTAV	(No. 1099154H now JC245990M)	*01 Jan 2013 *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Oct 2012 without effect on pay and allowances)
DFR(CLKSD) HARI SHANKAR YADAV	(No. 15464594F now JC245995L)	01 Nov 2012
DFR(CLKSD) RANJIT KUMAR PATRA	(No. 1486407F now JC246011P)	*06 Dec 2012 *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Dec 2012 without effect on pay and allowances)
DFR(CLKSD) ALTAF HUSSAIN	(No. 1098757M now JC246014H)	01 Dec 2012
DFR(CLKSD) SATISH KUMAR SINGH	(No. 15461244K now JC246013A)	01 Dec 2012
DFR(CLKSD) CHAINA RAM	(No. 15465121P now JC246012X)	01 Dec 2012
DFR(CLKSD) BALWINDER SINGH	(No. 15464301L now JC246095N)	01 Jan 2013
DFR(CLKSD) S RAJA	(No. 15465879A now JC246102Y)	01 Jan 2013
DFR(CLKSD) SURENDRA SINGH	(No. 15461360M now JC246101W)	01 Jan 2013
DFR(CLKSD) MOHAMMAD MANAUWAR	(No. 1098974H now JC246096W)	01 Jan 2013 HUSSAIN
DFR(CLKSD) VIKAS CHANDRA SINGH	(No. 1486421N now JC246098F)	01 Jan 2013
DFR(CLKSD) SUBRAMANI P	(No. 1099472M now JC246097Y)	01 Jan 2013
DFR(CLKSD) UDAL SINGH	(No. 15461367W now JC246099K)	01 Jan 2013
DFR(CLKSD) ROHTASH SINGH	(No. 15465897H now JC246103F)	01 Feb 2013
DFR(DVR/OPR) RAMESH CHANDRA	(No. 15461137H now JC246064N)	*16 Nov 2012 *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Nov 2012 without effect on pay and allowances)
DFR(OPR/GNR) DINESH KUMAR MALLAH	(No. 15461767H now JC246069M)	01 Dec 2012
DFR(OPR/GNR) OM PARKASH	(No. 15464244P now JC246083Y)	01 Jan 2013
DFR(OPR/DVR) ASHOK KUMAR	(No. 15462652F now JC246109H)	01 Feb 2013
DFR(GNR/DVR) Y KUTTY RAJA	(No. 15469702K now JC246137P)	01 Feb 2013
DFR(DVR/GNR) MAHESH SINGH	(No. 15463668Y now JC246148F)	*21 Jan 2013 *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 14 Oct 2012 without effect on pay and allowances)
DFR(GNR/DVR) SURAJ SINGH	(No. 15463802Y now JC246178Y)	01 Feb 2013
DFR(OPR/DVR) PREM NATH SINGH	(No. 15461861M now JC246181Y)	*04 Jan 2013 *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Jan 2013 without effect on pay and allowances)

DFR(DVR/GNR) NALLAGANGULA VR (No. 15462480X now JC246182F) *05 Jan 2013
 REDDY
 *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Jan 2013 without effect on pay and allowances)

DFR(GNR/OPR) RAJESH KUMAR (No. 15462958K now JC246192L) *12 Jan 2013
 *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Jan 2013 without effect on pay and allowances)

DFR(DVR/OPR) RAMESH KUMAR SINGH (No. 15462099K now JC246193N) *08 Jan 2013
 *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Jan 2013 without effect on pay and allowances)

DFR(OPR/GNR) AJAY KUMAR (No. 15467394W now JC246198M) 01 Feb 2013

DFR(GNR/OPR) ANAND KUMAR (No. 15464812P now JC246212N) 01 Feb 2013

DFR(DVR/GNR) RAMANA POLISETTI (No. 15463180H now JC246214Y) 01 Feb 2013

DFR(OPR/GNR) REJESH KUMAR SINGH (No. 15463257A now JC246215F) *06 Feb 2013
 *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Feb 2013 without effect on pay and allowances)

DFR(DVR/GNR) CHANDRA SHEKHAR (No. 15463413Y now JC246216K) 01 Feb 2013
 SINGH

DFR(DVR/GNR) RAM BHARAT YADAV (No. 15461725W now JC246220M) 01 Feb 2013

DFR(DVR/GNR) KUNDAN KUMAR (No. 15461703X now JC246221P) 01 Feb 2013

DFR(OPR/DVR) KULDIP SINGH (No. 15463243A now JC246227W) 01 Feb 2013

DFR(DVR/OPR) RANJEET SINGH (No. 15461919Y now JC246232F) 01 Feb 2013

DFR(DVR/GNR) BALWANT SINGH (No. 15463843H now JC246237A) *10 Feb 2013
 *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Jan 2013 without effect on pay and allowances)

DFR(GNR/OPR) PERDEEP KUMAR (No. 15461938K now JC246218P) 01 Feb 2013

DFR(DVR/GNR) BHARATH CHAUBEY (No. 15461864A now JC246238H) 01 Feb 2013

DFR(GNR/OPR) RADHAKRISHNAN K (No. 15461932H now JC246225L) 01 Feb 2013

DFR(OPR/GNR) MOOLA RAM (No. 15468333L now JC246240A) 01 Feb 2013

DFR(DVR/OPR) PRAVEEN KUMAR SINGH (No. 15468560L now JC246241H) 01 Feb 2013

DFR(DVR/OPR) TEJESWARA RAO MARPU (No. 15464415W now JC246251M) *05 Feb 2013
 *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 09 Jan 2013 without effect on pay and allowances)

DFR(DVR/OPR) S MURUGESH (No. 15464506A now JC246252P) 01 Feb 2013

DFR(OPR/GNR) HARI KRISHAN S (No. 15464520M now JC246253X) 01 Feb 2013

DFR(OPR/GNR) JAI PAL SINGH (No. 15465823N now JC246256L) *01 Feb 2013
 *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 18 Nov 2012 without effect on pay and allowances)

DFR(GNR/OPR) AJAY KUMAR MAHLA (No. 15465580N now JC246260N) *13 Feb 2013
 *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Feb 2013 without effect on pay and allowances)

DFR(GNR/OPR) GOPAL SINGH (No. 15461652P now JC246139A) 01 Feb 2013

DFR(CLKSD) D O SUNIL KUMAR (No. 1098990A now JC245853N) 01 Aug 2012

DFR(CLKSD) SHEO NARAYAN YADAV (No. 1089646N now JC245908M) 01 Sep 2012

RAJEEV JAUHARI
 Under Secretary

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद
 में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2015

PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
 FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015
www.dop.nic.in